



नीट विवाद : एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटाए गए



एनटीए के सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान

नई दिल्ली। नीट परीक्षा मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा एवशन लिया है। नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात उनके पद से हटा दिया है।

एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान
इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन होंगे चीफ
नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनटीए (नेशनल टैरिगिंग एजेंसी) की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया। इसरो पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के. राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। नीट एजाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एजाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा, सिक्वोरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी।

जानकारी के लिए बता दें कि सुबोध कुमार सिंह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अनिवार्य प्रतीक्षा पर रखा गया है। फिलहाल उनके स्थान पर 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप सिंह करोला को अगले आदेश तक उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। पिछले दो महीनों से एनटीए देश की दो सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर विवादों में घिरा हुआ है।

जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी को दी बड़ी सौगात, रेलवे समेत कई चीजों में टैक्स से राहत प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट

- फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी
- सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत कर
- सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए भी पहल



नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने सेवाओं पर बड़ा फैसला किया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावे डॉमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। किसी खास समाज की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल पर भी जीएसटी देय नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति वहां 90 दिन लगातार रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है।

53 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 20 एसजीएसटी कर दी की। यह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि है।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी तरह के संशोधन की जरूरत भी नहीं। राज्यों को हमारे साथ मिलकर प्यूल पर जीएसटी दर तय करने की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब करीब दो महीने बाद अगस्त में होगी। उसी में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण मिलेगा।

बसपा में फिर बढ़ा आकाश आनंद का सियासी कद

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा उप-चुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मंगलौर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख मायावती सहित आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लिस्ट में बड़ा नाम भतीजे आकाश आनंद का है। जिन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था लेकिन एक बार फिर उनके नाम से यह सफा हो गया है कि पार्टी में उनकी वापसी अब तय हो गई है। वहीं बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई है। मंगलौर सीट से बसपा ने पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र जेठूहमान को ही टिकट दिया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है।

भारत-बांग्लादेश के बीच 10 समझौते, बांग्लादेश को मिली बड़ी सौगात ई-मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत

- एक महीने में दूसरी बार भारत आई शेख हसीना
- रतम शर्मा बने एडीजी जॉन बरेली
- बांग्लादेश सबसे बड़ा विकास साझेदार: मोदी



नई दिल्ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। जल्द ही बांग्लादेश से भारत इलाज करवाने आने वाले लोगों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रांपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल की है। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट

मैडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रांपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल की है। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट

भारत हमारा विश्वसनीय मित्र : शेख हसीना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के 12वें संसदीय चुनाव और जनवरी 2024 में हमारी नई सरकार के गठन के बाद यह किसी भी देश की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ हमारे संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान पैदा हुए थे। मैं भारत के उन बहादुर, शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता से पहले कई समझौतों पर मुहर लगी। भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौतों और ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

हो गई है। भारतीय फ़ाइड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का पहला उदाहरण है। सिर्फ एक साल में इतने सारे क्षेत्रों में इतनी बड़ी पहल को लागू करना हमारे संबंधों की गति और पैमाने को दर्शाता है। शनिवार को भारत ब्रह्मना बांग्लादेश के बीच टी-20 विश्वकप 2024 का मैच खेला जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की टीमों को शुभकामनाएं दीं। इससे पहले भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

अवैध देशी शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 53 हुई



सदर अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम एके स्टालिन
कलकत्ता। तमिलनाडु के कलकत्ता जिले में अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़ कर 53 हो गई। प्रशासन ने यह जानकारी दी। प्रशासन ने बताया कि अवैध देशी शराब पीने से बीमार हुए 140 लोगों की हालत अभी स्थिर है। कलकत्ता के जिलाधिकारी एम.एस. प्रसाद ने बताया कि जिले में मंगलवार रात अवैध देशी शराब पीने से 193 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, हालांकि उनमें से 140 लोगों की हालत

अवैध रेत खनन मामले में सीबीआई ने राजस्थान में 10 स्थानों पर छापे मारे

जयपुर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को राज्य में अवैध रेत खनन के सिलसिले में राजस्थान भर में 10 स्थानों पर छापे मारे। एजेंसी अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने पश्चिमी राज के जयपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, करौली और सीकर में विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक की नकदी और एक देखी पिस्तौल जब्त की। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बूंदी पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए अवैध रेत खनन मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शहरख को पिछले साल 24 अक्टूबर को बिना किसी वैध परमिट के पंजीकरण संख्या आरजे-08-जीबी-3162 वाले वाहन (डंबर) में 40 मीट्रिक टन लघु-खनिज (रेत) ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड पहाड़ी क्षेत्र भी हीटवेव की चपेट में, मई रहा सबसे गर्म महीना



अब तक का सबसे गर्म मई का महीना था। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्से प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। इस साल देश सबसे लंबी और भीषण गर्मी झेल रहा है। साल 2024 पिछले 15 वर्षों में सबसे तीव्र और सबसे अधिक हीटवेव वाले दिनों वाला वर्ष बनने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चला है कि 1 मार्च से 9 जून के बीच 15 से अधिक हीटवेव वाले दिन दर्ज किए गए हैं। आमतौर पर औसतन 6-8 लू वाले दिन होते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 15 सालों में सबसे अधिक हीटवेव वाले दिन 2024 में देखने को मिले हैं। सबसे अधिक हीटवेव वाले (27) दिन ऑडिशा में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद राजस्थान (23), गंगीय पश्चिम बंगाल (21), हरियाणा (20), चंडीगढ़ (20), दिल्ली (20) और पश्चिम उत्तर प्रदेश (20) का स्थान

पूर्वी एशिया में बढ़ा तनाव

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 सालों में पहली बार इस हफ्ते उत्तर कोरिया का दौरा किया और वहां के शासक किम जोंग उन के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी बीच शनिवार को परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक अमेरिकी विमानवाहक जहाज थियोडोर रूजवेल्ट दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बूसान पहुंचा है। दक्षिण कोरिया की नौसेना के मुताबिक ये जहाज इस दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। बता दें कि अगस्त 2023 में कैप डेविड शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के नेताओं ने वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण चीन सागर के विवादास्पद जलमयों में चीन के खतरनाक और आक्रामक व्यवहार की निंदा की थी। वहीं रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुआ रक्षा समझौता कई सालों से एशिया में रूस के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक था, जिसे किम जोंग उन की तरफ से गठबंधन के रूप में बताया गया।

निर्देश बिजली के नाम पर उपभोक्ताओं को न करें परेशान बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें अधिकारी: योगी

- बैठक
- समय पर और बिना जुरि के हर उपभोक्ता के घर तक पहुंचे बिजली बिल
- उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में करें जागरूक



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था की गुणवत्ता दुरुस्त की जाए। बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को कहीं परेशान न किया जाए। हर हाल में उपभोक्ताओं को समय पर सही बिजली बिल मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को सरकारी आवास पर उर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतिकरण का

अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर गुणवत्ता पर देना होगा। बिजली का बिल समय से जमा करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। बिजनेस प्रकाशकों को सरकारी आवास पर उर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतिकरण का

बिजली आपूर्ति बंद शटडउन की जाती है तो कब और कितनी देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उर्जा विभाग के अधिकारियों ने उपलब्धियां गिनाईं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद केवल स्थानीय खराबी को छोड़ दे तो बीते 15 मार्च से 24 फेब्रुवारी आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं, वहीं दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। 2024 में अब तक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

राहुल गांधी ने राजकोट गेम जॉन के पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की

राजकोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जॉन में लगी आग की घटना के कुछ पीड़ितों के परिजनों से शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और कहा कि पार्टी उनके साथ है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। राजकोट शहर के नाना-मावा इलाके में 25 मई को गेम जॉन में लगी भीषण आग में चार बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। गांधी ने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले कुछ पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। पार्टी के एक सूत्र ने बताया, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर यहां पथिक आश्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गेम जॉन आग की घटना के कुछ पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। बातचीत करीब आधे घंटे तक चली। उन्होंने संवेदन व्यक्त की और कहा कि पार्टी उनके साथ है।

उरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर



श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के गोहलान इलाके में भारतीय सेना और संयुक्त सुरक्षा बलों ने शनिवार को घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों ने उरी के पास दो आतंकवादी भार गिराने में भी कामयाबी पाई है। ये दोनों घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। फिलहाल मारे गए आतंकियों के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। सुरक्षाबल इनकी पहचान में जुटे हुए हैं। इससे पहले बीते बुधवार 21 जून को बारामूला में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। ये दोनों तश्कर-ए-ताइबा से जुड़े थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी उत्तरी कश्मीर में फिर से आतंकवाद को सक्रिय करने की साजिश रच रहा है। इस क्षेत्र में 2005 से 2015 तक आतंक फैला था। हालांकि 2019 में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक मुहिम के तहत बारामूला जिले को आतंकी मुक्त घोषित किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तानी मूल के विदेशी आतंकियों की संख्या अभी स्थानीय आतंकियों से ज्यादा है, लेकिन इनका सफाया किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है।

पेड़ की छाँट कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से मौत

अवधानामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। कचहरी परिसर में पेड़ की छाँट कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से



मौत हो गई। जानकारी पर मौके पर परिजन पहुंचे और करीब एक घंटे तक हंगामा काटा। हालांकि सीडीओ और एडीएम के समझाने के बाद परिजन माने। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता के

चैंबर के पास संजय 30 पुत्र मटरू निवासी ग्राम मनीकापुर थाना फरधाना शुक्रवार सुबह अपने दो साथियों के साथ पेड़ की छाँट कर आया था। सभी को पड़ेसी गांव के ही ठेकेदार ने भेजा था। सुबह संजय पेड़ की छाँट कर रहा था। इसी दौरान पेड़ पर करंट महसूस हुआ। साथियों के मुताबिक इसकी जानकारी अधिवक्ता के साथ ही ठेकेदार को दी गई, लेकिन किसी ने भी लाइन नहीं कटवाई। कुछ ही देर के बाद

अचानक संजय बिजली के तार से चिपक गया। घटना की सूचना मिलने के बाद संजय को किसी तरह से छुड़ाया और जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजन ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव जमीन पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया है। परिजन लापरवाह बिजली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। कचहरी में हंगामे की जानकारी होने के बाद सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह के साथ पुलिस मौके पर पहुंचे। सीडीओ ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढाँस बंधाया। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए मुआवजा दिलाने की बात कही। इसके बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोटेदार पर कम राशन देने का लगाया आरोप

अवधानामा संवाददाता

मोहम्मदी-खीरी। गरीब को मिले दो समय का भोजन के लिये सरकार प्रतिवर्ष सैकड़ों कुन्टल खाद्यन्न का फी वितरण कर रही है ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोये जिसके लिये सरकार तरह-तरह के उपाय कर रही है परन्तु सावर्जनिक वितरण प्रणाली में लगा भ्रष्टाचार का घुन खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला विकास खण्ड पसगवा के ग्राम सुनौरा का सामने आया है जहाँ ग्रामीणों ने कोटेदार राम बेटी पर गम्भीर आरोप लगाते हुआ एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को लिखित में दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार हर माह वितरण के समय कालीबंदी से मशीन पर अंगूठा लगा लेता है और फिर प्रति यूनिट पर चार किलो ही राशन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में

तमाम बार शिकायत तहसील स्तर के अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई कोटेदार पर नहीं होने से दबंग कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को लगातार कम राशन दिया जा रहा है। तहसील स्तर से कार्यवाही न होते देख ग्रामीणो उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्रामीणों ने कोटेदार पर कठोर कार्यवाही की मांग की है।



डीसीएम को पीछे करते समय पहिये के नीचे दबने से फार्म मालिक की मौत

लखीमपुर खीरी। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सिसौरा गांव में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। घर के पास बने पोल्ट्री फार्म में मुगों भरने आई डीसीएम को पीछे करते समय पहिये के नीचे दबने से फार्म मालिक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोल्ट्री फार्म मालिक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुग हो गया। सिसौरा गांव निवासी मस्त राम के पांच बेटे हैं। मंजला बेटा श्याम सुंदर (28) घर के पास बने पोल्ट्री फार्म की देखरेख और कामकाज संभालता था। शनिवार को फार्म में तैयार मुगों को बिक्री के लिए भेजने के लिए सात डीसीएम आई थीं। तड़के तीन बजे तक चार डीसीएम लोड हो चुकी थी। पांचवाँ डीसीएम भी चालक लेकर आ गया। उसने डीसीएम खड़ी कर दी। कुछ देर बाद श्याम सुंदर डीसीएम से कुछ दूर पीछे जाकर जमीन पर लेट गया और मजदूरों से बातें करने लगा। इसी दौरान चालक ने अचानक डीसीएम स्टार्ट की और बैक करने लगा। जिससे श्याम सुंदर डीसीएम के पिछले पहिये के नीचे दब गया। पास में खड़े मजदूरों ने शोर मचाया, तब जाकर डीसीएम आगे बढ़ी। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहाँ इलाज शुरू ही हुआ थी कि सुबह पांच बजे उसकी मौत हो गई। सूचना पर फूलबेहड़ पुलिस ने जांच की। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर डीसीएम को कब्जे में लिया है।

धूमधाम के साथ मनाया

गुरु हरगोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव

सहारनपुर। सिक्खों के गुरु हरगोविंद महाराज का प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गौशाला रोड स्थित पंजाबी गुरुद्वारा में गुरु हरगोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में पाठ का भोग डाला गया। तत्पश्चात सुखमार्ग साहब का पाठ हुआ। इस अवसर पर दबवार साहब अमृतसर से सिंह साहब ज्ञानी बलजीत सिंह ने हनुमाना लिया व कथा की। पंजाबी गुरुद्वारा के रगी जय्ये भाई शरणजीत सिंह व दरबार साहब अमृतसर से आये रगी जय्ये भाई स्वर्ण सिंह ने कीर्तन कर संगत का मनमोह लिया। तत्पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरपा गया। इस दौरान गुरुद्वारा के प्रधान जितेश कुमार, सकुलवंत सिंह भट्टिया, नरेन्द्र सिंह, स.गोविंद सिंह, महेश पाहवा, सुन्दर सिंह भंडा, सुशील कपूर, राजीव अरोड़ा, हेमन्त बठना, प्रदीप कुमार, अमित सिंह समेत भारी संख्या में संगत मौजूद रही।

थाना भदोखर में डीएम एसपी ने सुनी लोगों की फरियाद

अवधानामा संवाददाता

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक



अग्रवाल के साथ थाना भदोखर में थाना दिवस के अवसर पर लोगों की फरियाद सुनीं। उनके सामने राजस्व, आपसी रंजित तथा महिला उत्पीड़न सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष तथा

राजस्व अधिकारियों को थाना दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किए जाने का

लोगों की फरियाद

ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी किया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच आदि पूरी तरह से निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ करे। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करे तथा निर्दोष के खिलाफ फर्जी कोई कार्यवाही न की जाये। जिलाधिकारी ने राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम बनाकर तथा मौके पर जाकर दोनों पक्षों को सुनते हुए समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने थाना दिवस रजिस्टर, एंटी रोमियो रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर को भी चेक किया। उन्होंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज विवादों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।

इस अवसर पर सीओ सिटी अमित सिंह, नायब तहसीलदार सदर मो० शमीम के अतिरिक्त राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

डीएम-एसपी ने सारस चौराहे पर बनाये गये कुलिंग

पाँडट में मूलभूत व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण



अवधानामा संवाददाता

रायबरेली। भीषण गर्मी व हीट वेव को लेकर राहगीरों/मजदूरों को गर्मी/हीट वेव से राहत देने के लिए नगर पालिका द्वारा सारस चौराहे पर बनाये गए कुलिंग प्वाइंट का जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने निरीक्षण कर कुलिंग प्वाइंट की सभी मूलभूत/अधुनिक सभी सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुलिंग पाँडट में कूलर व पीने का पानी, ओआरएस

घोल व गुड़ की सुविधा के साथ लेटने व बैठने की भी सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त पाई गईं।

जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती हुई गर्मी/हीटवेव को दृष्टिगत शासन व प्रशासन द्वारा राहगीरों व मजदूरों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने का लिए यह सुविधा बनाई गई। राहगीर व मजदूरों कुलिंग प्वाइंट में गर्मी से राहत पाने की सभी सुविधाओं को पाकर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की पहल की सराहना कर रहे हैं। इस अवसर पर ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह की उपस्थित रहे।

मण्डलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने किया स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। मण्डलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने तहसील बेहट पहुँचकर निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर कॉलेज का निर्माण माह जुलाई के अन्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। माह अगस्त-2024 से स्पोर्ट्स कॉलेज क्रियाशील किया जाना है। मण्डलायुक्त को कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की ओर से 07 करोड़ २०० की किश्त प्राप्त हो चुकी है तथा २०० 21 करोड़ की किश्त शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है जल्दी ही प्रास हो जायेगी। मौके पर श्रेणी-1 के 12 आवासों में ब्रिक कोबा, किचन, सीसीटी फ्लोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है तथा विद्युतीकरण व रॉन्ग-पुटाई का कार्य प्रगति में है, जिसे तत्काल पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त द्वारा टाईप-2



व टाईप 3 के आवास भी शीघ्र पूर्ण कराये जाने तथा सभी सामग्री विशेष रूप से विद्युतीकरण कार्य में उपयोग की जाने वाली उच्च गुणवत्ता की लगाये जाने के भी निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शूटिंग रेंज का कार्य 31 जुलाई को लाभांशित कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था व त्रीडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में स्पोर्ट्स कॉलेज को माह अगस्त-2024 में क्रियाशील किया जाना है।

स्टेशन को शीघ्र क्रियाशील कराया जाए। गाईड रूम व मेन गेट जुलाई तक पूर्ण किये जाने का आश्वासन कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया। मण्डलायुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि एंग्रोज रोड के दोनों ओर व परिसर के आंतरिक सड़क मार्ग के किनारों वृहद वृक्षारोपण कराया जाए, जिसमें ज्यादा ऊँचाई वाले छायादार वृक्ष लगावाये जाए। उप श्रमायुक्त, सहारनपुर मण्डल को निर्देश दिये गये कि साईट का विजिट कर यहाँ कार्य कर रही लेबर के पंजीकरण की स्थिति देख ले और जिन श्रमिकों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण कराते हुए, विभागीय योजनाओं से श्रमिकों को लाभांशित कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था व त्रीडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में स्पोर्ट्स कॉलेज को माह अगस्त-2024 में क्रियाशील किया जाना है।

स्मार्ट सिटी सीईओ ने कार्यदायी संस्थाओं के साथ की परियोजनाओं की समीक्षा



अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। स्मार्ट सिटी सीईओ/नगरायुक्त संजय चौहान ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन स्मार्ट रोड का कार्य पूरा हो चुका है उन रोड्स पर वेस्ट मैटैरियल व अन्य कंस्ट्रक्शन का जो सामान या मलबा बिखरा पड़ा है उसे तीन दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा सामान जब्त कर पेनाल्टी लगायी जायेगी। स्मार्ट सिटी सीईओ/नगरायुक्त संजय चौहान ने यह निर्देश आज स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ परियोजनाओं

धूमधाम से नवदुर्गा मंदिर का वार्षिकोत्सव

सहारनपुर। नवदुर्गा मंदिर का 17वां वार्षिकोत्सव व क्षेत्रपाल देवता पूजन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। राजोरी गार्डन स्थित नवदुर्गा मंदिर में आयोजित 17 वें वार्षिक उत्सव एवं क्षेत्रपाल देवता पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत अखण्ड रामायण का पाठ एवं भूमियाखंडा पूजन, भजन कीर्तन कार्यक्रम एवं भण्डारा आयोजित किया गया। स्वचालक आचार्य पंडित प्रदीप तिवारी ने बताया वार्षिकोत्सव में नगर विधायक राजीव गुन्वर, महापौर डॉ.अजय कुमार सिंह ने भी पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विनोद पंचार, राजेश एडवोकेट, सुशील कुमार समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

शमशान घाट व चकरोडो की भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग

सहारनपुर। रामपुर मनिहारन विकास खंड के गांव साढौली हरिया के ग्रामीण आज गांव के शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिले और ज्ञापन सौंपते हुए मांगे की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। रामपुर मनिहारन विकास खंड के गांव साढौली हरिया के ग्रामीण प्रधान के नेतृत्व में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ दबंगों ने गांव के शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो पर अवैध कब्जा कर जमीन को अपने खेत में मिला लिया है, जबकि शमशान घाट के रकबे से आरोपियों का कोई मतलब वास्ता नहीं है। ग्रामीणों का आरोप था कि शमशान घाट के रकबे के साथ साथ शमशान घाट व विपक्षीयों के खेत से लगती हुई दो सरकारी चकमागं है इनके द्वारा सरकारी चकमागं भी अपने खेत खसरा नंबर 262 मे मिला लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी से आरोपियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो का कब्जा मुक्त कराने की मांग की। इस दौरान नकली, अंजीत, रामवीर, सोनू, रोहिताश, राजबीर, महावीर सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

बढ़ते तापमान को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का किया आह्वान

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव को विकास खण्ड देवबंद में आयोजित कार्यशाला में संस्था पदाधिकारियों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश जल जनित बीमारियों पर जरूरी जल योजना अंतर्गत जल गुणवत्ता योजना अंतर्गत जनपद स्तर, जनपद के समस्त ग्राम स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता की सर्विलांस एवं निगरानी, पंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए संस्थ (विंग) वेलफेयर एंड इलस्ट्रेशन आफ ग्रामीण नीडी सोसाइटी लखनऊ द्वारा

आयोजित कार्यशाला आयोजन विकास खण्ड देवबंद पर खण्ड विकास अधिकारी आजम अली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी ने जल शपथ दिलाते हुए तथा बढ़ते तापमान को देखते हुए उपस्थित लोगों को अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने को कहा। कार्यक्रम में उपस्थित सहायक विकास अधिकारी पं अनिल कुमार एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि जल से होने वाली समस्याओं से कैसे निपटे तथा जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया और उसके बचाव हेतु जन -जागरूकता फैलाये। इस दौरान वाल राइटिंग, नुकुड नाटक टीम, स्वच्छता मेला टीम, स्वास्थ्य कल्याण समिति की बैठक, पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, कार्यशाला, आंगनबाड़ी एवं स्कूल पर स्वच्छता क्लब का गठन एवं ड्राइंग प्रतियोगिता गतिविधियाँ हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्वच्छ पर्यावरण के लिए वृक्षों का संरक्षण जरूरी: सुशील

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। रेलवे पेंशनर्स समाज द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पेड़ों का अंधाधुंध कटान आज विनाश का कारण बनता जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। रेलवे पेंशनर्स समाज के कार्यालय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सहायक मंडल अभियंता सुशील कुमार ने कहा कि विकास के नाम पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, कंक्रीट की इमारतों, ईंधन वाहनों तथा वातानुकूलित यंत्रों का बढ़ते उपयोग एवं अपशिष्ट भोजन के कारण गर्मी अधिक बढ़ रही है। वास्तव में यह विकास का नहीं विनाश का कारण है। हमें विकास के नाम पर हरियाली को नष्ट करना बंद करना होगा, बल्कि और अधिक वृक्ष लगाने होंगे। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने तथा

स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा जल ही जीवन



है, इसलिए जल का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए तथा जल प्रदूषण रोकने पर भी ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ खंड अभियंता (कार्य) शमशेर जबर ने कहा कि वृक्ष काटने के कारण वर्षा कम हो रही है, जिसके कारण परंपरागत जल संचयन सूख गए हैं, यही कारण है कि गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। हमें विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़ छड़ करना बंद करना होगा, लोगों को वृक्ष लगाने के लाभ बताकर उनके मन में प्रकृति प्रेम जगाना

होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु-पक्षियों का जीवन वृक्षों पर ही

निर्भर करता है, बारिश का मौसम आने वाला है, हम सभी हरियाली को संरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे। वरिष्ठ खंड अभियंता (विद्युत) हर्षवर्धन ने कहा कि वृक्षों की टहनियों पर खिली हरियाली खत्म होने के साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाले फलों, फूलों व टहनियों पर बैठे परियों की चबचहाट का सुख भी हमें नहीं मिलेगा। हमें वृक्ष लगाकर उनको संरक्षित करना चाहिए। आरपीएफ निरीक्षक दीपक कुमार ने कहा कि हमको लिखने के

कार्य के लिए पेपर का तथा हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का उपयोग कम से कम करना चाहिए, इनको बनाने में लकड़ी का उपयोग होता है, जिसके लिए वृक्षों का कटान किया जाता है, उन्होंने कहा कि सभी को यथाशक्ति योग अवश्य करना चाहिए, योग करने से अनेक रोगों से बचा जा सकता है।

ध्वनि प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। गोष्ठी को क्षेत्रीय पार्षद राजू सिंह, महामंत्री एनएस चौहान व जेएन शर्मा ने संबोधित किया। संस्थापक आरसी शर्मा ने अतिथियों को पटका पहनाकर एवं संस्था पत्रिका भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अरविंद शर्मा, कोषाध्यक्ष अजय शर्मा, संरक्षक आरके धोंगड़ा, बोपी श्रीवास्तव, जेपी शर्मा, स्वतंत्र भारद्वाज, मूलचंद रंगड़ा, अमरनाथ त्यागी, विजय तलवार, इकबाल अजीम, वीके त्यागी, श्रीकृष्ण आर्य, इंद्रजीत कुमार, वेद प्रकाश, योगराज, मोहन लाल शर्मा, जय देव सिंह, धर्मेन्द्र, मनोज, अलाउद्दीन आदि मौजूद रहे।

चोरी की बाईक बेचने जाता एक

शांति अभियुक्त गिरफ्तार

सहारनपुर। थाना फतेहपुर पुलिस ने अपराधियों की धरकड़ को चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत 01 शांति चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाईक बरामद हुयी है। गौरतलब रहे कि पप्पू पाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मंडवार थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार की लिखित तहरीर पर विगत 21 जून को अज्ञात चोर द्वारा कब्जा छुट्टमलपुर स्थित भरत चाट भण्डार के सामने से वादी की बाईक चोरी करने के संबंध में थाना फतेहपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आज उपनिरीक्षक सौरभ यादव व यमुना प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छुट्टमलपुर कट के पास से एक शांति चोर रितिक सैनी पुत्र पवन सैनी निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर को दबोचकर उसके कब्जे से चोरी की एक बाईक बरामद कर ली। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पूराछाह के दौरान आरोपी रितिक सैनी ने बताया कि उसने अपने नन्हे की जरूरत को पूरा करने के लिए विगत दिवस छुट्टमलपुर में भरत चाट भंडार के सामने बरामद बाईक को चोरी किया था, जिस वह आज बेचने जा रहा था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गन्ने के खेत में पड़ा मिला था

लखीमपुर खीरी। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में गुदरिया गांव निवासी किसान की मौत हो गई। वह शुक्रवार रात खेत पर फसल की रखवाली करने गया था। शनिवार सुबह 10 बजे उसका उसी के खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गुदरिया गांव निवासी रामगोपाल यादव (40) शुक्रवार रात खेत पर गया था। शनिवार सुबह तक नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश में खेत पर पहुंचे तो देखा उसका शव गन्ने के खेत में पड़ा है। मुत्क के चाचा अशर्मा लाल यादव ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

गुरु गोरखनाथ ने किया योग को विश्व भर में प्रचलित: साध्वी सविता

सहारनपुर। साध्वी सविता जमुना दास ने कहा कि आज विश्व भर में योग लोगों की पहली प्राथमिकता बन चुका है और बनना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकेगा। साध्वी प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 1008 अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर साध्वी जमुना दास ने यहां जारी एक बयान में कहा कि विश्व के कई देशों में योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा मुस्लिम देशों में भी लोग योग एक्जुकेशन सिस्टम में सम्मिलित कर रहे हैं। योग को विश्व भर में प्रचलित करने वाले विश्व गुरु गुरु गोरखनाथ जी हैं, जिसका पूरा-पूरा श्रेय गुरु गोरखनाथ को ही जाता है। गोरखनाथ योग संस्थान द्वारा भी आयोजित आनलाइन योग शिविर में योग सिखाया जाता है। दुनिया भर में लोक मानवा के अनुसार भगवान गोरखनाथ हर युग में रहे हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा विरचित ग्रंथ और उनके द्वारा प्रवर्तित हठयोग की लोक स्वीकृति महायोगी गुरु गोरखनाथ को अलौकिक और असाधारण अद्वितीय लोकमुखी महायोगी बनाती है। उन्होंने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ महाराज द्वारा ही योग प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि योग को अपने अमूल्य जीवन में निरोग बरामद है तो योग को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा।

शमशान घाट व चकरोडो की भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग

सहारनपुर। रामपुर मनिहारन विकास खंड के गांव साढौली हरिया के ग्रामीण आज गांव के शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिले और ज्ञापन सौंपते हुए मांगे की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। रामपुर मनिहारन विकास खंड के गांव साढौली हरिया के ग्रामीण प्रधान के नेतृत्व में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ दबंगों ने गांव के शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो पर अवैध कब्जा कर जमीन को अपने खेत में मिला लिया है, जबकि शमशान घाट के रकबे से आरोपियों का कोई मतलब वास्ता नहीं है। ग्रामीणों का आरोप था कि शमशान घाट के रकबे के साथ साथ शमशान घाट व विपक्षीयों के खेत से लगती हुई दो सरकारी चकमागं है इनके द्वारा सरकारी चकमागं भी अपने खेत खसरा नंबर 262 मे मिला लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी से आरोपियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर शमशान घाट व दो सरकारी चकरोडो का कब्जा मुक्त कराने की मांग की। इस दौरान नकली, अंजीत, रामवीर, सोनू, रोहिताश, राजबीर, महावीर सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

भगवान वाल्मीकि चौक का निर्माण न हुआ, तो कर देंगे सफाई व्यवस्था ठप

सहारनपुर। राकेश कैमिकल चौक पर निर्माणाधीन महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक को तोड़ देने के विरोध में आज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मण्डल नगरायुक्त संजय चौहान से मिला और चेताया कि यदि जल्द से जल्द वाल्मीकि चौक का निर्माण न कराया गया, तो वह सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता सोनी आजाद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने नगरायुक्त संजय चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगरायुक्त को बताया कि राकेश कैमिकल चौक पर भगवान वाल्मीकि चौक के निर्माण कार्य के लिए सन् 2021 में नगर निगम द्वारा टेण्डर जारी किया गया था, जिसमें निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। लोकसभा चुनाव पहले डॉ.अजय सिंह ने चुनाव के बाद भगवान वाल्मीकि चौक का निर्माण कराये जाने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद विगत 20 जून की रात्रि में वाल्मीकि समाज के नेताओं को विश्वास में लिये बगैर नगर निगम ने जेसीबी ले जाकर चौक को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वाल्मीकि चौक का निर्माण जल्द से जल्द नहीं कराया गया, तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरने का काम करेगा और शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जायेगा। प्रतिनिधि मण्डल में अनुज वाल्मीकि, अमित कुमार शिव, सोमपाल खिलोड, अमित बिरला, दीपक बिरला, संजय चंद्रा, धीरज आजाद, राज कुमार प्रधान, सतीश खिलोड, आकाश बिरला, रोहित पहवाल आदि शामिल रहे।

जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में चले जमकर लाठी-डंडे

सहारनपुर। थाना बेट्टे क्षेत्रान्तर्गत जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष का लाठी डंडों का तो दूसरे पक्ष का तलवार व पलकटो लहराने का विडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि विवाद में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस के आला अपसरों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। दरअसल, मामला कोतवाली बेट्टे इलाके के पानसर का बताया जा रहा है। जहां एक ही कुनबे (परिवार) के दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनके बाग में कब्जा करने का आरोप लगाया है। कब्जा हटवाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए।

एसडीएम पर भारी पड़ा तालाब कब्जा करने वाला माफिया

अवधानामा संवाददाता

कौशांबी। अधिकारियों के आदेशों की धजिया उड़ने में राजस्व लेखपाल को महारत हासिल हो गई है जिससे सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई है और अधिकारी भी गांव-गांव के सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिसका फायदा उठा करके लेखपाल मोदी रकम की वसूली कर रहे हैं। तालाब माफिया मंडनपुर तहसील क्षेत्र के पश्चिम शरीर नगर पंचायत के रामाधन के पूरा के तालाबी आराजी संख्या 371 और 372 का है तालाब की आराजी पर गांव के कैंग पुत्र राम विशाल 20 फरवरी 2024 से कब्जा कर रहे थे पितर खड़ कर भवन बनाने जा रहे थे मामला को शिक्षाक 23 फरवरी 2024 को एएसडीएम और अन्य अधिकारियों से हुई जिस पर अधिकारियों के निर्देश पर तालाब की जमीन का निर्माण लेखपाल ने रोक दिया चार महीने तक जितना निर्माण हो चुका था उसे हटाया नहीं किया और 4 महीने बाद



फिर 22 जून 2024 को इसी तालाब पर फिर उसी व्यक्ति ने निर्माण शुरू कर दिया है लेखपाल सब देख रहे हैं थाना दिवस आयोजित हो रहा है अधिकारियों से शिक्षाक हो रही है लेकिन उसके बाद तालाब की जमीन पर कब्जे को नहीं रोकना गया है जिससे राजस्व निरीक्षकों के साट्टाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगर पंचायत पश्चिम शरीर के अधिशासी अधिकारी ने भी सरकारी तालाब की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोकने के लिए पहल नहीं किया है अखिर नगर पंचायत के अधिकारियों के सरकारी संपत्ति सुरक्षा में क्या जिम्मेदारी है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के रहते पश्चिम शरीर

क्षेत्र की सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई है जबकि उच्च न्यायालय ने हिंच लाल तिवारी व अन्य के मुकदमे को सुनवाई के दौरान आदेशित किया है कि तालाब के कब्जे हटाए जाएं लेकिन तालाब के कब्जे हटाने की बात तो दूर तालाब पर कब्जे करण जा रहे हैं अधिशासी अधिकारी की यह लापरवाही सवाल के भेरे में है सरकारी संपत्ति सुरक्षित ना रख पाने वाले अधिशासी अधिकारी पर अभी तक मुकदमा दर्ज करा कर उनकी गिरफ्तारी अफसरों ने नहीं कहाई है बताया जाता है कि तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले से तहसील के अधिकारियों को पक्ष में लेने के लिए 50000 से अधिक की वसूली लेखपाल ने

थाने पहुंचे एसपी ने सुनी फरियाद



कौशांबी अवधानामा संवाददाता। समाधान दिवस कोखराज में एएसपी अशोक कुमार वर्मा व सीओ सिराधु अवधेश विश्वकर्मा की उपस्थिति में आम जनमानस के फरियाद को सुना गया और मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश अधीनस्थों को दिया गया राजस्व से जुड़ी कई विवादित मामलों को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराने का एएसपी ने सम्बन्धित लेखपालों को आदेशित किया समाधान दिवस के मौके पर ग्यारह मामलों आये जिसमें 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर एसओ कोखराज इन्द्र देव, राजस्व विभाग से कानून गो सुरेंद्र सिंह, सोहन लाल गुप्ता, लेखपाल लोकनाथ पांडेय, नरेंद्र सिंह, मान सिंह, दिलीप कुमार देवेन्द्र कुमार सिंह, सुनील द्विवेदी, अमन सिंह, पवन सिंह, सुमित कुमार केशरवानी, पूनम गौर्या, अनुराधा वर्मा, आदि लोग उपस्थित रहे।

सभी नागरिकों को फलों का वितरण किया गया



उरई (जालौन) अवधानामा संवाददाता। दशम योग दिवस तहसील परिसर में तहसीलदार जालौन श्री श्रीप मिश्रा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर में योगाचार्य डॉक्टर रमन, विवेक सिंह, श्रीमती संध्या पटेल व राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जालौन की प्रभारी डॉक्टर पूजा राजपूत के देखरेख में योग की विभिन्न कक्षाएं संचालित की गईं। भारत विकास परिषद प्रमुख शाखा जालौन की टीम ने अध्यक्ष मृत्युंजय श्रीवास्तव सचिव प्रेम कुमार गुप्ता कछु के नेतृत्व में नगर में तहसील परिसर में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद प्रमुख शाखा द्वारा सभी नागरिकों को फलों का वितरण भी किया गया। फल वितरण के कार्य में अश्विनी द्विवेदी, पंकज गर्ग, राजकुमार सोनी, इंद्रपाल सिंह मिश्र, संतोष सोनी वीआईपी, त्रिलोकी नाथ गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष पवन अग्रवाल, धीरज बाघम जिलाध्यक्ष, वाचस्पति मिश्र योगाचार्य, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल, सरदर लेखपाल वैभव त्रिपाठी, डॉ अनीस आदि ने फल वितरण में सहयोग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉ भूपेंद्र पटेल ने योग की महत्ता पर प्रकाश डाला।

ब्लॉक मिशन इकाइयों की डीएम ने की समीक्षा

फर्रुखाबाद अवधानामा संवाददाता। जिलाधिकारी डॉ 0 वीकेएसिंह की अध्यक्षता में क्लेक्ट सभाभार में जिला एवं ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाइयों के साथ घटकवार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में बताया गया कि जिले में 7017 समूह क्रियाशील है जिनमें से 4153 समूह को रिवाल्विंग फंड दिया जा चुका है, इस वर्ष जिले में 702 समूह गजल का लक्ष्य है, जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी डी एम एम को ब्लॉक आवंटित कर दिये जायें।

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, जौन-विकासनगर, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

पत्र सं : 58/E.E-V.N/L.J.S/2024-25

दिनांक : 21/06/2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

जल कल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुरूप कार्य को कराये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 28/06/2024 को 3:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 28/06/2024 को 1:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान कैश काउन्टर पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सीलबंद निविदायें उसी दिन अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 3:30 बजे तक निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी। निविदायें प्राप्त सभी निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे सांय काल खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य/आपूर्ति का विवरण	निविदा का मूल्य	धरोहर धनराशि
1	जोन विकास नगर के अन्तर्गत के 0/0/0 सिंह चौहान के मकान के सामने कंचना बिहारी मार्ग कलापापुर, मकान सं 0/4/150 के सामने पार्क में, तेंदुलकर पार्क सेक्टर-1 में, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास सेक्टर-3, मकान सं 0/3/408 के सामने, मकान सं 0/6/123 के सामने, मकान सं 0/4/500 के सामने पार्क में स्थापित समरसेबिल पम्प के मरम्मत का कार्य।	250.00	4600.00

नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गई हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता जौन-विकास नगर के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा खुलने के दिनांक को यदि कोई अवकाश हो अथवा किसी कारणवश कार्यालय बन्द हो तो अगला कार्य दिवस ही निविदा खुलने का दिनांक होगा। निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी/महाबन्धक में निहित है।

अधिशासी अभियन्ता, जौन-विकासनगर
जलकल विभाग, लखनऊ

सरकारी तालाब कब्जा रोकने में रिफाल लेखपाल और अधिशासी अधिकारी की गिरफ्तारी में नयी व्यो

कर लिया और अब तालाब की जमीन के कब्जे को रोकने के लिए लेखपाल तैयार नहीं है जिससे सरकारी जमीन सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रही है सवाल उठता है कि सरकारी जमीन कब्जा करना कर रकम की वसूली करने वाले लेखपालों के विरुद्ध प्रश्नचार् का मुकदमा दर्ज करारक अधिकारियों द्वारा इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई जाती सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लेखपालों की गिरफ्तारी में अखिर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है क्या तहसील के आला अधिकारी भी सरकारी जमीन कब्जा कराने वाले लेखपाल के खतरा बढ़ रहा है और आपसे अधिक सरकारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है।

भाजपा ने बनाई आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा

देवरिया। भारतीय जनता पार्टी के और चौरी स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शाही के अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी गण की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूपरेखा बनी। 23 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर जनपद के प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय हुआ। 25 जून को कांग्रेस सरकार में लागू किये गये आपातकाल के दिन को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 30 जून को माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात प्रत्येक बूथ पर सुनना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन 6 जुलाई एवं बलिदान दिवस 22 जून के बीच 28 जून को जिला गोष्ठी करने का निर्णय हुआ। जन्मदिन एवं बलिदान दिवस के बीच प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि गण एक एक पंथा अपने मां के नाम पर लगायेंगे। अंत में आभार ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, गंगा सिंह कुशवाहा, जिला महामंत्री रविन्द्र कौशल, प्रमोद शाही, श्रीनिवास मनि, जिला मंत्री निर्मला गौतम, महेश मनि, रमाशंकर निषाद, अभिषेक जैसवाल उपस्थित रहे।

थाना समाधान दिवस में डीएम व एसपी ने सुनी फरियाद

अवधानामा ब्यूरो

कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में थाना विष्णुपुरा में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का एक-एक कर गम्भीरता पूर्वक सुना गया। राजस्व व पुलिस विभाग को

समाधान दिवस में 6 प्रार्थना पत्रों में से 2 का तत्काल निस्तारण

निर्धारित समाधि के भीतर निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। शिकायतों पत्रों के निस्तारण के दौरान डीएम ने कहा कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहे। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें जो आपके क्षेत्राधिकार के बाहर हो तत्काल प्रार्थी



को अवगत कराए। इस अवसर पर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजस्व टीम बनाकर पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों व शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। आज के समाधान दिवस में कुल 6 प्रार्थना पत्र आए जो पुलिस एवं राजस्व विभाग से सम्बंधित थे जिसमें से 2 का निस्तारण तत्काल किया गया, जिसमें से 1 पुलिस तथा 1 राजस्व से संबंधित तथा अवशेष 4 आवेदन पत्रों को

सम्बन्धित को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्र निष्पक्ष निस्तारण हेतु सौंप दिए गए। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके।

प्रसूताओं को जन्मी सुरक्षा योजना का लाभ तत्काल मिले

अवधानामा संवाददाता

मैनपुरी। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मों आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें, समय से अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित होकर अपने वाले मरीजों को देखें, मरीज, तीमारदारों के साथ अच्छे व्यवहार किया जाए, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं, एंटी नेम, एंटी रैबीज उपलब्ध रहे, सभी एंजलेंस क्रियाशील रहें, एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाएं, उपकरण उपलब्ध हों, जन्मी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रसूता को उच्च क्वालिटी का भोजन-नाश्ता उपलब्ध कराया जाए, खाने की गुणवत्ता स्वयं प्रभारी चिकित्साधिकारी चेक करें, डिस्चार्ज होने पर प्रत्येक प्रसूता को सुविधा मुहैया करायी जाए, यथासंभव डिस्चार्ज होने के समय ही उसे जन्मी सुरक्षा योजना का



लाभ भी उपलब्ध कराया जाए। श्री सिंह ने कहा कि चिन्हित क्षय, कुछ रोगियों की बेहतर देखभाल की जाए, उन्हें समय से दवाइयों उपलब्ध हों, चिन्हित क्षय रोगियों को योजनाओं का लाभ प्रार्थमिकता पर मिले, उन्हें प्रतिमाह निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाए, संचालित अन्दूत्साउंड सेंटर से निर्धारित नियमों, शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाए, अन्दूत्साउंड सेंटर का नियमित औचक निरीक्षण हो। उन्होंने जन्मी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वार्षिक लक्ष्य 23929 के सापेक्ष अब तक 2301 संस्थागत प्रसव हुए, गत वर्ष माह मई में 2346 संस्थागत प्रसव हुए थे। उन्होंने कहा कि आशा, एएन.एम., सीगिनी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया

जाये। उन्होंने परिवार कल्याण नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, अर्धतः विचारण, एम्बुलेंस संचालन, पोषण पुनर्वास केंद्र आदि बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि एम्बुलेंस 108, 102 का रिस्पॉन्स टाइम सुधारा जैसे, आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मरीज को एम्बुलेंस पहुंचे, सुनिश्चित किया जाये। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान गोल्डन कार्ड बनाने की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्र. चिकित्साधिकारी कहल, सुस्तामार्ज, बनरहाल, डी.सी.पी.एम. कहल को हितदाय देते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति सुधारे, प्रत्येक पात्र व्यक्ति का गोल्डन कार्ड बने ताकि वह बीमार

आशा-सीगिनी के मानदेय के भुगतान में किसी भी स्तर पर न हो वितंडः डीएम

होने की दशा में योजना का लाभ पा सके। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा दि. 11 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य परिवार नियोजन के संबंध में लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक करें, अभियान में खानापूर्ति न की जाए बल्कि इस अभियान का लाभ लोगों को मिले, अभियान के दौरान नव-दम्पतियों को जागरूक कर पुनः गर्भ निरोधक संसाधनों की सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने परिवार नियोजन में महिला-पुरुष नसबंदी की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार नियोजन के सभी कार्यक्रम धरातल पर क्रियान्वयन हो, आर.बी.एस.के. टीम का भ्रमण प्लान तैयार कर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, टीम निर्धारित दिवस, तिथि पर विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर वहां के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें।

पसमांदा समाज को भी सरकार में भूमिका दी जाए : वसीम राईन

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि पसमांदा समाज को भी सरकार में भूमिका दी जाए। इस समाज को पीएम मोदी से बहुत उम्मीदें हैं औरो है। बस धोखा ही मिला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने बयान में कहा है कि दशकों काँग्रेस सत्ता में रही पर सिवाय दुख देने के और कुछ नहीं किया। पसमांदा समाज के वोटों के दम पर सरकार बनाते रहे पर जब कुछ करने का वकूत गया तब सिर्फ धोखा ही दिया। यही दशा समाजवादी पार्टी ने भी पसमांदा के साथ की। सदन सरकार तो दूर की बात सभ में भी हिस्सेदारी नहीं दी। जबकि इसी समाज के वोटों की ताकत के बल पर इन्हें सत्ता का सुख

मिला। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमान को पीएम मोदी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और यह मानना है कि यही सरकार इस समाज का भला कर सकती है। सरकार को चाहिए कि वह अन्य दलों से स्वयं को अलग साबित करे। पसमांदा समाज ने जितना साथ दिया है उतनी ही हिस्सेदारी दी जाए। पसमांदा मुसलमान इतने से ही खुश हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी पसमांदा समाज से सरकार में जिम्मेदारी निभाने का मौका दें तो यह इस समाज के लिए काफी सकारात्मक होगा। सोचने वाली बात यह है कि अब तक सरकारके सिर्फ अशराफ को ही जगह दी गई है इससे पसमांदा समाज का कोई लेना देना नहीं है और न ही कोई फायदा है।

सीएमओ से स्पष्टीकरण, तहसीलदार व एमओआईसी को प्रतिकूल प्रविष्टि, कानूनगो को फटकार

अवधानामा संवाददाता

हाटा, कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने हाटा तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलदार न्यायालय के अंतर्गत दर्ज तथा निस्तारित वादों की संख्या, दाखिल दफ्तरी, दाखिल खारिज के लंबित प्रकरणों तथा आर. के. अधिष्ठान कार्यालय में रखे राजस्व प्रपत्रों एवं नामांतरण बही आर 6, धारा 34 व 36 के अंतर्गत दर्ज वादों की पत्रावलियों के लंबित मामलों का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार हाटा से प्रतिमाह दर्ज तथा निस्तारित वादों की संख्या, सबसे पुराने लंबित वादों के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान लंबित वादों की संख्या के बारे में स्पष्ट उत्तर न देने पर आर के कार्यालय में राजस्व अभिलेखों



व प्रपत्रों के उचित रख रखाव नहीं होने तथा वादों के प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात अभिलेखों में दर्ज करने में विलंब करने, वरसत के मामलों को आर 6 पर दर्ज करने में देरी करने तथा अव्यवस्थित व्यवस्था रहने के कारण जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार हाटा, आर के अधिष्ठान/ कार्यालय के कानूनगो/ राजस्व निरीक्षकों के कार्यों के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट की गई, साथ ही साथ नामांतरण बही अध्वतन न रहने के

कारण जिलाधिकारी द्वारा रोष व्यक्त किया गया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सभी राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने, निस्तारित वादों को दर्ज करने, वादों के निस्तारण और प्रतिदिन के कार्यालय के कार्यों के प्रति सतर्कता बरतने और कर्तव्यनिष्ठ होकर सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का भी औचक निरीक्षण किया गया।

हाटा तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम ने किया निरीक्षण

विद्युत की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, औषधि प्राप्ति पंजिका आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर अमित कुमार, चिकित्सक डॉ प्रशांत एवं महिला चिकित्सक से प्रतिमाह भर्ती तथा जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या, एएनसी रजिस्ट्रेशन, रक्तचाप, डेगु मलेरिया आदि के जांच एवं ओपीडी में आने वाले मरीजों में वायरल बुखार से प्रभावित मरीजों इलाज की जानकारी

ली गई। गर्भवती महिलाओं की भर्ती, जांच एवं पंजीकरण संख्या में कमी होने के कारण, चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवा लिखने के कारण, साफ सफाई उचित ढंग से न होने के कारण, प्रतिमास एएनसी पंजीकरण में घटोतर होने पर जिलाधिकारी द्वारा रोष प्रकट किया गया और प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने व मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आय हुए रोगियों से संवाद कर मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं और लिखी जाने वाली दवाइयों तथा उनकी उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर ।



महत्वपूर्ण आबकारी अपील/चेतावनी



सावधान! सस्ते के चक्कर में जान न गंवाए

संख्या- 700(1-2) जि0आ0आ/आबकारी-अपील/हमीरपुर/2024-25 दिनांक : जून 22, 2024

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिकृत दुकानों के अतिरिक्त अवैध अड्डों/परचरु आदि की दुकानों से बिकने वाली मदिरा का सेवन कदापि न करें, क्योंकि उक्त स्थानों से बिकने वाली शराब जहरीली हो सकती है तथा इसमें मिथाइल एल्कोहल भी मिला हो सकता है जो एक भयंकर विष है, तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्रदेश में किसी प्रकार की खुली शराब, पाउचों में भरी शराब अथवा बिना क्यू0आर0कोड लगी शराब की बिक्री अनुमत्त नहीं है। केवल अनुमोदित दुकानों से बिकने वाली शील्ड व क्यू0आर0कोड लगी वैध मदिरा का ही प्रयोग करें। दुकानों पर बिकने वाली मदिरा/बीयर की सभी बोतलों पर अधिकतम बिक्रय मूल्य अंकित होता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि "आबकारी अधिनियम धारा-60 (क) में कड़े प्रविधान किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत जहरीली शराब पाये जाने पर आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड का प्राविधान किया गया है तथा दूसरे प्रान्त की शराब पकड़े जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत 6 माह से लेकर 05 वर्ष तक कारावास और आबकारी शुल्क के 10 गुने या 50 हजार जो अधिक हो, के जुर्माना एवं सजा दोनों हो सकती है।"

अतः यदि किसी को अवैध शराब निर्माण/तस्करी/बिक्री/भण्डारण तथा अनुज्ञापित दुकानों से बिकने वाली बोतल, शीशी, ट्रेटा पैक की सील या क्यू0आर0कोड के साथ छेड़छाड़ अथवा फिट्टेड मूल्य से अधिक मूल्य लेने की सूचना प्राप्त होती है तो निम्नलिखित नम्बरों पर तत्काल सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पहचान गुप्त रहे जायेगा।

9454465681, 9454466342, 9454466344, 9410645143, 14405 एवं 9454466019 व आबकारी कन्ट्रोल रूम- 9454467090, 24x7 उपलब्ध रहेगा।

(अवधेश राम) (डॉ. दीक्षा शर्मा) (राहुल पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी
हमीरपुर हमीरपुर हमीरपुर

स्मार्ट बन रही राम नगरी, अयोध्या नगर निगम के 41 गांव मे हो रहे विकास कार्य

अवधानामा संवाददाता

अयोध्या। योगी सरकार द्वारा अयोध्या नगर निगम के विस्तारीकरण योजना के तहत 2020 में अयोध्या शहर से सटे 41



राजस्व गांवों को भी नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। पिछले साल नगर निगम के चुनाव में इन गांवों में भी चुनाव हुए थे। अब अगले 4 साल के भीतर इन गांवों में सभी नागरिक सुविधाएं विकसित करने का समय मिला है। नागरिक सुविधाएं विकसित करने के बाद इन गांवों का जीआईएस सर्वे होगा।

इसके बाद नगर निगम को यहां से भी हाउस टैक्स मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद से इन गांवों में सड़कों व नालियों के निर्माण का काम तेज हो गया है। दूसरी और जलकल विभाग सभी घरों में शुद्ध निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जब तक इन गांवों में सुविधाएं विकसित नहीं हो जाती हैं तब तक नागरिकों को हाउस टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। घर-घर शुद्ध जल पहुंचाने की योजना पर हो रहा काम मेयर गिरीश पति ने बताया। चरण में हर घर को वाटर सप्लाई से जोड़ने की योजना है। योजना के तहत विस्तारीकरण के 41 गांवों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण में सड़क, नाली और घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था के साथ ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण करवाया जाएगा। नलकूप व टंकी के निर्माण के साथ वाटर प्रेशर लाइन के बिजने का काम करवाया जाएगा। इन सुविधाओं से विस्तारीकरण क्षेत्र को सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि 41 गांवों में आबादी के अनुसार 5 से 10 वॉर्ड बनाए गए हैं।

पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। अयोध्या नगर निगम के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि हमारा प्रयास है कि जल्द ही नगर निगम से जुड़े इन गांवों में सुविधाएं विकसित की जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास व मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत मिली धनराशि से

रक्तदान मे राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन को लगातार पाँचवी बार मिला प्रथम स्थान

अवधानामा संवाददाता

अयोध्या। बीते सत्र में अयोध्या जिले में सर्वाधिक रक्तदान करने के लिए ट्रस्ट राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन सम्मानित किया गया। यह सम्मान



संस्था को सीएमएस डॉ उतम कुमार, जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉ विपिन कुमार वर्मा, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ फुजैल अंसारी व चिकित्सक डॉ सादिक अहमद ने संयुक्त रूप स्मृति चिह्न, प्रमाणपत्र व ट्रफ़ी प्रदान किया। जिसे संस्था की ओर से अध्यक्ष आकाश गुप्त व उपाध्यक्ष विजय वर्मा ने संयुक्त रूप से

प्राप्त किया। बताते चले कि उक्त सम्मान समारोह में तेरह अन्य संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिसमें राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन 267 यूनिट ब्लड ड्रेनेट कर प्रथम स्थान पर रहा जबकि क्रमशः मिलिट्री हॉस्पिटल कैट 156

यूनिट व संत निरंकारी फाउंडेशन 126 यूनिट ब्लड ड्रेनेट कराके दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा। जलवायु हो की राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन पिछले चार सत्र से जिला चिकित्सालय में रक्त दान व मरीजों को ब्लड ड्रिफ्टा करने में प्रथम स्थान रहा है और कोरोना काल में पूरे प्रदेश में रक्तदान करने में इसी संस्था को प्रथम स्थान रहा है।

जैदपुर में गंदगी का लगा अम्बार, जिम्मेदार अधिकारी मौन

जैदपुर बाराबंकी। स्वच्छ

भारत अभियान के तहत प्रत्येक गांवों-कस्बों में समुचित ढंग से साफ सफाई हो इसके लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन नगर पंचायत जैदपुर सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटी है। आपको बताते चले कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक कस्बों में समुचित ढंग से साफ सफाई हो इसके लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। धर चल रहे संचारी रोग अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा जिससे संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। लेकिन इसके बावजूद नगर पंचायत जैदपुर के अधिकांश वार्डों में सफाई व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है। नगर पंचायत जैदपुर के वार्ड ईईएस कटरा में शाह जी का इमामबाड़ा के पास गंदगी का अम्बार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था घुस्त है। नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।

अयोध्या धाम में ऐतिहासिक भवनों को सजाने-सँवारने का कार्य चरणबद्ध रूप से प्रगति पर

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे धारा रोड के समीप स्थित दिलकूशा महल अफीम कोठी को साकेत सदन नाम से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु किये जा रहे विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर कार्यदलीय संस्था उओप्रओ प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिओ निर्माण इकाई-11 के परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि साकेत सदन के पर्यटन विकास का 58 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। टिकट काउंटर का कार्य 40 प्रतिशत, सेवीनियर शॉप (बी-2), बाउण्ड्री वाल व इण्टरप्रिंटेशन वाल का 70 प्रतिशत, मुख्य भवन (संग्रहालय) व टाइलेट ब्लाक का 60



प्रतिशत, इंट्रेंस प्लाजा का 50 प्रतिशत तथा पाथ-वे का 45 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है और समस्त कार्यों को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्यों की विशिष्टियां एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर स्वयं निरीक्षण करने तथा समस्त कार्यों की संरक्षण तकनीक से कुशल कारीगरों के माध्यम से निर्धारित समयवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या धाम में ऐतिहासिक भवनों को सजाने-सँवारने का कार्य चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है। इसी के क्रम में साकेत सदन परिसर में 1756 से 1775 ईओ के मध्य निर्मित ऐतिहासिक भवनों का जीर्णोद्धार तत्समय निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों यथा- चूना, सुखी, शीशा, मेथी, उड़क की दाल, गोंद गुगल, बेलगिरी पाउडर आदि पदार्थों निर्माण सामग्रियों को मिलाकर बनाये गये मोटार मसाले से किया जा रहा है।

मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक ने आये हुये फरियादियों की सुनी जन समस्याए

अयोध्या। शासन के मंशानुरुप जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली अयोध्या में मण्डलायुक्त गौरव दयाल एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। मण्डलायुक्त द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुनने के दौरान राजस्व व पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि जमीनी विवाद से सम्बंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाए और यथा संभव मौके पर ही प्रकरण का निस्तारण करवाये। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे विवादों में उभय पक्षों की उपस्थिति में उनमें आपस में बात करके निस्तारण कराये। इस दौरान फर्म कैला देवी बलीश स्टोर के साथ थोडाखड़ी की शिकायत पर उन्होंने थानाध्यक्ष कोतवाली अयोध्या को उभय पक्षों को बुलाकर प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कांग्रेस सड़क से सदन तक उनकी आवाज उठाकर न्याय दिलाने का काम करेगी: सिकंदर



अवधानामा संवाददाता
लोक प्रकरण ऐसे गम्भीर प्रकरण पर देश के प्रधानमंत्री का मौन चिंता का विषय है, और देश के शिक्षा मंत्री पूरे मामले में भ्रम फैला रहे हैं। नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये शिक्षा मंत्री पेपर लीक प्रकरण पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुये इस्तीफा दें और देश के प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़कर नीट यूजी परीक्षाओं की तत्काल परीक्षा सम्पन्न करवाकर पेपर लीक प्रकरण के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई करते हुये ऐसा सख्त कानून बनाये की

देबारा कोई ऐजेंसी या व्यक्ति पेपर लीक के बारे में सोच भी न सके। ये बात युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी ने आज केन्द्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेसजनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने के पहले जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने के पश्चात व्यक्त किया। सिकंदर अब्बास रिजवी ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के चलते 24 लाख अभ्यार्थियों का भविष्य अधंकार में है भाजपा सरकार में बार-बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और अभिभावकों के लाखों रूस्स्वस्से बर्बाद हो रहे हैं। अपनी सालों की मेहनत का परिणाम न निकलते देख छात्र अवसाद में जाकर आत्महत्या तक कर रहे हैं।

प्रोफेसर कौशलेंद्र को कार्य परिषद का सदस्य बनाये जाने पर खुशी

रामनगर बाराबंकी। पी जी कॉलेज रामनगर के प्राचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र को डॉ रामनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय अयोध्या की कुलपति डॉ प्रतिभा गोयल द्वारा कार्य परिषद का सदस्य नामित किया गया। जिसके चलते मुख्य निर्यात डॉ राम कुमार सिंह सहित सभी प्राध्यापकों ने प्राचार्य को लड्डू खिलाकर खुशी व्यक्त की। विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद का सदस्य नामित होने पर प्रोफेसर श्री मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये उतर दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मुख्य निर्यात डॉ रामकुमार सिंह ने बताया कि इसी उतरदायित्व के साथ साथ डॉ राम मोहन लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य श्री मिश्र को अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य हेतु गाइड भी नियुक्त किया गया है।

दबंग चेयरमैन प्रतिनिधि सरफराज कखे वासी को पानी को तरसा रहा पीड़ित मुमताज ने दो माह शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ काम

आसिफ हुसैन

बाराबंकी। चुनाव में वोट ना देने पर चेयरमैन प्रतिनिधि के इशारे पर नगर पंचायत अधिकारी ने पीड़ित को पानी को तरसा दिया। जबकि पीड़ित ने दो माह पूर्व में नगर पंचायत को वाटर कनेक्शन ठीक करवाने को लेकर एक पत्र भी लिखित में दिया था, लेकिन अभी तक उसके घर के पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया, जिससे वह परेशान होकर उच्चधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर है। मामला दरियाबाद का है जहाँ पर पीड़ित मुमताज अली निवासी मोहल्ला चौधुरियान पूर्वी कटवा दरियाबाद के घर में पिछले 10 वर्षों से पानी का कनेक्शन था जो अब पाइपलाइन चौक होने की वजह से पानी बहुत धीरे आ रहा है इसलिए नगर पंचायत से आग्रह किया गया था कि हमारा कनेक्शन सही कर दिया जाए। पीड़ित का पाइपलाइन को ठीक करने से मना कर दिया जा रहा है लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये सब चेयरमैन



उन्होंने भी गड्डा पाटने को कहा दिया, तो मुमताज हक्का बक्का रहा गया। मुमताज अली ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा कहेने पर गड्डा खुदवा कर पुना कनेक्शन स्टेसन को सही कराया जा रहा था मगर नगर पंचायत अध्यक्ष के देवर सरफराज कुरैशी को वोट व सपोर्ट न करने पर उसे नगर पंचायत अध्यक्ष रूखसाना बानो प्रतिनिधि सरफराज कुरैशी के कहने पर काम को रुकवा दिया। फेसल का कहना है कि हमारे साथ चुनावी रॉजिश का बदला लिया जा रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान हमने दूसरे का सपोर्ट किया था उसी को लेकर सरफराज कुरैशी हमारे परिवार को पानी को तरसा रहा है।

05 वर्षीय मासूम बच्ची की मिला लाश जांच में जुटी पुलिस एवं रेलवे पुलिस

अवधानामा संवाददाता

नवाबगंज गोंडा। थाना क्षेत्र के शिवदयालगंज में स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के आसपास तब हडकंप मच गया जब स्टेशन के बगल में स्थित बाग में शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने एक मासूम बच्ची का शव पड़ा देखा। बाग में लाश की सूचना पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर जीआरपी इम्पेक्टर राकेश राय तथा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय पुलिस टीम के साथ पहुंचे और शव की शिनाख्त कराने के लिए काफी प्रयास किये लेकिन स्थानीय लोग शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। लोगों ने पुलिस को बताया कि शुरुवार की शाम को साधु वेश धारी एक अज्ञात युवक मुक्त लड़की को लेकर आया था। बच्ची को उस सदिंध दिखने वाले अज्ञात साधु के साथ देखने पर कुछ लोगों ने साधु वेश धारी युवक से पूछाछा भी की। लोगों के

हत्या करने की आशंका साधु वेश धारी युवक पर जाताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पहुंची फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

मासूम बच्ची ने भी उस युवक को अपना पापा बताया था। पूछताछ का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साधुवेश धारी युवक के साथ आई मासूम बच्ची की लाश शनिवार की सुबह स्टेशन के पास एक बाग में मिली। मासूम बच्ची की

भक्तों ने बड़े बाबा की समाधि पर चढ़ाई चादर

सिरौलीगोसपुर। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र अभ्रन सरोवर में आचमन कर स्वामी जगजीवन दास बड़े बाबा की ड्योढ़ी पर माथा टेक साहेब की समाधि पर चादर परसाद चढा कर मनवांछित फलों की प्राप्ति एवं विश्वभ्रमण कल्याण की कामना किया है। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने छोटी गद्दी के महन्त साहेब विशाल दास अमान दास राजेश बवश दास खटपुट बाबा गुप्त मां नीलम दास से आशीर्वाद प्राप्त कर जनपद बहराइच के नेखपाल मौर्या द्वारा महन्त अखिलेश दास के आवास पर भन्दारे में प्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ किया है। इस मौके पर पप्पू शर्मा सत्यनान दास जितान रावत, श्रेयस रावत पीमा रावत एडवोकेट सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

मां सरयू हमारी जीवन रेखा : चिन्मयानंद

अवधानामा संवाददाता

नवाबगंज गोंडा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुंदर दास चौराहे के निकट स्थित कटरा कुटी धाम पर पतित पावनी मां सरयू की अवतरण दिवस सरयू जयंती बड़े



ही धूमधाम से मनाई गई ! सर्वप्रथम मां सरयू के जल कलश पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मुख्य अतिथि विपनेश पांडे तथा ब्रह्माकुमारी

आश्रम कटरा की संचालिका बहन महाराज ने किया । कटरा कुटी धाम के महाराज ने कहा कि नदियां हमारे जीवन की रेखा है , सरयू जयंती से प्रकृति के साथ जुड़ाव का संदेश है ! मंहथ ने कहा कि मां सरयू का जन्म भगवान राम से पहले हुआ ! मां सरयू का नित्य दर्शन कलुषुग के कलुषित पापों का नाश कर देता है ! बन्वू तिवारी ने कहा कि सरयू के तट पर आने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति के आश्रय को

प्राप्त कर लेता है ! कथावाचक लव महाराज ने कहा कि सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है ! ज्योतिषाचार्य चंद्र किशोर शास्त्री ने कहा कि सरयू सभी पापों को मिटाती है ! डॉ अरुण सिंह ने कहा कि चैतराम नवमी के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग सहित सभी तीर्थ के राजा अयोध्या में काले घोड़े से आते हैं और सरयू स्नान कर श्वेत घोड़े से जाते हैं ! विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि मां सरयू भगवान विष्णु की मानस पुत्री हैं और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हैं जब श्री राम ने सरयू में समाधि ली थी तब शिव जी क्रोधित हो कर मां सरयू को श्राप दिया था ! विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया इस अवसर पर दिवाकर मौर्य, विजय सोनी , ओमप्रकाश गुप्ता , धीरेंद्र शुक्ला , भोला मिश्रा , गौरीशंकर गुप्ता, रजनीश गुप्ता , विनोद गुप्ता , डॉ कुमार, आदि बड़ी संख्या में लोगों पर स्थित रहे !

योग कर निरोग रहने का दिया गया संदेश



अवधानामा संवाददाता
बाधिका का निर्देश
महराजगंज। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान माह जुलाई के संदर्भ में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने माह जुलाई में संचालित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के विषय में सम्बंधित अधिकारियों से उनके विभाग के दायित्वों और संचारी रोग के दृष्टिगत विभागीय तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली। साथ ही डॉ, चिकनगुनिया और कालाजार के आप मामलों की वर्षवार जानकारी ली। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 में डॉ के 13, चिकनगुनिया के 06 और कालाजार के शून्य प्रकरण रिपोर्ट हुए हैं और किसी भी प्रकरण में मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों और पंचायतीराज विभाग को विशेष सफाई अभियान चलाने का

छोटे बड़े स्थिर जलश्रोतों पर विशेष ध्यान दें..जिलाधिकारी

अवधानामा संवाददाता

महराजगंज। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान माह जुलाई के संदर्भ में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने माह जुलाई में संचालित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के विषय में सम्बंधित अधिकारियों से उनके विभाग के दायित्वों और संचारी रोग के दृष्टिगत विभागीय तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली। साथ ही डॉ, चिकनगुनिया और कालाजार के आप मामलों की वर्षवार जानकारी ली। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 में डॉ के 13, चिकनगुनिया के 06 और कालाजार के शून्य प्रकरण रिपोर्ट हुए हैं और किसी भी प्रकरण में मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों और पंचायतीराज विभाग को विशेष सफाई अभियान चलाने का

निर्देश देते हुए कहा कि सफाई अभियान में छोटे-बड़े स्थिर जलस्रोतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। नालियों की भी सफाई करवाएं। साथ ही एंटीलार्वा और ब्लीचिंग पाउडर आदि का भी छिड़काव कराएं। झाड़ियों आदि की सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने पानी

का निर्देश दिया। डॉ जागरूकता सप्ताह के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम और जरूरी तैयारियों को पूर्ण करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पूर्व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेंद्र प्रसाद ने पीपीटी के माध्यम से सभी विभागों के दायित्वों और तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने सभी को अवगत कराया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 01 जुलाई से 31 जुलाई तक और दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा, जबकि डॉ जागरूकता सप्ताह 12 अगस्त से 18 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

विश्वघस्र पक्ष योग होने से 13 दिए का होगा आषाढ़ कृष्ण पक्ष: शिशिर मिश्र

अवधनामा संवाददाता



सिद्धार्थनगर। आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष 23 जून से 5 जुलाई तक है। द्वितीय व चतुर्दशी तिथि का छह होने से तेरह दिन का पक्ष हो रहा है। ज्योतिर्निबन्ध आदि ग्रन्थों में इसे विश्वघस्र पक्ष कहा गया है, इसे रौरव काल योग कहा गया है।

उक्त बातें आचार्य शिशिर मिश्र ने कही। उन्होंने बताया कि यह त्रयोदश दिन का समय प्राकृतिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजाओं की परस्पर कलह की दृष्टि से, छत्र भंगदि दृष्टियों से अनिष्ट कारक होते हुए अशुभ फल कारक होता है। पक्षयमध्यद्विपतेतादाभवद्वैरवकालयोग पक्ष विनष्टे सकलं विनिष्टे मित्याहुराचार्यं वरा समस्ता। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में एक तिथि क्षय होने से 14 दिन का पक्ष होता है एवं एक तिथि वृद्धि से 16

दिनात्मक पक्ष होता है, परन्तु यदि एक पक्ष में दो तिथियों का क्षय हो जाता है तो वह त्रयोदश दिनात्मक पक्ष कहा जाता है। इस पक्ष को विश्वघस्र पक्ष भी कहा जाता है। घस्रस्तु दिवसे हिंसे यह हिंसा बहुल होकर विविध प्रकार की विषम परिस्थितियों व अघटित घटनाओं को जन्म देता।

इस पक्ष के अशुभ को प्रतिपादित करते हुए शास्त्रों में कहा है कि अनेक युग साहस्यदिन देवयोगात् प्रजायते।

त्रयोदशदिने पक्षः तदा सहते जगत् ॥ कई युगों में प्रजा का नाश कर देने वाला त्रयोदश (तेरह) दिन का पक्ष आता है। उसमें रोग-शोक-भय- कलह-युद्ध और हिंसा आदि अशुभ फल घटित होते हैं। जोने की इच्छा रखने वाले इस त्रयोदश (तेरह) दिन के पक्ष में विवाहादि शुभ कृत्य, गृह निर्माण, लम्बी यात्रादि कार्य न करने के लिए शास्त्र निर्देश है। त्रयोदश (तेरह) दिन के पक्ष की अशुभता के विषय में ऐसा

भी प्राप्त होता है कि - यदा च जायते पक्षस्योदश दिनात्मकः। भवेत्क्षेत्र क्षयो घोरो मुण्डमाला महीतले ॥ इस त्रयोदश (तेरह) दिन के पक्ष में नगर भंग और छत्र भंग की ओर भी संकेत किया है। 13 दिन का पक्ष होने के कारण देश समाज व विश्व के सम्पुष्ट अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती है सूर्य आद्रा नक्षत्र में चल रहा है 28 जून के आस पास तेज हवा के साथ अर्द्ध वृष्टि हो जाने की संभावना है। 13 दिन का पक्ष होने के कारण या तो बहुत वर्षा होगी या सूखा पड़ जाएगा। महाभारत के समय भी त्रयोदश (तेरह) दिन पक्ष की अशुभता देखी गई थी। यदि इस पक्ष में बादल-वर्षा व विद्युत् गर्जना नहीं होती है तो वर्षा का आभाव बना रहेगा। इस विश्वघस्र व रौरव काल योग से बचने के लिए हनुमान चालीसा, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए।

25 को मनाया जायेगा ईद ए गदीर का पर्व

जलालपुर अम्बेडकरनगर। 25 जून को मनाए जाने वाले ईद-ए-गदीर को लेकर नगर व क्षेत्र में तैयारियां पूरी हो गई हैं। ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए जहां मस्जिदों की सजावट शुरू कर दी गई है वहीं पर्व के दिन जगह-जगह होने वाली महफिलों को सफल बनाने को लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शियों के पहले इमाम हजरत अली (अ.स.) को 18 जिलहिल्जा को गदीर के मैदान में आखिरी रस्ूल हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने अपना उत्तराधिकारी होने की घोषणा की थी। इसके साथ यह भी कहा था कि आज के दिन इस्लाम पूर्ण हो गया। इसके बाद से ही इस दिन को ईद-ए-गदीर के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 25 जून को मनाया जाएगा। उर्रस के साथ पर्व मनाए जाने को लेकर क्षेत्र में तैयारियां ने जोर पकड़ लिया है। ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों की सफाई के साथ ही सजावट का कार्य भी शुरू हो गया है। जाफराबाद मोहल्ल स्थित बड़ी मस्जिद में तंजीम जाफरी के बैनर तले मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे ईद-ए-गदीर की नमाज अदा कराई जाएगी।

क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित हुआ तेईस करोड़ पंचानवे लाख रुपये का बजट



अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ क्षेत्र पंचायत की बैठक बीडीओ कार्यालय के दुग्धशाला भवन में शनिवार को आयोजित हुई। जिसमें सर्वसम्मति से तेईस करोड़ पंचानवे लाख रुपये का बजट पारित हुआ। अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख प्रीती यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी लोगों का सहयोग व सामंजस्य की जरूरत है। विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र की दशा बदलने का प्रयास किया है, आगे भी आवश्यकता अनुसार विकास कार्य

चकबंदी लेखपाल दूसरे गांव के रकबा में निकाल रहा अपना रकवा ग्रामीणों ने सीओ चकबंदी से की शिकायत

अवधनामा संवाददाता

अमृतपुर फर्रुखाबाद। एक तरफ प्रदेश सरकार हकत कर रहे अधिकारियों पर लगातार लगाने का काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी अपनी आदत से बाज नहीं जा रहे हैं। अधिकारी भी मोटी रकम के लालच में जनता का नुकसान करने में लगे हुए हैं। तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव गुड्डा में इस समय चकबंदी बड़े जोंरें पर चल रही है। वही गुड्डा चकबंदी का रकबा अमैयापुर रकबा में लेकर जा रहा है। जबकि 21 जून को अमैयापुर लेखपाल विमल कुमार व चकबंदी लेखपाल विशेष यादव के बीच के बीच भिड़ंत हो गई। लेकिन विशेष यादव अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वही पुरा संतराम जुगल किशोर का रकबा अमैयापुर में है। और विशेष यादव ने जुगलकिशोर को पुरतैनी खेत में गुड्डा का रकबा निकाल दिया। जबकि उसके समीप चक मार्ग भी पहले से ही बना हुआ है और हद भी क्लियर पहले से हो चुकी थी। लेकिन विशेष यादव व

कानून गो चकबंदी लगातार अमैयापुर के में रकबा निकाल रहे हैं। वही आज लोगों ने जिसका विरोध जताते हुए सीओ चकबंदी के यहां पहुंच कर राजकुमार विक्रम रामशरण हंसराम दाताराम आदि लोगों ने अवगत कराया की चकबंदी लेखपाल अमैयापुर के रकबा में काफी यादों तक खेत लिए जा रहे हैं जबकि लगभग 25 वर्ष पहले चकबंदी अमैयापुर रकबा की हुई थी। वह भी विभागीय अधिकारियों ने ही तो की थी उसको नकारते हुए। चकबंदी लेखपाल विशेष यादव व कानूनगो अपनी मनमानी के चलते और मोटी रकम वसूलने के लालच में अमैयापुर में अपना रकबा निकाल रहे हैं। अमैयापुर के व्यक्तियों का गुड्डा में जमीन थी उन लोगों को जमीन कम दी गई और ना तो जमीन का कोई सटीक कागज नहीं दिया गया। जिसपर अमैयापुर के लोग एतराज जताते हुए सीओ चकबंदी के यहां पर शिकायती पत्र दिया और ग्रामीणों का कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के यहां तक जा सकते हैं।

आंधी और बारिश से उजड़ गया गरीब का आशियाना



अवधनामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। बढ़नी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरहवा में गत रात्रि में आई भयंकर आंधी और पानी से एक गरीब का आशियाना उजड़ गया और उसके एक बच्चे का सार भी फट गया, गरीब की बेबशी का आलम यह है कि वह अपनी पत्नी और तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ दूसरे के घर में रहकर गुजारा कर रहा है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, जबकि पीड़ित भाजपा का बूथ अध्यक्ष बताया जाता है। गत रात्रि आई तेज आंधी और तुफान की चपेट में बढ़नी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरहवा निवासी प्रभु प्रसाद पुत्र अन्त राम का घर उजड़ गया। बताया जाता है कि वह पतरा और छप्पर के बने घर में अपनी पत्नी व तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ

रहता है। कहा जाता है कि गुरुवार की रात्रि में आई तेज आंधी में पीड़ित प्रभु का घर बिखर गया पतरा टूटकर उड़ गया पुत्र को सार में चोटे में भी आई और वह घर से बेघर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित प्रभु की सुधि लेने वाला प्रशासन कुंभकर्णी नौद में सो रहा है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। गरीब प्रभु घर से बेघर होकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे के घर में जीवन का निर्वाह कर रहा है। कहा जाता है कि प्रभु भाजपा का बूथ अध्यक्ष है बावजूद इसके उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव के समय कार्यकर्ताओं को खोज कर बूथ जीतने के लिए संकल्प दिलाते वाले जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना है जिससे पीड़ित प्रभु की मदद हो सके।

जमीन कब्जा करने की नियति से मारपीट का लगाया आरोप, थानाध्यक्ष से लगाई गुहार

अवधनामा संवाददाता

इटवा। इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम धौरहरा मय प्रसादी खात निवासी विजय कुमार मौर्या ने थानाध्यक्ष इटवा को पत्र देकर अपने व परिजनों के साथ मारपीट व जमीन कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। विजय कुमार मौर्या पुत्र कुपाशंकर मौर्या ने थानाध्यक्ष को दिए गए पत्र में कहा है कि मौजा धौरहरा में घर के बगल में प्रार्थी के पिता कुपाशंकर के नाम से भूमिधरी आराजी है, जिसको शनिवार सुबह लगभग 9 बजे रंगीलाल पुत्र नोहर व राम सेवक पुत्र नोहर व उनकी औसते हम प्रार्थी के जमीन के मेड़ तोड़कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। रोकने पर भद्दी-भद्दी गलियां देने लगे तथा डण्डा फावड़ा लात घूस से मेरे और मेरी माता



चन्दावती देवी पत्नी कुपाशंकर को मारने लगे जिसमें हम प्रार्थी के माता चन्दावती का नाक फावड़ा से कट गया है। जो गम्भीर रूप से घायल हो गयी है। विजय कुमार मौर्या ने रंगीलाल पुत्र नोहर व राम सेवक पुत्र नोहर व उनकी पत्नी देवी पत्नी राम सेवक व सुमिरन पत्नी रंगी लाल के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

सपा नेता को विधायक त्रिभुवनदत्त ने दी सांत्वना



अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। जिले के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के विकास खंड भियांव के ग्राम सभा लखमीपुर निवासी एवं समाजवादी पार्टी के नेता श्री हीरालाल गौड़ पहलवान के पत्नी के असमय निधन पर आज उनके आवास पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव/पूर्व सांसद/आलापुर के विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी ने शोक संवेदना व्यक्त की तथा शोक संतप्त परिवार को ढाँढस बंधाया इसके बाद विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी ने वेदा बाजार निवासी डॉक्टर सत्यनारायण यादव के असमय निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। तत्पश्चात विधायक त्रिभुवन दत्त जी ग्राम वेरगा निवासी श्री विपिन शर्मा के आवास एवं मुंडेठा बाजार निवासी श्री पप्पू पाण्डेय के आवास पर शुभचिंतक एवं कार्यकर्ता साथियों से मुलाकात की। इस मौके पर सपा नेता अजय गौतम एडवोकेट, कृष्ण कुमार पाण्डेय, प्रधान श्यामलाल, प्रधान बंशीलाल यादव, मेवालाल गौतम, पूर्व प्रधान रामचन्द्र गौतम, राम वेत भारती, सुनील गौड़, सन्तोष कुमार, डा राम प्रसाद, बांकलाल गौतम, रोशनलाल गौतम, अन्नू कनौजिया आदि मौजूद रहे।

डीएम ने सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस में लोगों की सुनी समस्याएं



अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। शासन के मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस के अन्तसर पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा थाना जोगिया उदयपुर में लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जिलाधिकारी पवन अग्रवाल सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को शिकायतों की गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा थाना दिवस रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी

ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से लिया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। कहा कि वरासत का कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निवास प्रमाण-पत्र उपजिलाधिकारी, आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार के माध्यम से जारी किये जाते हैं। लेखपाल अपने स्तर से रिपोर्ट निर्देशित कराये। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।

हर हाल में शिकायतों का निस्तारण समय से हो

उई (जालौन)। हर हाल में शिकायतों का निस्तारण समय से किया जाए यह निर्देश उप जिलाधिकारी जालौन अतुल कुमार ने सिरसा कलार थाना परिसर में आयोजित थाना दिवस पर उपस्थित सभी राजस्व कर्मियों के लिए। जालौन में कोतवाल वीरेंद्र पटेल की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ जिसमें मात्र तीन शिकायत दर्ज की गई एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। कुचैद थाने में थाना समाधान दिवस तहसीलदार श्री मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिसमें एक दर्जन शिकायत दर्ज की गई तथा दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। सिरसा कलार में थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी अतुल कुमार ने सभी राजस्व कर्मियों को निर्देशित करते हुए थाना दिवस पर आई शिकायतों का जल्द निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए।

ई ऑफिस प्रणाली का कलेक्टर परिसर में मंडलायुक्त विमल कुमार ने किया शुभारंभ

अवधनामा संवाददाता

उई (जालौन)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंदिरा स्टेडियम के ग्राउंड उई में वतीर मुख्य अतिथि आयुक्त विमल कुमार दुवे ने जिले के समस्त अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के बीच योगाभ्यास किया। इसके बाद कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारिगणों की समीक्षा बैठक ली गयी। समीक्षा बैठक के पूर्व कलेक्टर परिसर में ई ऑफिस प्रणाली का आयुक्त झाँसी मुण्डल झाँसी विमल कुमार दुवे द्वारा शुभारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी, कार्यालय समय की बचत भी होगी। इससे कार्यप्रणाली, पारदर्शी, सस्लीकृत, प्रभावी होकर



सम्बन्धित अधिकारिगणों एवं कर्मचारिगणों की जबाबदेही भी होगी, कामज रहित रहेगी। जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस दिशा में ईडीएम एवं कलेक्टर कर्मचारियों की अहम भूमिका रही जो सगहनिय है कलेक्टर हेतु ई डी एम पुण्ड्रे सिंह को ई एम डी मैनेजर नामित किया गया है। पुण्ड्रे सिंह द्वारा

ऑफिस के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों ने इसकी शुरुवात करके अहम भूमिका निभाई है। ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कलेक्टर के विभिन्न अनुभागों की 8 फाइलें ए डी एम वित्त एवं राजस्व के माध्यम से डी एम को भेजी। जिसमें डी एम द्वारा उक्त प्रणाली के तहत अनुमोदित की गयी।

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

पत्रांक : 66/ई0ई0-वि0न0/एन0जे0एस0/ निविदा दिनांक 22/06/2024

अल्प कालीन निविदा-सूचना

निम्नलिखित कार्य/आपूर्ति हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदा दि० 29/06/2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन शायं काल 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। सन्दर्भित कार्य हेतु निविदा किसी भी कार्य दिवस में दि० 29/06/2024 को समय 2.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अनैस्टमनी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/ एन०एस०सी० के रूप में अधिशासी अभियन्ता जोन-विकासनगर के पद नाम से बन्धक होना अनिवार्य है। बिना अनैस्टमनी के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये महाप्रबन्धक, जलकल विभाग में निहित होगा। पूर्ण विवरण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है। कार्यालय में अवकाश होने की दशा में निविदायें उसी क्रम में समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Reboring of 1.5 HP Submersible Pump 02 Nos in front of H.No 3/719 at Park and in front of H No 3/318 at Park, Lohiya Nagar Ward, Lko	6600.00	Rs. 400	07 दिवस

निविदा प्राप्त करने की शर्त :- 1. निविदादाता का जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ एवं जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर जलकल विभाग, लखनऊ

बच्चे को बचाने के चक्कर में गिरी बाइक, एक की मौत

बांसी सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। शिवनगर डिस्टेंड थानानर्गत बांसी-बस्ती रोड पर बच्चे को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित बाइक के रोड पर गिरेने से बाइक पर सवार 05 वर्षीय महिला की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार सांय 05 की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार खेसरहा थाना क्षेत्र के करमा बाबू गाँव निवासी सिंगाारी देवी पत्नी जयराम शिवनगर थाना क्षेत्र के कपियाकला गाँव से कोतवाली बांसी क्षेत्र के गोहर गाँव निवासी सिकंदर के साथ गोहर गाँव जा रही थीं। बताया जाता है कि अभी उनकी बाइक बांसी- बस्ती मार्ग पर स्थित खुंटहना चौराहा व जमुनी के बीच पहुँची थी कि रोड पर अचानक आए बच्चे को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रोड पर गिर गई। इस घटना में सिकंदर व सिंगाारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सारवाकेंद्र तिलौली पहुँचाया गया जहां जांच के बाद डक्टर ने सिंगाारी देवी को मुक्त बताया तथा गंभीर रूप से घायल सिकंदर को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस बावत प्रभारी निरीक्षक रामकृपाल शुक्ला ने बताया कि गंभीर रूप से घायल सिकंदर को मेडिकल कॉलेज भेजा गया तथा मृतका के शिव को पीएम हेतु भेजने के लिए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नियमों के विपरीत तैनात लेखपाल हटायें जायेंगे

अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। जनपद में नियमों को दरकिनार कर गृह ब्लाक में तैनात लेखपालों को जल्द हटकर दूसरे ब्लाकों में तैनात किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन लेखपालों की लिस्ट तैयार कर रहा है। जिले में सेकेंड लेखपाल ऐसे हैं। जिनको उनके गृह ब्लाक में तैनात किया गया है राजस्व विभाग में लेखपालों को तैनाती को लेकर नियम है कि उनकी तैनाती उनके गृह ब्लाक में नहीं की जाएगी, लेकिन जिले के पांच तहसीलों के 9 ब्लाक में ऐसे सेकेंड लेखपाल हैं। जिनकी तैनाती उनके गृह ब्लाक में है। कई लेखपाल तो ऐसे हैं कि वह जहां निवास कर रहे हैं, उन्हें वही या उनके बगल के गाँव में तैनात कर दिया गया है। जिससे कभी-कभी उनको लेकर शिकायत आती रहती है। लेखपालों की नियमों के विरुद्ध हुई तैनाती को लेकर अब जिला प्रशासन ऐसे लेखपालों की लिस्ट बना रहा है। जो अपने गृह ब्लाक में तैनात हैं, उन्हें जल्द ही दूसरे ब्लाक में तैनात करने की तैयारी चल रही है। उपर जिला अधिकारी सदानन्द गुप्ता ने बताया कि लेखपालों की कमी के कारण उनकी तैनाती में थोड़ा टैकनिकल मिस्टेक आयी है। इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

पत्र सं० : 57/E.E-V.N/L.J.S/2024-25/निविदा दिनांक 21/06/2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

जलकल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुरूप कार्य को कराये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 28/06/2024 को 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा पत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 28/06/2024 को 1:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान केश काउन्टर पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सीलड निविदायें उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 3:30 बजे तक निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी। निविदा बाक्स से प्राप्त सभी निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे सांय काल खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य/आपूर्ति का विवरण	निविदा का मूल्य	धरोहर धनराशि
1	जोन विकास नगर के अन्तगत शंकरपुरवा तृतीय में मं०सं-03 सामने पार्क गुलशन एन्क्लेव खुर्रमनगर में स्थापित समरसेविल पम्प के रिबोर का कार्य।	200.00	3300.00

नियम एवं शर्तें निविदा पत्र में दी गई हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता जोन-विकास नगर के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा खुलने के दिनांक को यदि कोई अवकाश हो अथवा किसी कारणवश कार्यालय बन्द हो तो अगला कार्य दिवस ही निविदा खुलने का दिनांक होगा। निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/महाप्रबन्धक में निहित है।

अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर जलकल विभाग, लखनऊ

सामूहिक प्रयासों से यूपी को कृषि क्षेत्र में बनाना है अग्रणी: शाही

● गोरेखपुर में आयोजित की गई मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2024

● कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव कृषि ने भी की सहभागिता



मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों तथा सहभागी किसानों से अपील की कि हमें सामूहिक प्रयासों से प्रदेश को कृषि क्षेत्र में उल्लेख बनाना है। उन्होंने किसानों उनकी प्रत्येक समस्या का उचित समाधान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में भी ध्यान दें जिससे उनकी आजीविका बढ़ सके। राज्य सरकार भी इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास

कर रही है। उन्होंने कहा कि 3090 को कृषि क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनाना है। मंत्री जी ने कहा कि दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए सरकार ने 10 लाख किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करावाये हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप विगत सात वर्षों में प्रदेश में दलहन के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दलहन के साथ तिलहन के उत्पादन के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। विगत 7 वर्षों में तिलहन के उत्पादन में लगभग 8.5 लाख टन की वृद्धि हुई है। मंत्री जी ने कहा कि नंद

बावा दुग्ध मिशन तथा गौ-संवर्धन योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। चारा उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, बंजर भूमि विकास हेतु जिस्म का वितरण, एफपीओ को कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएफपी में निरन्तर वृद्धि आदि प्रयासों के माध्यम से सरकार कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीज के लिए सीड हब का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीड पार्क भी बनाये जा रहे हैं ताकि किसान बीज खरीदने के साथ बीज का उत्पादन भी करें। उन्होंने किसानों से डेचा की खेती करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह अत्यंत कम लागत वाली कृषि है जो आय के साथ भूमि के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनायेगी।

कारागार मंत्री दारासिंह चौहान ने नव-नियुक्त डिप्टी जेलरों के प्रशिक्षण सत्र का किया शुभारम्भ



अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के कारागार मंत्री श्री दारासिंह चौहान ने शनिवार को कारागार मुख्यालय, लखनऊ में नव-नियुक्त डिप्टी जेलरों के अभिर्नदन एवं प्रशिक्षण सत्र का शुभारम्भ किया। उन्होंने सभी नव-नियुक्त डिप्टी जेलरों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि डिप्टी जेलर कारागार की रीढ़ की हड्डी हैं और यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य के 75 नव चर्चयित

डिप्टी जेलरों में 25 महिलाएं हैं, जिनमें से 33 डिप्टी जेलरों ने जॉइनिंग दी और इनमें 11 महिलाएं हैं। प्रमुख सचिव कारागार श्री राजेश कुमार सिंह ने चर्चयित डिप्टी जेलरों के शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 33 डिप्टी जेलरों में से 12 बी.टेक, 1 एम.टेक, 4 बी.ए., 4 एम.ए., 10 बी.एससी. और 2 एम.एससी. हैं। उन्होंने बताया कि डॉ.0 संपूर्णानंद संस्थान में नियमित रूप से अधिकारियों और जेल वार्डों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्थान में प्रशिक्षण के लिए

उपलब्ध संसाधनों में प्रशासनिक भवन, व्याख्यान कक्ष, व्यायामशाला, पुस्तकालय, चिकित्सालय, अतिथि गृह, इनडोर खेल परिसर, आर्टिडोरियम, अधिकारी छात्रावास, बंदीरक्षक छात्रावास, महिला छात्रावास, आवासियों परिसर, क्यूटर लैब और परेड ग्राउंड शामिल हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कारागार श्री पी.वी. रमाशास्त्री, कारागार मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण, प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा नव-नियुक्त डिप्टी जेलर गण उपस्थित रहे।

जिला संयोजक जिला प्रमुख जिला संगठन मंत्री नगर विस्तारक के दायित्व की घोषणा

कौशांबी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत अभ्यास वर्ग चर्चोली मां खंडवारी महिला महाविद्यालय में परिषद की बैठक हुई और बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यो पर चर्चा हुई विद्यार्थियों का हित कैसे किया जाए इस पर लोगों ने अपने-अपने सुझाव रखे बैठक के बाद कौशांबी के पदाधिकारी की घोषणा की गई है कौशांबी जिले के जिला संयोजक का दायित्व शिवबाबू चौधरी को सौंपा गया जिला प्रमुख की जिम्मेदारी भवस मेहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरवारी के प्राचार्य डॉ.प्रबोध श्रीवास्तव को सौंपी गयी वा जिला संयोजक मंत्री की जिम्मेदारी अश्वनी सिंह को दी गयी है नगर विस्तारक कमल बनाए गए हैं सर्वसम्मत से उनके नाम को स्वीकृत प्रदान की गई है कौशांबी जनपद के पदाधिकारी के घोषणा होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि नए पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मजबूत होगा।

योगा डे पर टीएमयू योगमय

● तीर्थंकर महावीर युनिवर्सिटी के टिम्बट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से मना 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। तीर्थंकर महावीर युनिवर्सिटी, मुरादाबाद के टिम्बट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सभी आयु वर्ग और फिटनेस के लिए विभिन्न प्रकार के योग और आसन कराए गए, जिन्हें दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। डीन स्टुडेंट्स वेल्फेयर एवम् चोफ प्रॉक्टर प्रो. एमपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि बोले, योग जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें अपने व्यस्त जीवन में संतुलन पाने और अपने भीतर से जुड़ने में मदद करता है। हमें योग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प



लेना चाहिए ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। इस मौके पर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल प्रो. मनु मिश्रा के संग - संग श्रीमती गुरमती कौर की भी उल्लेखनीय मौजूदगी रही। फेसिलिटेटर श्री अमित शर्मा के नेतृत्व में एक योग सत्र हुआ। योग सत्र में विभिन्न योग आसनों जैसे- सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, हलासन, प्राणायामों जैसे- शीतली

प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, ध्रमरी प्राणायाम के बारे में विस्तार से समझाया। योग सत्र में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जीवंत और स्फूर्तिदायक योग अभ्यासों का प्रक्षिणण लिया। पारंपरिक योग मुद्राओं को आधुनिक फिटनेस दिनचर्या के साथ जोड़कर युवाओं को योग के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पैल ल चर्चा भी हुई, जिसमें प्रशिक्षकों ने योग के

साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव और उनके जीवन पर इसके प्रभाव को साझा किया। योग प्रशिक्षकों ने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। योग कार्यक्रम में डॉ. मधुसूदन चक्रवर्ती, श्री तौहिद अख्तर, श्री उमेश उथालेनी, श्री मुकेश कुमार, श्री शेखर राघव के अलावा युनिवर्सिटी के दीगर कॉलेजों की फैकल्टीज और छात्र-छात्राओं ने बड़बड़ कर प्रतिभाग किया।

व्यस्तम जीवन शैली में मानसिक शांति, शकुन के लिए योग आवश्यक: आर पी सिंह

अवधानामा संवाददाता

सोनभद्र/अनपरा। दसवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेणुसागर प्रेक्षागृह में स्वयं और समाज के लिए योग के धीम पर योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिण्डलको रेनूसागर पावर डिवीजन के युनिट हेड आर पी सिंह व वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।



तत्पश्चात अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि व्यस्तम जीवन शैली में मानसिक शांति, शकुन पाने व तनाव दूर करने के लिए योग करना आवश्यक है। योग वह औषधि है जो किसी भी असाध्य बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है, योग न केवल दमिाग व मस्तिष्क को ताकत देता है बल्कि मन को भी शुद्ध रखता है। आज पूरी दुनिया योग की दीवानी हो रही है। उन्होंने उर्परस्थित सभी लोगों से

अपील किया कि योग को दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ व निरोग रहें। इसी क्रम में इ आर हेड मुदुल भरद्वाज ने उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि दैनिक जीवन में योग को शामिल करना सबसे स्वास्थ्यप्रद अभ्यासों में एक है, योग आपके जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाता है और स्वास्थ्य लाभ में मदद करता है। योग प्रशिक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरे भरे प्रेक्षागृह स्थित उपस्थित सभी को प्राणायाम, ताड़सन,

हलासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार मरकट आसन, सर्वांग आसन सहित कुल 22 जरूरी तरीके का योगासन एवं प्राणायाम की शिक्षा दी तथा साथ ही साथ खान पान व दिनचर्या के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी, जिससे सभी लोग हमेशा स्वस्थ व निरोग रहें। तत्पश्चात योग प्रशिक्षक ने विभिन्न रोगों से बचने के लिए योग का महत्व भी बताया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविन्द सिंह, सुबोध दवे, प्रणव सोनी, राजेश सैनी, बृजेश सिंह, अशोक द्विवेदी, रोहित सक्सेना, अजय शंकर तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित थे।

युवाओं को अपनी संस्कृति, कला और विरासत से जोड़कर बनायें एक श्रेष्ठ नागरिक: कृष्ण कुमार यादव

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। युवा आने वाले कल के भविष्य हैं। इनमें आरम्भ से ही अपनी संस्कृति, कला, विरासत, नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह पैदा कर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के इस अनिश्चित दौर में उनमें अध्ययन, मनन, रचनात्मक लेखन और कलात्मक प्रवृत्तियों की आदत न सिर्फ उन्हें नकारात्मकता से दूर रखेगी अपितु उनके मनोमस्तिष्क में अच्छे विचारों का निर्माण भी करेगी। उक्त उद्घार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने नव भारत निर्माण समिति द्वारा भारतीय संस्कृति एवं योग विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण करते हुए बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन नव भारत निर्माण समिति द्वारा वाराणसी समेत पूर्वांचल के 16 जिलों के 14-22 आयु वर्ग के विद्यार्थियों पर केंद्रित इन्हें पंचदं अभियान के अंतर्गत किया गया था। ऋषिव वैदिक अनुसंधान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शिवपुर,



वाराणसी में आयोजित समारोह में पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने वाराणसी मंडल के मुख्य कोषाधिकारी श्री गोविंद सिंह, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार श्री एस. प्रणाम सिंह के साथ विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और उनके उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। पूजा सिंह चौहान, पालक प्रजापति, पालक कुमारी को ऋणशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार मिला वहीं संतोषी वर्मा, सचिन सेठ, भेला वर्मा, रोशनी वर्मा, मानसी पांडेय, अर्चिता, महिमा को सात्वना पुरस्कार दिया गया। सभी को मेडल, प्रशस्ति पत्र

और नकद राशि सम्मान स्वरूप दी गईं। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आज की व्यस्त लाइफ स्टाइल में न सिर्फ शारीरिक बल्कि संवेदना के स्तर पर मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अभूतपूर्व उपहार है योग-कर्मसु कौशलम के माध्यम से भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य और विश्वगण धरोहर को वैश्विक स्तर पर अपनाना पड़ेगा है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है जो मानव कल्याण के लिए मूल्यवान

है। श्री यादव ने कहा कि नव भारत निर्माण समिति ने बनारस लिट फेस्ट - 2023-24 में 84 प्रतिशत लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी ने शेष लाभार्थियों का भी भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जन्नी सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 84 प्रतिशत लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर शेष लाभार्थियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने आशाओं के भुगतान में भी प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक में मातृ मृत्यु सूचना एवं ऑडिट की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 06 मामले प्राप्त हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने नियमित टीकाकरण की विस्तृत समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर नाजगगी प्रकट करते हुए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को कार्ययोजना बनकर प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि आयुमान भारत के सापेक्ष अब तक कुल 523291 गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं।

रूबरू का साहित्य उत्सव कार्यक्रम सफल रूप से सम्पन्न हुआ

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। रूबरू फाउण्डेशन के बैनर तले कवि सम्मेलन शुभारंभ एवं सम्मान समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान निराला सभागार में रूबरू द्वारा प्रकाशित तन्हा तन्हा में हुआ, जिसमें नेपाल, नीडरलैंड सहित देश भर से आये 150 कलमकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम साहित्य उत्सव में उपस्थित सभी कलमकारों को साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानोह में मुख्य अतिथि पवन सिंह एम.एल.सी. सीतापुर ने शिरकत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा एक दौर था जब हिन्दी उर्दू करीब आई थी, दोनो भाषाओं के बीच एकता बनी थी उस दौर में इसके केन्द्र में प्रेमचन्द्र थे। आज के दौर में एक ऐसा व्यक्तित्व जो योग्य साहित्यकार है जिसका नाम इशराद रही है जो लगातार हिन्दी उर्दू के लेखकों को एक बड़ बंध देते आ रहे है।



उनकी ख्वाहिश है कि इस दौर में दोनो भाषाओं के लोगों के बीच एकता और समानता देखने को मिले सभी शिक्षित एवं विद्वान मिले, बैठे और आपस में विचार - विमर्श करें अतः यह जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमसी द्विवेदी पूर्व पुलिस महानिदेशक ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम इशराद रही अपने दमखम पर तन्हा करते रहते है। उनकी वाणी में इतना असर है कि लोग अपने खर्चें पर आयोजन में आ जाते है। रूबरू हिन्दी उर्दू को करीब लाने का

एक सक्षम माध्यम है इस तरह से आयोजन लगातार हो और इन्हें सम्भवतः हर तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए। कवि, लेखक और गीतकार इशराद रही ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, हर इंसान इस भरी दुनिया में तन्हा और अकेला है लेकिन इंसान को ध्रम है और अकेला है लेकिन इंसान को ध्रम है कि उसके साथ एक लम्बी भीड़ भी है इस भीड़ में वह हमेशा तन्हा है। इस तन्हाई को गौर किया रूबरू फाउण्डेशन ने देशभर से कलमकारों का महामंचा लगाकर, वर्ष भर लोग इस महककुभ का इंतजार करते है।

बोर्ड की बैठक में 20 करोड़ का प्रस्ताव हुआ पास

सोनभद्र। शनिवार को जिला पंचायत सोनभद्र की बैठक अध्यक्ष जिला पंचायत राधिका पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत के मा0सदस्यगण, प्रमुखगण एवं विधान परिषद सदस्य श्याम नारायण सिंह व मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण की आवश्यकता में बैठक की शुरुआत की गई जिसमें जिला पंचायत की गत बैठक पिछले माह 13.02.2024 कार्यवाही के अगतान विभिन्न कार्य 2023-24 की बचत धनराशि से मु0-2.00 करोड़ का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव तथा जिला निधि से जगमगा 1500 करोड़ के अगतान विभिन्न कार्य जैसे-छट्टाट, यागोशेड, सड़क, पुलिया इत्यादि कराये जाने संबंधी प्रस्ताव सर्व सम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया। वहीं उपायुक्त मनरेगा सोनभद्र द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2024-25 मनरेगा लेबर बजट मु0-17570.59 लाख प्रस्तुत किया गया जिस पर चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से मंजूरी प्रदान की गयी।

हिस्ट्रीशीटर का बेटा बना चौकीदार क्षेत्र में कर रहा अवैध तसली

अवधानामा संवाददाता

कौशांबी। हिस्ट्रीशीटर का बेटा चौकीदार बनने के बाद क्षेत्र में आतंक अत्याचार शुरू कर दिया है। उक्त चौकीदार के आतंक के आगे क्षेत्र के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। चरवा थाना क्षेत्र के बरियावां चौकी अंतर्गत रामपुर वंश निवासी बच्चू लाल पुत्र स्व0 केदारनाथ चौकीदार के पद पर कार्यरत है। इसी गांव में मानक को दरकिनारा करते हुए दो लोगों की और तैनाती कर दी गयी है, जिनका नाम सुकुल पुत्र स्व0 छेदी लाल और सुधीर कुमार पुत्र हीरा लाल है। जबकि गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है। जिसमें सुधीर कुमार के पिता हीरा लाल पुत्र स्व0 नरथु लाल पामो एक शांति हिस्ट्रीशीटर था और अब बेटा चौकीदार हो गया है। बेटा चौकीदार बनते ही हीरालाल खुलेआम गुंडई करने लगा है और गांव में बाजार लगती है जिसमें सुधीर कुमार (चौकीदार) और हीरालाल गुंडाटैक्स वसूलते हैं जिनके कारणों पर ग्रामीण उनके खिलाफ डर वश कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। पिता - पुत्र की गुंडई से गांव में डर और दहशत से का माहौल व्याप्त है। गौर करने वाली बात यह है कि एक ही गांव में तीन - तीन चौकीदारों की नियुक्ति कैसे हो गयी जिसमें एक हिस्ट्रीशीटर का बेटा भी है। लोगों की माने तो पुलिस उक्त चौकीदार को कमाई का एक जरिया बना सम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया। वहीं उपायुक्त मनरेगा सोनभद्र द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2024-25 मनरेगा लेबर बजट मु0-17570.59 लाख प्रस्तुत किया गया जिस पर चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से मंजूरी प्रदान की गयी।

धूल भरी आंधी और रिमझिम बारिश ने दी राहत

अमेठी। जिले में सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। हालांकि बीच में सूर्य देव बादलों के बीच आंख मिचौली करते रहे जिसके कारण तपिश कुछ कम रही लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही थी। शाम लगभग 5 बजे धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चली कुछ देर बाद रिमझिम बारिश हुई जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली। आसमान में काले बादल छाए हैं लोगों को जिले में मानसून का बसन्ती से इंतजार है। एक तबिये समय से भीषण गर्मी से लोग उब गए हैं लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए लोग बारिश के इंतजार में हैं।

एक ही गांव में 15 वर्षों से तैनात सफाई कर्मी कर रहा मनमानी

कौशांबी। सिरायू ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मधवामई गांव में नालिया दूट गई है और सड़क पर नालियों का गढ़ पानी बहता रहता है। सफाई कर्मचारी से जब ग्रामीण लोग सफाई के लिए कहते हैं तो सफाई कर्मी ग्रामीणों से अकड़ दिखाता है और कहता है कि जो कुछ करना है कर लीजिए हम सफाई अपनी मर्जी से ही करेंगे जहां हमारी इच्छा होगी वहीं सफाई करेंगे आपके कहने से नहीं करेंगे आप हमें वेतन नहीं देते हैं जो आपके कहने पर हम सफाई करें। ग्रामीणों से सफाई कर्मी यह भी बोलता है कि एक ही गांव में 15 वर्षों से तैनात हूँ मुझे कोई ट्रांसफर करने वाला सिरायू ब्लॉक में नहीं है। किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो मुझे मधवामई गांव से ट्रांसफर करके दूसरे गांव में भेज दे।

सूचना

मेरे हाईस्कूल की इत्यादि के अंक पत्रों में सुटिंश मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह दर्ज हो गया है।जबकि आधार कार्ड सहित अन्य सभी अभिलेखों में मेरा नाम जितेंद्र सिंह दर्ज है। मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

जितेंद्र सिंह पुत्र राजकुमार सिंह

निवासी-सी-1-1111

गोमती इन्कलेव अवध बिहार

योजना लखनऊ 226002

घरेलू नुस्खे

स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू आएंगे सबको पसंद, नोट करें ये टेस्टी रेसिपी



अगर आप भी स्ट्रीट फूड खाने शौकीन हैं तो यह आर्टिकल सिर्फ आपके लिए है। दरअसल, हम लेकर आए सबकी पसंदीदा स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू की रेसिपी। वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीट फूड है राम लड्डू है। ये मूंग दाल से तैयार किया जाता है। राम लड्डू स्वाद में एकदम टेस्टी होते हैं और इन्हें बनाना बेहद आसान है। बल्कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर का भी रिच सोर्स है। यह काफी हेल्थी है, जो पाचन भी अच्छा बना रहता है। आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं।

राम लड्डू बनाने के लिए सामग्री

- 1 कप मूंग दाल
 - रिफाईंड ऑयल
 - 3 कप पानी
 - 1 इंच अदरक का टुकड़ा
 - हरी मिर्च
 - 1/2 कप हरी चटनी
 - 1 चम्मच नमक
 - 2 चुटकी हींग
 - 1 चम्मच जीरा
 - 1/2 कप चना दाल
- टॉपिंग के लिए**
- काला नमक
 - चाट मसाला
 - नींबू का रस
 - 1 कप कढ़कस की हुई मूली
 - 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती

स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू बनाने की विधि

- राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और मूंग दाल को रात भर पानी में भिगोकर रख दें।
- अगले दिन दाल का पानी निकालकर भिगोई हुई दालों के साथ अदरक, हरी मिर्च, जीरा, हींग और नमक डालकर मिला लें। अब इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर उसका स्मूथ बैटर तैयार कर लें।
- दालों के इस मिश्रण को एक बाउल में अलग निकालकर रख लें। इसके बाद मीडियम आंच पर कढ़ाई गर्म करके उसमें तेल गर्म करें।
- जब तेल गर्म हो जाए तो मिश्रण का एक बड़ा चम्मच लें और इन्हें डीप फ्राई करें। जब लड्डू का रंग सुनहरा भूरा हो जाए तो आंच बंद कर दें।
- तैयार लड्डूओं पर कोटिंग करने के लिए एक और बर्तन लेकर उसमें कढ़कस की हुआ मूली, नींबू का रस, हरा धनिया और काला नमक डालकर मिला लें। पहले से फ्राई किए हुए लड्डू को पैन से निकालकर दूसरे कटोरे में मिश्रण के साथ अच्छी तरह लपेट दें।
- आपके टेस्टी राम लड्डू बनकर तैयार हैं, इन्हें गरमा गरम हरी चटनी के साथ परोसें।

टैनिंग की समस्या से निजात पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, त्वचा में आरोग्य निखार

गर्मियों के मौसम में सिर्फ हमें अपनी सेहत का ही नहीं बल्कि बालों से लेकर स्किन तक का खास ख्याल रखना पड़ता है। वहीं बात जब स्किन की आती है, तो इस मौसम में टैनिंग की समस्या आम मानी जाती है। टैनिंग की समस्या से बचने के लिए हम एसपीएफ वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन सनस्क्रीन की मदद से आप और जैसी हानिकारक किरणों से तो बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेंसिटिव त्वचा टैनिंग का शिकार हो जाती है। टैनिंग की समस्या से बचने के लिए गर्मियों में हम सभी हाफ स्लीव और बैकलेस कपड़े नहीं पहन पाते हैं।

सूरज की किरणों से काली हुई स्किन को ठीक होने में समय लगता है। ऐसे में अगर आप भी टैनिंग की समस्या से जल्द से जल्द राहत पाना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताते जा रहे हैं। जिनको अपनाने से आप सन टैनिंग की समस्या से राहत पा सकती हैं। इन नुस्खों को अपनाने से खोई हुई रंगत भी लौट सकती हैं।
बादाम है फायदेमंद
बादाम में एमोलिएंट्स और फेटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो त्वचा को हाइड्रेट करने और पोषण देने में सहायता करता है। धूप से झुलसी स्किन पर बादाम तेल अर्पण करने से नर्मा आती है।
सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच बादाम पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स करें। फिर इस मास्क को अपने फेस और गर्दन पर 15-20 मिनट के लिए अर्पण करें और सूखने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें।
यह नुस्खा टैनिंग की समस्या को कम करेगा। आप चाहें तो सप्ताह में दो से तीन बार इस फेसपैक को लगा सकती हैं।

छाछ से बर्न ओट्स
ओट्स हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टैन स्किन के लिए भी लाभकारी होता है। यह हमारी त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ-साथ डेड सेल्स हटाने में सहायता करता है। वहीं छाछ के इस्तेमाल से स्किन कोमल और मुलायम होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करना और बनाना बेहद आसान है।
एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच ओट्स और 2 बड़े चम्मच छाछ मिला लें।
फिर इस पेस्ट को गर्दन, फेस, हाथ और पैरों में मालिश करते हुए अर्पण करें। अब इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से धो लें।
अगर आप सप्ताह में दो बार इस पैक को लगाती हैं तो आपको टैन स्किन से छुटकारा मिल जाएगा।

बादाम तेल
इसके साथ ही बादाम का तेल भी सन टैन को दूर करने में फायदेमंद होता है। बादाम तेल से मसाज करना भी लाभकारी होता है। टैनिंग की समस्या को हटाने के लिए बादाम तेल को हाथों पर अच्छे से रगड़ें और फिर स्किन पर मसाज करें। इसको रात भर के लिए लगा रहने दें। आप इसको तब तक लगा सकते हैं, जब तक आपकी त्वचा पहले की तरह ग्लो न करने लगे और आसानी से।

टैनिंग की समस्या न खत्म हो जाए।
मसूर दाल
बता दें कि मसूर की दाल में एक्सफोलिएटिंग गुण पाया जाता है। वहीं टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के साथ एसिड नेचर होता है। जो आपकी त्वचा में निखार लाने का काम करता है। वहीं एलोवेरा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ ठंडक पहुंचाता है।
मसूर दाल को रात में पानी में भिगो दें और फिर इसको ब्लेंड कर लें। अब कटोरी में टमाटर का रस निकालकर दाल के पेस्ट में मिक्स करें।
अब इस पेस्ट को अपने फेस और गर्दन पर 20-30 मिनट के लिए अर्पण करें।
वहीं पेस्ट सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें।



बुकशेल्फ की साफ-सफाई में लग जाते हैं घंटों तो अपनाएं ये टिप्स, चुटकियों में होगा साफ

में बताते जा रहे हैं। इन टिप्स की मदद से आपको बुकशेल्फ से किताबें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है। किताबें पढ़ने के शौकीन लोग घर में ही ढेर सारी किताबें रखते हैं। लेकिन कई बार इस बुकशेल्फ को व्यवस्थित करना लोगों के लिए एक मुश्किल टास्क बन जाता है। क्योंकि किताबों को व्यवस्थित रखना और इन्हें चुहों से बचाना जरूरी होता है। वहीं बुकशेल्फ की साफ-सफाई करने में हालत खराब हो जाती है। क्योंकि पहले सारे किताबें बाहर निकालो और फिर इसकी साफ-सफाई कर उन्हें फिर से बुकशेल्फ में रखो। यह एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे में अगर आपको भी बुकशेल्फ की साफ-सफाई करने में आलस आता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बुकशेल्फ को साफ-सफाई करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में बताते जा रहे हैं। इन टिप्स की मदद से आपको अलमारी यानी की बुकशेल्फ से किताबें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इसकी साफ-सफाई भी कर पाएंगे।

बुकशेल्फ से ऐसे हटाएं धूल
बुकशेल्फ को साफ करने से पहले इस पर जमी धूल को झारकप से साफ करें। इसके लिए आप सूखे और मुलायम कपड़े की भी मदद ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो माइक्रोफाइबर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यह धूल को अच्छे से साफ करने में सहायता करता है।
पतले ब्रश से करें बुकशेल्फ की



सफाई
बुकशेल्फ में कम स्पेस वाले स्थानों तक पहुंचने और साफ-सफाई करने के लिए आप पंख वाले डस्टर या पतले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से साफ-सफाई करने के लिए आपको अलमारी से किताबें भी नहीं निकालनी पड़ेंगी।
कैसे करें साफ-सफाई

अलमारी को पोंछ लें और फिर पानी से सफाई करें। इससे बुकशेल्फ पर जमी गंदगी साफ हो जाएगी।
बुकशेल्फ की सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
बुकशेल्फ की सफाई करने के दौरान आंखों में धूल-मिट्टी जा सकती है, इसलिए साफ-सफाई के दौरान आपको चश्मे का इस्तेमाल करना है।
वहीं सफाई के दौरान हाथों को गंदगी से बचाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें।
किताबों को अच्छे से व्यवस्थित करें, जिससे की उनकी सफाई करना आसान हो।
समय-समय पर बुकशेल्फ की सफाई करते रहें। जिससे कि इस पर जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए।

घर पर बनाएं कैरी और टमाटर की खट्टी-मीठी चटनी, यहां जानिए रेसिपी

आम तो लगभग सभी के फेवरेट होते हैं, क्योंकि आम के सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं लीची भी समर का फेवरेट फ्रूट है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का सेवन लोग कई तरह से करते हैं। आम की कई वैरायटी होती हैं और यह अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है। आम से शेर, सब्जी, अचार और चटनी आदि बनाई जाती है। आम के कई व्यंजन बनाकर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे तो आम की चटनी आप सभी ने खाई होगी। लेकिन आज हम आपके साथ टिप्स के साथ कैरी की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस रेसिपी में टमाटर की भी जरूरत होगी। तभी यह चटनी खट्टी-मीठी बनेगी। ऐसे में अगर कभी आपका सब्जी बनाने का मन न हो, तो आप इसको रोटी और चावल आदि के साथ भी खा सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको आम और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी के बारे में बताते जा रहे हैं।



राई- 1/4 छोटा चम्मच जीरा- 1/2 छोटा चम्मच सरसों का तेल- 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च- 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च- 1 सूखी

लहसुन की कलियां- 3-4 गुड़- 1 बड़ा चम्मच स्वादानुसार नमक आयरशकतानुसार पानी बनाने का तरीका

सबसे पहले छोटे आम या कैरी को छीलकर अच्छी तरह से धोकर रख लें। अब पैन में पानी गर्म कर लें और उसमें 2 टमाटर डालकर ब्लेंच कर लें। फिर टमाटर के छिलके उतार लें।

किचन की इस चीज के इस्तेमाल से घने और लंबे होंगे बाल, जानिए इस्तेमाल का तरीका



घर की बहुत सारी चीजों को घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रसोई में काला मसाला होता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कलौजी हर किचन में मिलती है और इसको अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलौजी बालों को बढ़ाने में मददगार होता है।
कलौजी हेयर डैमज को कम करने, बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर को मजबूत और हेयर फॉलकल्स को बेहतर करने में कारगर है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कलौजी वाले पानी से बालों को किस तरह से धोया जा सकता है।
कलौजी का पानी

कलौजी का पानी सिर को धोने के लिए बेहद अच्छा ऑप्शन होता है। इस पानी को तैयार करने के लिए एक बर्तन में पानी लें और इसको उबालें। इस कलौजी के बीजों को डालकर 15-20 मिनट तक उबालें। अब इस पानी को ठंडा करें और अब इस पानी को अपने स्कैल्प से लेकर बालों की जड़ों में अर्पण करें। सप्ताह में 2-3 बार इस पानी को हेयर वॉश करने से बालों पर अच्छा असर देखने को मिलेगा और इससे बाल भी लंबे होंगे।
नारियल तेल तेल
नारियल के तेल के साथ कलौजी के बीजों को बालों पर अर्पण किया जा सकता है। दो चम्मच कलौजी का तेल और दो चम्मच नारियल तेल मिलाकर रखें। इन तेलों को मिक्स कर हल्का गर्म करें और रुई को

दिखाता है।
मेथी दाने
एक चम्मच कलौजी के दाने, एक चम्मच मेथी के दाने और 250 मिलीलीटर नारियल के तेल के साथ

लीची के बीज को क्यों फेंकना, जब सजा सकते हैं अपना घर

गर्मी का मौसम आते ही घर-घर में लोग लीची खाना पसंद करते हैं। लीची ना केवल खाने में बेहद टेस्टी होती है, बल्कि इसे हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अमूमन यह देखने में आता है कि लीची को छीलकर उसका पल्प खाते हैं और उसके बीज को बाहर फेंक देते हैं। जबकि अगर आप चाहें तो इस बीज को मदद से भी काफी कुछ बना सकते हैं। लीची के बीज को आप भले ही खा नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप अपना घर सजा सकते हैं। लीची के बीज घर को सजाने में बेहद ही मददगार है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि लीची के बीज की मदद से आप किस तरह अपने घर को एक यूनिक लुक दे सकते हैं।
वास को सजाएं
वास को बेडरूम से लेकर हॉल तक कहीं पर भी रखा जा सकता है। आप वास फिलर के रूप में लीची के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप साफ फूलदान या जार में लीची




के बीज भरें। आप उन्हें और भी खूबसूरत बनाने के लिए कंकड़, रेत या छोटे शेल्स का इस्तेमाल करें। यह वास देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। आप इसके अपनी शेलफ, टेबल या मेंटल पर रख सकते हैं।
बनाएं वॉल आर्ट
आप अपने घर को सजाने के लिए वॉल आर्ट का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन इसे मार्केट से लाने की जगह आप खुद घर पर ही बना सकते

मिलाएँ। फिर इसको आंच पर पका लें। इस तैयार तेल को बालों पर लगाने से बाल झड़ना कम होता है। इस तेल को बनाने का एक दूसरा भी तरीका है। इसके लिए मेथी और

कलौजी के दानों को एकसाथ पीसकर पाउडर बनाएं। फिर इस पाउडर को नारियल के तेल के साथ मिलाकर पकाने पर जो मिश्रण तैयार हो, उसे बालों पर लगाया जा सकता है।
बीज करें तैयार
जब आप अपने घर को लीची की मदद से सजा रहे हैं तो पहले आपको बीजों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए बीजों को अच्छी तरह से धोकर किसी भी बचे हुए फल के गूदे को हटा दें। इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी के घोल का उपयोग कर सकते हैं। अब बीजों को एक पेपर टॉवल पर रखें और फिर पूरी तरह से हवा में सूखने दें। एक बार सूखने के बाद, आप बीजों को थोड़ा सा मिमल ऑयल या ऑलिव ऑयल से पॉलिश कर सकते हैं ताकि वे चमकदार दिखें।

गर्मी के मौसम में कपड़ों से जुड़े ये हैक आएंगे आपके बेहद काम



गर्मी के इस मौसम में चिलचिलाती धूप के कारण हम सभी बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। ऐसे में लगातार पसीने के कारण परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। यूं तो इस मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। मसलन, लगातार एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने से लेकर ठंडी-ठंडी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी में खुद का अधिक बेहतर तरीके से ख्याल रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कपड़ों से जुड़े कुछ हैक्स के बारे में जरूर जानना चाहिए।
यूं तो गर्मी में हम सभी कॉटन या ब्रेथेबल कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इन कपड़ों में भी हमें काफी गर्मी लगती है। ऐसे में कुछ हैक्स आपके काम आते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको गर्मी में कपड़ों से जुड़े कुछ अमेजिंग हैक्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको भी जरूर जानना चाहिए-
अंडरआर्म पसीने के धब्बों को रोकें
गर्मी के मौसम में कपड़ों के अंडरआर्म एरिया पर पसीने के दाग साफतौर पर नजर आते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में आप इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक आसान तरकीब अपना सकते हैं। इसके लिए आप

उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया का आवंटन 5.5 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.5 लाख टन प्रति वर्ष किया गया

क्षमता

एमएनआरई ने शनिवार (22 जून) को एक जारी बयान में यह जानकारी दी। एमएनआरई के मुताबिक अब तक ग्रीन अमोनिया की उपलब्ध क्षमता 5,50,000 टन प्रति वर्ष थी।



नई दिल्ली (हि.स.)। देश में ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित अमोनिया का आवंटन 5.5 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.5 लाख टन प्रति वर्ष कर दिया है। एमएनआरई ने शनिवार (22 जून) को एक जारी बयान में यह जानकारी दी। एमएनआरई के

मुताबिक अब तक ग्रीन अमोनिया की उपलब्ध क्षमता 5,50,000 टन प्रति वर्ष थी। इसके बाद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने भी लागत आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्रीन अमोनिया उत्पादकों के चयन हेतु अनुरोध किया था। मिशन के कार्यान्वयन की गति तेज होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की

मांग भी बढ़ी। ऐसे में एमएनआरई द्वारा उर्वरक क्षेत्र से ग्रीन अमोनिया की मांग में वृद्धि के क्रम में आवंटन में 2 लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। एमएनआरई के मुताबिक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 04 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने

के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के लिए प्रेरणा का काम करेगा। यह मिशन अर्थव्यवस्था को काफी हद तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करेगा और भारत को हरित हाइड्रोजन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और बाजार को लेकर शीर्ष स्थान तक पहुंचने में सक्षम करेगा।

बिहार के सीवान जिले में गंडक नहर पर बना 30 फीट लंबा पुल गिरा

पटना (हि.स.)। बिहार में सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के पट्टे और गरीली गांव के बीच शनिवार को गंडक नहर पर बना 30 फीट लंबा पुल भरभराकर गिर गया। पहले पुल का एक पिलर धंसा और फिर पूरा पुल नहर में समा गया। पुल गिरने से आई तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल के गिरने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है गंडक नहर पर बना यह पुल काफी पुराना था। पिछले वर्ष नहर का निर्माण कराया गया था लेकिन नहर बनाने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से पुल के पिलर से मिट्टी का कटाव होने लगा। इससे पुल का पिलर धंसने लगा और कुछ ही मिनटों में पुल धड़ाम से गिर गया। पुल ध्वस्त होने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया।

एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात को नोटिफिकेशन, 10 साल जेल, 1 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नत्र लीक होने के मामलों की सख्ती से रोकथाम के लिए शुकुवार रात पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया। यह कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था, सरकार ने शुकुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसे लोक परीक्षा कानून 2024% (पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024) नाम दिया गया है। इसके लागू से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नीट पेपर लीक और यूजीसी-नेट परीक्षा कैप्सिल होने को लेकर देशभर में हंगामा है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने %लोक परीक्षा कानून 2024 अधिसूचित किया है।

इस कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। इसके तहत 15

करते हैं या फिर ऐसे संस्थान आयोजित करते हैं जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें कई बड़ी



गतिविधियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने या भारीभारक जुर्माने की की सजा मिल सकती है। पेपर लीक कानून के दायरे में वे सभी परीक्षाएं हैं जिन्हें सार्वजनिक परीक्षा निकाय आयोजित

परीक्षाएं शामिल हैं। कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीई) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं।

रिश्वत लेते आगरा प्रधान डाकघर के वरिष्ठ पोस्ट मास्टर और जनसंपर्क निरीक्षक गिरफ्तार

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगरा स्थित प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर और जनसंपर्क निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इन पर रिश्वत के तौर पर 20 हजार रुपये की पहली किस्त लेने का आरोप है। सीबीआई ने दोनों आरोपितों के आगरा और मथुरा स्थित आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सीबीआई के सूचना अधिकारी ने आज शनिवार (22 जून) को यह जानकारी दी। सीबीआई के मुताबिक एक शिकायत पर 21 जून 2024 को सीनियर पोस्ट मास्टर देवेन्द्र कुमार और जनसंपर्क निरीक्षक राजीव दूबे के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। सीबीआई का आरोप है कि प्रधान डाकघर आगरा में तैनात शिकायतकर्ता को

हाल ही में वरिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर 25 अप्रैल को फोर्ट प्रधान कार्यालय आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि, कथित तौर पर शिकायतकर्ता के



खिलाफ एक विभागीय कार्यवाही भी लंबित थी। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही में अनुकूल रिपोर्ट व निर्णय देने के साथ साथ उसे अपने नए पद स्थान

पर कार्यभार ग्रहण कराने के एवज में आरोपितों द्वारा रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपये की मांग की गई थी। बाद में आरोपितों ने रिश्वत की राशि को घटाकर 50,000/- रुपये कर दी।

सीबीआई के मुताबिक ट्रैप कार्रवाई के दौरान सीनियर पोस्ट मास्टर ने शिकायतकर्ता को रिश्वत के तौर मांगी गई 50 हजार रुपये में से पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रुपये जनसंपर्क निरीक्षक को सौंपने का निर्देश दिया। इस निर्देश पर शिकायतकर्ता ने रिश्वत की यह रकम सह-आरोपित जनसंपर्क निरीक्षक को सौंप दी। आगे की ट्रैप कार्रवाई के दौरान जब यह रकम जनसंपर्क निरीक्षक द्वारा आरोपित सीनियर पोस्ट मास्टर को दी जा रही थी, उसी समय सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

अवैध रेत खनन के मामले में सीबीआई ने राजस्थान के दस प्रमुख शहरों में की छापेमारी

नई दिल्ली (हि.स.)। अवैध रेत खनन के मामले में सीबीआई ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर समेत राजस्थान

शुरू किया था, वह अभी भी जारी है। सीबीआई द्वारा अवैध रेत खनन का मामला हाथ में लेने के बाद यह उसकी



के 10 प्रमुख शहरों में छापेमारी की। तलाशी के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 लाख रुपये नकद और एक देशी पिस्तौल बरामद की है। सीबीआई के अधिकृत सूत्रों के मुताबिक आज शनिवार (22 जून) की सुबह इन शहरों में तलाशी अभियान

दूसरी छापेमारी है। इसके पहले सीबीआई ने बजरी माफियाओं पर कार्रवाई के तहत बूंदी में छापेमारी की थी। अखंडनीय है कि उच्च न्यायालय ने चंबल और बनास नदियों के आस-पास क्षेत्र में अवैध रेत खनन मामलों में छापेमारी के लिए सीबीआई को दिशा

निर्देश दिया है। यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है। सीबीआई ने अवैध रेत खनन मामले में माफियाओं के खिलाफ

मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। सीबीआई स्थानीय पुलिस से भी सहयोग ले रही है।

कोलकाता से लापता बांग्लादेशी नागरिक का तीन दिन बाद भी सुराग नहीं

कोलकाता (हि.स.)। कोलकाता के एक होटल से लापता हुए एक बांग्लादेशी नागरिक का तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इलाज के लिए भारत आया बांग्लादेशी व्यक्ति कोलकाता के एक होटल से लापता होने के तीन दिन बाद भी अभी तक नहीं मिला है।

उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के पबना जिले के पबना सदर उपजिला के हेमायतपुर निवासी मोहम्मद दिलवर हुसैन (23) को आखिरी बार बुधवार को देखा गया था। उन्होंने बताया कि उसके परिवार ने पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया, -सीसीटीवी फुटेज में वह मैदान इलाके में आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसे नहीं देखा जा सका। हम हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। आस-पास के शहरों की पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुसैन अपने परिवार के साथ पिछले सप्ताह कोलकाता आया था।

बांग्लादेश (हि.स.)। भारत और बांग्लादेश के बिना तंबूओं के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उच्छ्रित में डिजिटल क्षेत्र में पार्टनरशिप और ग्रीन पार्टनरशिप सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारत-बांग्लादेश के बीच डिजिटल पार्टनरशिप पर समझौता का आदान-प्रदान हुआ। इसके अलावा ग्रीन पार्टनरशिप पर समझौता, समुद्री और ब्लू इकॉनमी पर एमओयू, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एमओयू, दोनों देशों के बीच रेलवे पर एमओयू, दोनों देशों के बीच समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एमओयू, आपदा प्रबंधन पर एमओयू का नवीनीकरण, सैन्य सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौते का आदान-प्रदान किया गया।

इरान में होगी नेपाल और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात

काठमांडू (हि.स.)। नेपाल और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात इरान की राजधानी तेहरान में तय की गई है। यह मुलाकात 24-25 जून को तेहरान में होने वाले एफिशियन को-ऑपरेशन डायलाग (एसीडी) से इतर होगी। एसीडी में हिस्सा लेने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज रात साढ़े 11 बजे तेहरान के लिए रवाना होंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 24-25 को होने वाले इस डायलाग के दौरान विदेश मंत्री श्रेष्ठ की मुलाकात कई देशों के विदेश मंत्रियों से होगी। डायलाग से इतर विदेश मंत्री श्रेष्ठ की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ तय है। डॉ. जयशंकर के भारत के दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री श्रेष्ठ के साथ फोन पर बात हुई थी। उसी समय दोनों नेताओं के बीच तेहरान में मुलाकात की बात तय की गई थी।

रूस को उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए: संयुक्त राष्ट्र महासचिव

युनाइटेड नेशंस, (हि.स.)। रूस और उत्तर कोरिया के लगातार गहराते संबंधों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस को उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। रूसी संघ सहित किसी भी देश के साथ डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के संबंध में उसपर लागू प्रतिबंधों का पालन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने शुकुवार को पत्रकारों से यह बात तब कही जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन द्वारा बुधवार को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर का आरोप है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए



आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और जापान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 28 जून को बैठक करेगा जिसमें परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन को लेकर प्योंगयांग की तरफ से हथियारों के हस्तांतरण पर चर्चा होगी। उत्तर कोरिया अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल

कार्यक्रमों को लेकर 2006 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया को रूस का लगातार समर्थन मिलता रहा है। दरअसल, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोन उन के तौर-तरीकों से निबटने में पिछले कई वर्षों से 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का विभाजन रह रहा है। रूस और चीन का कहना है कि अधिक प्रतिबंधों से मदद नहीं मिलेगी और वे प्रतिबंधों में ढील चाहते हैं। दोनों देशों का यह भी कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने प्योंगयांग को उकसाया है। हालांकि वाशिंगटन ने बीजिंग और मॉस्को पर उत्तर कोरिया को और अधिक प्रतिबंधों से बचा कर उसका हौसला बढ़ाने का आरोप लगाया है।

राफा के करीब राहत शिविर पर बड़ा हमला, 22 लोगों की मौत, 45 घायल, रेडक्रॉस कार्यालय को भी नुकसान

जेनेवा (हि.स.)। राफा शहर के उत्तरी हिस्से में फिलिस्तीनी विस्थापितों के बीच राहत कार्यों में जुटे रेडक्रॉस का कार्यालय भी शुकुवार को एक हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। विस्थापितों से घिरे इस इलाके में दागे गए गोले में 22 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान घायल 45 लोगों को रेडक्रॉस फील्ड अस्पताल ले जाया

आईसीआरसी कार्यालय की इमारत को नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी के बाद 22 शव और 45 घायलों को रेडक्रॉस फील्ड अस्पताल ले जाया

निशाना। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इजरायली गोलाबारी ने अल-मवासी क्षेत्र में विस्थापितों के तंबूओं को निशाना बनाया जो आईसीआरसी बेस के आसपास है। जबकि इजरायली रक्षा विधिका आर्पूति के बिना तंबूओं में ठिकाना बनाए हुए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि वह हमस के लड़कों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है और सामान्य

बल के प्रवक्ता ने घटना में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि घटना की समीक्षा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गोलाबारी में 25 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। हमले के लिए हमस ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय की तरफ

गणितिकों की मौत को कम करने की कोशिश कर रहा है। हमस के खात्मे के लिए इजराइल की मुहिम नौवें महीने में पहुंच गई है। इस दौरान गाजा में निशाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है।



दक्षिण चीन में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से 47 की मौत

बीजिंग (हि.स.)। चीन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित गुआंगडोंग प्रांत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन में

सीसीटीवी ने शुकुवार दोपहर में कहा कि मीझोउ शहर में 38 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसने कहा कि इसी शहर में इसके

लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसने कहा कि इसी शहर में इसके पहले नौ अन्य लोगों की मौत हुई थी।



कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। चीन की सरकारी मीडिया ने शुकुवार को यह खबर दी। सरकारी प्रसारणकर्ता

पहले नौ अन्य लोगों की मौत हुई थी। सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने शुकुवार दोपहर में कहा कि मीझोउ शहर में 38 अन्य

मेशऊ शहर से 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं 1 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे थे। बाढ़ के हालात को देखते हुए शहर के प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण की आपातकालीन कार्रवाई को सबसे गंभीर स्तर यानि लेवल-1 पर पहुंचा दिया। चीन में बाढ़ नियंत्रण की आपातकालीन व्यवस्था में चार स्तर होते हैं। आसपास के दक्षिणी प्रांत फुजियान में भी भारी बारिश हुई है। वहां अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 जिलों के लगभग 5 लाख 86 हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं।

बांग्लादेश: पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

ढाका (हि.स.)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया के अचानक बीमार पड़ने के बाद शनिवार तड़के उन्हें राजधानी के एकरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खालिदा के निजी चिकित्सक प्रोफेसर एज्जएम हुसैन के



मुताबिक, शनिवार तड़के तीन बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। 79 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से विभिन्न गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं, जिनमें लिवर सिरोसिस, गठिया, मधुमेह और किडनी, फेफड़े और हृदय से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। 2020 में जेल से सशर्त रिहाई के बाद से बीएनपी प्रमुख को हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर शहाबुद्दीन तालुकदार की अध्यक्षता में मंडिक्रल बोर्ड की देखरेख में चिकित्सा देखभाल मिल रही है।

अमेरिका में सुपर मार्केट में गोलीबारी, दो लोगों की गई जान; हमलावर समेत सात लोग घायल

वाशिंगटन। अमेरिका में एक सुपर मार्केट में हुई गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई। वहीं कानून प्रवर्तन अधिकारी समेत सात अन्य लोग घायल हैं। घटना शुकुवार को अर्कासिस राज्य के फोर्डिस शहर स्थित मैड बुचर किराना स्टोर में हुई। अर्कासिस राज्य पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कानून प्रवर्तन अधिकारी की गोली से हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। डलास काउंटी के शेरिफ माइक नोएडल ने कहा कि घटना को नियंत्रित कर लिया गया है। राज्य पुलिस के हवाला से चन्नडू ने जानकारी दी है कि घायल कानून प्रवर्तन अधिकारी अब खतरे से बाहर हैं। गवर्नर सारा हुकाबी सैंडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी गई है। मैं लोगों के

जीवन बचाने के लिए कानून प्रवर्तन और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं की त्वरित और वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए आभारी हूँ। मेरी प्रार्थनाएँ पीड़ितों और इस भयावह घटना से

प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। बता दें कि फोर्डिस शहर लिटिल रॉक से लगभग 112 किमी दक्षिण में है। यहां 3,200 लोगों की आबादी है।

जलवायु परिवर्तन की वजह से सऊदी अरब में पड़ रही जानलेवा गर्मी, अब तक 550 हज यात्रियों की मौत

नई दिल्ली। जलवायु विज्ञानियों और शोधकर्ताओं के एक स्वतंत्र समूह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ने सऊदी अरब में गर्मी को और बढ़ा दिया है। इसके चलते वहां का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इस भीषण गर्मी की चपेट में आकर कम-से-कम 550 हज यात्रियों की मौत हो गई। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्रकृति की परिवर्तनशीलता ने संभवतः छोटी भूमिका निभाई है। पिछले कुछ सप्ताह से पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से को अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि शुकुवार को शुरू हुई वार्षिक हज यात्रा के दौरान कम-से-कम 550 जार्जियों की मौत हो गई। मक्का की मस्जिद के आसपास तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिपोर्टों के अनुसार, मृतकों में 323 मिस्त्र, 98 भारत, 60 जार्डन और पांच ईरान के नागरिक शामिल हैं। यूरोपीय संघ की फॉंडा से चल रहे क्लाइमेट रिपोर्टों ने इसे %बहुत ही असामान्य घटना बताया। उन्होंने कहा, हम सऊदी अरब में प्रचंड गर्मी के लिए मानव जनित जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें प्राकृतिक परिवर्तनशीलता की भूमिका मामूली हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन की वजह से सऊदी अरब में पड़ रही जानलेवा गर्मी, अब तक 550 हज यात्रियों की मौत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के साथ की बजट पर चर्चा

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के अगुआई में एनडीए सरकार के गठन के साथ बजट पेश करने की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया। अब वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बतौर वित्त मंत्री उनका लगातार सातवां बजट होगा और इस मामले में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी।

बजट पर राज्यों का सुझाव
वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 पर सुझाव के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी बजट पर सुझाव मांगे गए। इसमें राज्य अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में वित्त मंत्री को बताते हैं। अगर उनके पास कोई सुझाव होता है, तो उसे भी दिया जाता है। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए।

भारत सरकार की %पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना% की अधिकतर मंत्रियों ने तारीफ की। इस योजना में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी मिले। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्य के लिए कुछ खास मांगें भी रखीं। उनकी ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई सुझाव भी मिले। इसमें खासकर राज्यों के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए बजट बढ़ाने की बात थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके विकास में हर तरह की मदद देने को तैयार है। फिर चाहे बात वक पर टेक्स बंटवारे की हो, या फिर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और जीएसटी एरियर के भुगतान की। उन्होंने कहा कि पूँजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के जरिए सभी राज्यों के विकास की रफ्तार बढ़ाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को सुझावों के लिए शुक्रिया कहा।

आपकी थाली पर भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप, सूख रही हैं सब्जियां, बढ़ रहे हैं दाम

नई दिल्ली। देश के लगभग आधे हिस्से में तापमान सामान्य के मुकाबले पांच से नौ डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा

में बारिश की कमी और तापमान की अधिकता ने सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति



जिसके चलते खेतों में खड़े प्याज टमाटर बैंगन और पालक जैसी साक-सब्जियों के पौधे सूखने लगे और उपजी हुई सब्जियां खराब होने लगीं। अप्रैल-मई में प्री-मानसून बारिश से सब्जियों की खेती को सहारा मिलता है। किंतु इस बार मानसून ने भी छला। हीट वेव के चलते सब्जियों का रकबा भी घटा है।

लंबे समय से देश के बड़े हिस्से

को भी प्रभावित किया है। महंगाई का सीधा संबंध खेती से है। यह तब रफ्तार पकड़ती है जब खाने-पीने की चीजें महंगी होने लगती हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें कई महीनों से लगातार आठ प्रतिशत से ज्यादा बढ़ रही हैं। आरबीआई के मुताबिक इस वर्ष मई में खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.69 प्रतिशत थी और अप्रैल में 8.70 प्रतिशत। मार्च में 8.52 और

सिगिनाफाई ने इंडिया लाइट फेस्टिवल 2024 में नेचरकनेक्ट लाइटिंग लॉन्च की



नई दिल्ली। लाइटिंग क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनी, सिगिनाफाई (यूरोनेक्स्ट-लाइट) ने आज उद्योग में पहले रिबोल्थनरी प्रोजेक्ट, नेचरकनेक्ट के लॉन्च की घोषणा की है। यह प्राकृतिक रोशनी प्रदान करके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई है। बायोफिलिक डिज़ाइन सिद्धांतों से प्रेरित, नेचरकनेक्ट सूर्य की प्राकृतिक रोशनी प्रदान करती है, जो प्रकृति के नियम के अनुरूप जीवन को प्रेरित कर बेहतर मूड, बेहतर फोकस और अच्छी नींद प्रदान करती है। अध्ययनों में सामने आया है कि लोगों का 90वें समय अंदर बीताता है। इसलिए इनडोर वातावरण का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नेचरकनेक्ट में एक प्रमाणित बायोफिलिक डिज़ाइन सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जिससे इनडोर स्थानों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर एक स्वस्थ, आकर्षक और प्रेरक वातावरण का निर्माण होता है। हमारे मन और शरीर पर प्राकृतिक रोशनी के सकारात्मक प्रभाव को पहचानकर नेचर कनेक्ट की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा दिन में अलग-अलग तीव्रता की सूर्य के समान रोशनी उत्पन्न की गई है, ताकि

शरीर की सर्कैडियन लय संतुलित होकर स्वास्थ्य, ऊर्जा, मूड, उत्पादकता, नींद की गुणवत्ता और संपूर्ण सेहत में सुधार आए।

इस लॉन्च के बारे में सुमित जोशी, सीईओ और एमडी, सिगिनाफाई, ग्रेटर इंडिया ने कहा, हमें भारत में अपना यह उद्योग का प्रथम इनोवेशन लाने पर गर्व है। नेचरकनेक्ट में प्राकृतिक रोशनी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें के रिबोल्थनरी लाइटिंग सिस्टम दिया गया है, जो विस्तृत शोध द्वारा विकसित हुआ है और भारत में प्रोफेशनल स्थानों, हॉस्पिटल और हेल्थकेयर उद्योग के लिए प्राकृतिक इनडोर लाइट का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। स्मार्ट कंट्रोल और एनर्जी-एफिशिएंट एलईडी के साथ नेचरकनेक्ट पूरे दिन बदलते प्रकाश के अनुरूप अपनी रोशनी को एडजस्ट करता रहता है, जिससे सेहत और उत्पादकता में सुधार होता है। सिगिनाफाई में हम केवल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले ही नहीं बल्कि उनकी

अटल पेंशन योजना में रिकॉर्ड 1.22 करोड़ नए सदस्य जुड़े

नई दिल्ली। 2023-24 के दौरान अटल पेंशन योजना में रिकॉर्ड 1.22 करोड़ नए खाते खोले गए। अब सरकार की इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कुल नामांकन 6.62 करोड़ हो गए हैं। यह जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी के जुटाए डेटा से मिली है।

अटल पेंशन योजना के आंकड़े बताते हैं कि कुल नामांकन का लगभग 70.44 प्रतिशत सरकारी बैंकों ने किया है। 19.80 प्रतिशत हिस्सेदारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 6.18 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों की है। 2.39 प्रतिशत सहकारी बैंकों ने किया है। 0.37 प्रतिशत लाभार्थियों का नामांकन पेमेंट्स बैंकों और 0.62 प्रतिशत स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है।

सरकारी पेंशन योजना ने वित्त वर्ष 23-24 के अंत में सकल नामांकन में 24 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की और 6.44 करोड़ पर पहुंच गईं। ब्रह्मन्म के चेयरमैन दीपक मोहंती का कहना है कि ऋद्ध महिलाओं और

युवाओं के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में कुल नामांकन में से 52 प्रतिशत महिलाएं थीं। अगर सकल नामांकन की बात करें, तो इसमें 70 नामांकन लोग 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हैं। राज्यों में 1 करोड़ से अधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में हुआ, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है। इन सभी राज्यों ने करीब 50-50 लाख नामांकन किए हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक ने इस सरकारी पेंशन योजना में 30-30 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा है। वहीं गुजरात, ओडिशा, झारखंड ने 20-20 लाख लोग जोड़े हैं। इन 12 राज्यों में ही अटल पेंशन योजना का 80 फीसदी से नामांकन हुआ है।

अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की आयु वाले नागरिकों के लिए है। वे बैंक या डाकघर शाखा के जरिए योजना से जुड़ सकते हैं, जिसमें उनका बचत बैंक खाता हो।

आपकी थाली पर भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप, सूख रही हैं सब्जियां, बढ़ रहे हैं दाम

फरवरी में 8.66 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट है कि प्रचंड गर्मी ने खाद्य पदार्थों की महंगाई को और भड़काया। अप्रैल से देश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। इसने दो तरह से बाजार पर असर डाला और आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया। पहला पानी के अभाव में हरी सब्जियां खेतों में सूख गईं और उत्पादन कम हो गया। दूसरा थोड़ा-बहुत उत्पादन भी हुआ तो वह प्रचंड गर्मी के चलते बाजार की पहुंच से बाहर रह गया। जैसे-जैसे हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगीं, वैसे-वैसे उपभोक्ताओं का रुख आलू और दालों की ओर होने लगा।

असामान्य रूप से कमी हो गई। देश के लगभग आधे हिस्से में तापमान सामान्य के मुकाबले पांच से नौ डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, जिसके चलते खेतों में खड़े प्याज, टमाटर, बैंगन और पालक जैसी साक-सब्जियों के पौधे सूखने लगे और उपजी हुई सब्जियां खराब होने लगीं।

बाजार में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान किसान आंदोलन के चलते हटा लिया गया। लिहाजा बाजार से प्याज फिर गायब होने लगा। जिन राज्यों में प्याज का उत्पादन नहीं होता है, वहां शुरू में दाम बढ़ने लगा और उसके बाद दायरा व्यापक हो गया।

गैस की डिमांड में आने वाली है तूफानी तेजी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों कर रहीं सप्लाइ का बंदोबस्त

नई दिल्ली। दो बड़ी महारत्न कंपनियों ओएनजीसी और आईओसी ने मिलकर मध्य प्रदेश में स्थित हज्ज गैस फील्ड के नजदीक एक कम क्षमता का एलएनजी टर्मिनल लगाने

प्रतिशत करना चाहती है। सरकार के इस लक्ष्य को देखते हुए अब सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में छोटे एलएनजी टर्मिनल बनाने का फैसला किया है। इसके तहत दो बड़ी महारत्न



की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का अनूठ टर्मिनल होगा। एलएनजी टर्मिनल में न सिर्फ गैस के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होती है बल्कि प्राकृतिक गैस को लिक्विड में बनाने और इसके परिवहन की भी व्यवस्था होती है।

केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक देश की इकोनमी में गैस की हिस्सेदारी को मौजूद 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 15

गैस को लिक्विड में बनाने और इसके परिवहन की भी व्यवस्था होती है। दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि अगले दो दशकों में प्राकृतिक गैस की मांग में काफी ज्यादा वृद्धि की संभावना को देखते हुए सिर्फ विशालकाय एलएनजी टर्मिनल से काम नहीं चलेगा, बल्कि कई जगहों पर हमें छोटे-छोटे टर्मिनल बनाने होंगे। भारत में अभी सात एलएनजी टर्मिनल हैं। इनमें से तीन (दहेज, हजीरा व मुंद्रा) गुजरात में हैं जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु व केरल में एक-एक हैं। ये टर्मिनल अभी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार भविष्य में गैस की खपत में भारी वृद्धि की संभावना को देखते हुए कई नए एलएनजी टर्मिनल के निर्माण की योजना बना चुकी है। वर्ष 2024 से वर्ष 2030 तक हर साल भारत में गैस की सालाना खपत में चार गुना वृद्धि की संभावना है।

अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने पर विचार कर रहा है अमूल

नई दिल्ली। अमूल अमेरिका में एक नए शिखर की तरफ अग्रसर हो रहा है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने वाला गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ मिशिंगिन दुग्ध उत्पादकों संघ के सहयोग से ताजा दूध लॉन्च करने के बाद अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट रेंज का विस्तार करना चाहता है।

के रूप में संबोधित करते हुए मेहता ने यह भी कहा कि दूध भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल बन गई है और अगले दशक में देश वैश्विक दूध उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा होगा। जीसीएमएएमएफ ने भारतीय प्रवासियों और एशियाई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में दूध के चार प्रकार लॉन्च किए हैं। मेहता ने कहा कि हम जल्द ही कनाडा में विस्तार करेंगे, हम दुनिया के अन्य बाजारों पर भी विचार कर रहे हैं।

केन्द्रीय बजट 2024-25 में महत्वपूर्ण संशोधन/परिवर्तन करने के संबंध में मीटिंग सम्पन्न

लखनऊ। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2024-25 को लागू करने के पूर्व एवं उसके क्रियान्वयन के लिए आमंत्रित सुझाव एवं प्रस्तावों पर विचार-विमर्श और चर्चा के लिए एक अतिआवश्यक मीटिंग केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीया श्रीमती निर्मलासीतारमणजी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। मीटिंग में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरीजी सहित वित्त सलाहकार एन्टोनी स्मिथिक, वित्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव सहित ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग भारतीय, चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम इंटर्प्राइसेस, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन फॉर फूड एण्ड ऐग्रिकल्चर टेक्नॉलजी एण्ड डेवलपमेंट सहित देश के 14

व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मीटिंग में विभिन्न हितधारकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में पंजीकृत अनेक उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों के साथ 2024-

आधारित दाल उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने अपनी प्रेस विज्ञापित में बताया कि वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में दाल इंडस्ट्रीज़ के

आयकर की दर 30% + शिक्षा उपकर + सरचार्ज सहित बहुत अधिक है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयकर दाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसे कम करके 20% किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि देश में आयकर के अतिरिक्त भी सभी राज्यों में अनेक प्रकार के कर लगे हुए हैं, जैसे जीएसटी (जीएसटी में सभी प्रकार के व्यापार में जीएसटी की दर अलग अलग है), प्रोफेशनल टैक्स, स्थानीय नगर निगम नगर परिषद के संपत्ति कर, चुंगी कर, पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी, कृषि उपज पर मंडी शुल्क और प्रांपर्टी खरीदने पर स्ट्याम इयूटी सहित विभिन्न प्रकार के टैक्स का बहन व्यापारियों को करना पड़ता है, अतः आयकर की दरों में कमी की जावे। इसके अतिरिक्त देश के राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं को-आपरेटिव बैंकों में ब्याज दरों में भी कमी करने की आवश्यकता है।

गुजरात साइंस सिटी में 10वां विश्व योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया

कानपुर। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल 10वां विश्व

डिसेंबर श्री जे.बी. वदर ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज विश्व में योग करने



योग दिवस योगा फोर सेल्फ एन्ड सोसायटी थीम पर मनाया गया। गुजरात योग बोर्ड और गुजरात के सहयोग से गुजरात साइंस सिटी में भी विश्व योग दिवस मनाया गया था। जिसमें स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, साइंस सिटी के कर्मचारी के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात योग बोर्ड के सदस्यों और योग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योग अभ्यास और प्राणायाम कथये साध ही योग के लाभों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित गुजरात साइंस सिटी के एक्विवक्युटिव

वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। आजकल किसी एक विषय पर फोकस करना मुश्किल होता जा रहा है। जिसका समाधान भी योग में निहित है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था. तब से इसे हर साल एक अलग थीम पर मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि गुजरात साइंस सिटी के एम्प्रीथियेटर में गुजरात योग बोर्ड द्वारा प्रतिदिन सुबह नियमित योग कराये जाते हैं।

अब नहीं रुलाएगी प्याज! सरकार ने खरीदा 71,000 टन का बफर स्टॉक, बताया कब तक कम होंगे दाम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2024 में अब तक बफर स्टॉक के लिए 71 हजार टन खरीदा है। सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने

उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी



के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है और मौजूदा खरीदा उसी का हिस्सा है। सरकार ने उम्मीद जलाई है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छे मानसून के साथ खुदरा कीमतों में कमी आएगी।

अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था। अधिकारी ने कहा, इस साल प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए खरीद की गति पिछले साल के बराबर है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश हुई है।

अगर प्याज के भाव में एकाएक बड़ी तेजी आती है, तो उसे संभालने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का विकल्प आजमाएगी। सरकारी अधिकारी का कहना है कि प्याज की कीमतों में वृद्धि 2023-24 में खरीफ, देर खरीफ और रबी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की कमी के कारण है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश हुई है।

आरबीआई के बाद अब एसबीआई ने भरा सरकार का खजाना

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े लेंडर- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपये का लाभांश) दिया है। यह डिबिंडेड पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए दिया गया है। स्खू चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी की मौजूदगी में शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डिबिंडेड सौंपा।

शालीमार कॉर्प ने किया लॉन्च लजरी लाइफस्टाइल वाला वनवर्ल्ड मार्बेला

लखनऊ। राजधानी के सबसे भरोसेमंद ब्रांड, शालीमार कॉर्प ने अपने नए प्रीमियम रेंजडिंशियल प्रोजेक्ट, वनवर्ल्ड मार्बेला के लॉन्च की घोषणा की है। गोमती नगर एक्सप्लेन में स्थित यह प्रोजेक्ट, शहर में लजरी लाइफस्टाइल के नए मानक स्थापित करने जा रहा है। वनवर्ल्ड मार्बेला में बड़े 2 बीएचके प्लस स्टडी और 3 बीएचके वाले फ्लैट्स हैं, जिसमें सर्वोत्कृष्ट क्वार्टर भी शामिल है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आराम और स्टाइल दोनों चाहते हैं। यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच एक आदर्श संतुलन प्रदान करता है, जिससे यहां के निवासियों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिलती है। शालीमार कॉर्प के होलटाइम डायरेक्टर श्री खालिद मसूद ने प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हुए कहा, "वनवर्ल्ड मार्बेला आपको शानदार और आलीशान जीवनशैली का अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हमने इसे शांत और आरामदायक

बनाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया है। विशाल फ्लैट्स और क्लबवन में मिलने वाली विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ, हमारा लक्ष्य यहां रहने वालों को एक ऐसा माहौल प्रदान करना है जो उनकी व्यक्तिगत खुशी को बढ़ावा

लाइफस्टाइल वाला वनवर्ल्ड मार्बेला

माबेला अपने निवासियों के रहने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई उल्लेखनीय सुविधाएँ प्रदान करता है। इन सुविधाओं में शानदार प्रवेश द्वार, कॉफी शॉप, मीटिंग/कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, बच्चों का इनडोर प्ले एरिया,

बनाया गया एक विशेष स्थान है। यह केवल सुविधाओं से भरपूर जगह ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आप दूसरों से जुड़ सकते हैं और शांति पा सकते हैं। यहां बैंक्रेट हॉल, लॉन, बैठने के लिए प्राइवेट स्पेस, हरियाली से भरपूर प्रवेश, जिम, स्पा, वनस्पतों और बच्चों के लिए रिक्विमिंग पूल जैसी अनेक शानदार सुविधाएँ हैं, जिन्हें पूरी सावधानी से डिज़ाइन किया गया है। यहां मल्टीपरपज हॉल, गेम रूम, रेस्तरां और बार, कार्ड रूम, लाउंज और और भी अनेक सुविधाओं का आनंद लिया जा सकता है। शालीमार कॉर्प ने अपने इस उल्लेखनीय प्रोजेक्ट, वनवर्ल्ड मार्बेला के साथ लखनऊ में आलीशान जीवन जीने के अनुभव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यह प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर की उत्कृष्टता, बेजोड़ गुणवत्ता और असाधारण कस्टमर सर्विसेस के नए मानक स्थापित कर रहा है। एक शानदार जीवनशैली अपनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए, वनवर्ल्ड मार्बेला में स्थित क्लबवन, आराम और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए



उपभोक्ता मामलों के विभाग के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को देशभर में औसत प्याज खुदरा मूल्य 38.67 रुपये प्रति किलो था, जबकि मॉडल मूल्य 40 रुपये प्रति किलो था।

संचारी रोगों से बचाव के लिए एक जुलाई से चलेगा अभियान: डीएम

अवधानामा संवाददाता

देवरिया। जिलाधिकारी अरखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक धनवर्तरी सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने कहा जनपद में 01 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा जो कि आगामी 31 जुलाई तक संचालित रहेगा, साथ ही 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा। सबसे ज्यादा संचारी रोग फैलने वाले गांवों को चिह्नित कर उनमें एंटी लावां दवाइयों के छिड़काव के निर्देश दिए। बैकूड में डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एक जुलाई से 31 जुलाई 2024 के बीच विभिन्न विभागों के माध्यम से होने



वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान संचारी रोग के अधिकतम मामलों वाले गांवों को चिह्नित कर वहां विशेष साफ-सफाई व एंटी लावां दवाइयों का छिड़काव कराए। ताकि वहां फिर से संचारी रोगों का प्रसार न हो। उन्होंने कहा कि 12 विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करके इन रोगों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण के लिए कार्रवाही की जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस

अभियान का नोडल विभाग होगा, जो जनपद, तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करके अभियान संचालित करेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका एवं नगर पंचायत निगरानी समितियों के माध्यम से संचारी रोगों के साथ-साथ शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, खुले में शौच न करना तथा मच्छरों के रोकथाम जागरूकता के लिए कार्य करेंगी।

डीएम ने टीबी मरीजों को पोषण पोटेली प्रदान की

देवरिया। जिलाधिकारी अरखंड प्रताप सिंह ने आज सीएमओ कार्यालय में स्वयं

द्वारा गोद लिये गए 10 टीबी मरीजों को पोषण पोटेली प्रदान की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और कदम से कदम मिलाकर इस दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। बल्कि नियमित रूप से पोषण युक्त भोजन और दवा की कोर्स पूरी करने से इसे हरया जा सकता है। मरीज ठीक होने पश्चात सामान्य जीवन व्यतीत करता है, जिसका समग्र लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। जिलाधिकारी ने समाज के अन्य लोगों को भी टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया। देश में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। जन सहभागिता एवं जागरूकता से ही टीबी को हरया जा सकता है। इसके लिए समाज के हर तबके के लोगों को आगे आना होगा। आज जिन लोगों को जिलाधिकारी ने पोषण पोटेली देकर गोद लिया, उन लोगों को समय से दवा खाने की भी नसीहत दी व कहा कि जो मरीज दवा का कोर्स पूरा करते हैं, वे ठीक हो जाते हैं।

स्वच्छता के ब्रांड एंबेसडर समेत कई लोग सम्मानित

अवधानामा संवाददाता

कसया, कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के द्वारा वेस्ट टू वंडर पार्क में स्वच्छता सम्मान समारोह दिवस का आयोजन कर स्वच्छता व सौंदर्यकरण, प्लास्टिक मुक्त अभियान एवं पौधरोपण के क्षेत्र में निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से तीन लोगों को सम्मानित किया गया।



उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जन सहयोग के माध्यम से प्रथम पायदान पर लाने का जोरदार प्रयास किया जाएगा और सबके सहयोग से एक सुंदर एवं स्वच्छ नगर बनाया जाएगा। और नगर को स्वच्छ

सम्मानित किया। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जन सहयोग के माध्यम से प्रथम पायदान पर लाने का जोरदार प्रयास किया जाएगा और सबके सहयोग से एक सुंदर एवं स्वच्छ नगर बनाया जाएगा। और नगर को स्वच्छ

नया कुशीनगर द्वारा स्वच्छता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

पालिका में बने वेस्ट टू वंडर पार्क में स्वच्छता समारोह मनाए जाने का निर्देश था साथ ही 14 जून से 21 जून के मध्य निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित कर नगर में स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाया जाना है। इसी क्रम में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभासद राजेश मडोशिया, पुष्कर दूबे, आनंदमोहन श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद कुशीनगर के स्वच्छता प्रभारी श्रवण तिवारी, उग्रसेन राजेश श्रीवास्तव हरेन्द्र यादव, मोहम्मद मुस्तफा, साकेत गोविंद राव, कर्मोद पाण्डेय, मुन्ना, रिजवान, राजकुमार, अमन श्रीवास्तव एवं देवेन्द्र गौतम आदि लोग उपस्थित रहे।

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

पत्र सं 0 : 59/E./E.-V.N./L./S/2024-25/निविदा दिनांक : 21/06/2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

जल कल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुरूप कार्य को कराये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 28/06/2024 को 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 28/06/2024 को 1:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान कैश काउन्टर पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सीलड निविदायें उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 3:30 बजे तक निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी। निविदा बाक्स से प्राप्त सभी निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे सांघ काल खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य/आपूर्ति का विवरण	निविदा का मूल्य	घरोहर घनराशि
1	जोन विकास नगर के अंतर्गत गनेश विहार नियर कपरिया बाबा मजार, कल्याणपुर, के0के0 पैलस, मकान सं0-5/340, 6/94, 6/124, 5/416, 12/126 सामने पार्क में स्थापित समरसेबिल पम्प के मरम्मत का कार्य।	250.00	4200.00

नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गई हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता जोन-विकास नगर के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा खुलने के दिनांक को यदि कोई अवकाश हो अथवा किसी कारणवश कार्यालय बन्द हो तो अगला कार्य दिवस ही निविदा खुलने का दिनांक होगा। निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/महाप्रबन्धक में निहित है।

अधिशासी अभियन्ता, जोन-विकासनगर
जलकल विभाग, लखनऊ

शकील अहमद

कुशीनगर (अवधानामा ब्यूरो)।

यूजीसी नेट परीक्षा में गडबड़ी का तार कुशीनगर में भी सिलसिले में शुकवार की रात सीबीआई की टीम कुशीनगर पहुंची और एक सदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पडरौना कोतवाली में पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि सीबीआई टीम की इस पूरी कार्रवाई से पडरौना कोतवाली पुलिस को दूर रखा गया है। सिर्फ थाने के कक्ष का इस्तेमाल पूछताछ के लिए किया जा रहा है। कहना ना होगा कि कुशीनगर जनपद पडोसी राज्य विहार की सीमा से जुड़ा है। नतीजतन इस मामले में कुशीनगर से कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के

यूजीसी नेट परीक्षा में गडबड़ी का तार कुशीनगर में भी

युवक का लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद

बाद ही हो पाएगी। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर सीबीआई को जांच सौंपी है। इस परीक्षा में गोरखपुर में भी बस्ती के एक युवक को पकड़ा गया था। जांच में कुशीनगर के निखिल का नाम आया था इसी आधार पर सीबीआई टीम जांच कर रही है। बताया जाता है कि सीबीआई के रडार में कुशीनगर जनपद के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के दो युवक थे। इसमें कोचिंग संचालक है। जिले में सीबीआई की आने की भनक मिलते



हो कोचिंग संचालक फरार बताया जा रहा है जबकि निखिल को सीबीआई टीम हिरासत से लेकर पूछताछ करने के बाद अपने साथ ले गई।

कोन है निखिल सोनी

पडरौना कोतवाली क्षेत्र के सिधुआ बाजार के रहने वाले व्यापारी बृजेश सोनी का बौस वर्षीय पुत्र निखिल सोनी बीते तीन वर्ष से कोटा में रहकर यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके बाद वह लखनऊ आ गया। विगत एक माह से वह अपने घर सिधुआ में था। बीते दिनों निखिल ने भी यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा दी

थी। वह टेलीग्राम सोशल मीडिया पर यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र के कुछ भाग पोस्ट किया था। दिल्ली सीबीआई की टीम ने गोरखपुर में बस्ती के पकड़े गए युवक द्वारा दी गई जानकारी व टेलीग्राम पर पोस्ट किए प्रश्न पत्र के पत्रों के आधार पर शुकवार को सीबीआई टीम सिधुआ बाजार निवासी बृजेश सोनी के घर पहुंची और निखिल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कि लेकिन निखिल मौके पर नहीं मिला। अगले दिन शनिवार को सीबीआई टीम ने निखिल को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ करने के बाद अपने साथ ले गई। सूत्रों की मानें तो सीबीआई टीम ने निखिल से पूछताछ के दौरान उसका लैपटॉप, मोबाइल भी खंगाली है जिसमें अहम जानकारी मिलने की सूचना है।

डीएम को झूठी सूचना देकर वाहवाही लूट लेंगे चिकित्सक

अवधानामा संवाददाता

कौशांबी। जिले की चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुधार नहीं कर पा रहे हैं जिला स्वास्थ्य सचिव की मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारियों डॉक्टरों ने जिला अधिकारियों को अंकड़ें का खेल बताते हुए वाहवाही लूट लिया है जबकि हकीकत यह है कि प्रवेश क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने जैसे स्थिति में है महीनों बीत जाने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं पहुंचते हैं जिन चिकित्सकों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वह जिला अधिकारी को फिर गुमराह करके वाहवाही लूट कर चले गए हैं। सूत्रों की मानें तो सीबीआई टीम ने निखिल से पूछताछ के दौरान उसका लैपटॉप, मोबाइल भी खंगाली है जिसमें अहम जानकारी मिलने की सूचना है।

कार्यालय : ग्राम पंचायत बनकटा पश्चिम, वि.स्व. - खुनियां, सिद्धार्थनगर

अति अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत बनकटा पश्चिम विकास खण्ड खुनियां, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मरगेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेष्टि स्थल निर्माण एस0एस0डब्ल्यूएस0, गौ-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन को अन्य योजना-नर्तन वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 01-07-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दे बन्द शील्ड लिफाफे में संचिव ग्राम पंचायत बनकटा पश्चिम विकास खण्ड खुनियां जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते हैं। निविदा उम्मी दिनांक 03:00 बजे संचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में खोली जायेगी।

नियम व शर्तें :-

- टेण्डर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा निविदा देने वालों की उपस्थिति में खोली जायेगी।
- सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) को अपने जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणित प्रत एवं आधार की प्रमाणित प्रत देना अनिवार्य है।
- सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) संचिव ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
- सामग्री आपूर्ति (फर्म) को आयकर विभाग का उद्देश्य प्रमाण पत्र की मूल प्रत निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- सामग्री आपूर्ति संचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही की जायेगी।
- सामग्री आपूर्ति की मात्रा कार्यों का नाम व स्थान संचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये आदेश में ही अलग से अंकित होगा। सामग्री की मात्रा कार्यों के समीक्ष अवश्यकृतानुसार ही आपूर्ति करना होगा।
- सामग्री की दर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर मान्य नहीं होगी।
- आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार द्वारा निर्गत जी.एस.टी. का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- निविदा फार्म के साथ रु. 5000.00 का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. आदि जो संचिव ग्राम पंचायत के पक्ष में बंधक होगा, जमानत के रूप में देव होगा, जो राश्वियकृत बैंक का होगा।
- टेण्डर प्रस्तुतकर्ता ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए।
- निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार संचिव ग्राम पंचायत के पास होगा।
- स्वीकृत निविदा (आपूर्तिकर्ता द्वारा समर्थ से सामग्री आपूर्ति न किए जाने पर या किसी भी तरह का विवाद होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार संचिव ग्राम पंचायत को होगा।
- निविदा फार्म 200.00 रु. जमा कर दिनांक 01-07-2024 से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय से अपराह्न 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय सिद्धार्थनगर ही अनुमत्य होगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ 100 रु. का स्टाम्प जमा करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता विभाग/संचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित करने पर ही भुगतान देव होगा।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	इकाई	दर
1	बिजली का तार	मीटर	
2	टिप टांग	मीटर	
3	सिंकिंग	मीटर	
4	मेजर बालू (मेजर)	मीटर	
5	सिंकिंग बालू	मीटर	
6	सिंकिंग बालू	मीटर	
7	फाल्ट रिपैरिंग माल	मीटर	
8	प्रवाह हेतु ईटें/टिड्डे	मीटर	
9	इष्टतम/सिंकिंग ईटें 80 ग्राम	मीटर	
10	सिंकिंग	मीटर	
11	अक्षर पेंट	लीटर	
12	सफाई	मीटर	
13	डिस्टेंस	मीटर	
14	इष्टतम/सिंकिंग ईटें 80 ग्राम	मीटर	
15	वाइरिंग (कंडक्टर, गैल्वे, इन्सुल) 3x4	मीटर	
16	कोलर लैंड 45 वॉट नए इन्वोल्टेन	मीटर	
17	टाइलिंग	मीटर	
18	ए.एम.एस.टी. ईटें लैंड नए इन्वोल्टेन 45 वॉट	मीटर	
19	इलेक्ट्री फिटिंग	मीटर	
20	फैसल (आवर्ण)	मीटर	
21	डिस्टेंस (सॉल्विड/लैंड का) 55 वॉट	मीटर	
22	सिंकिंग मिट्टी	मीटर	
23	आवर्ण का बालू नए सिंकिंग	मीटर	
24	आवर्ण का सिंकिंग	मीटर	
25	पूव	मीटर	
26	सिंकिंग	मीटर	
27	कमकुटूर फिटिंग सिंकिंग (ए.एम.टी. मरम्मत/कम)	मीटर	
28	सिंकिंग टोपी फैसल, कोलर फैसल	मीटर	
29	वै.सी.ई. से बालू	मीटर	
30	कॉन्स्ट्रिक्ट क्राफ	मीटर	
31	कॉन्स्ट्रिक्ट क्राफ	मीटर	
32	बाल स्ट्रॉटिंग फेंडिंग	मीटर	
33	ई-सिंकिंग कूट्ट मशीन/लैंड	मीटर	
34	पॉस्टलट कैब	मीटर	
35	ए.सी.पी.बालू	मीटर	
36	पूव क्राफ	मीटर	
37	सिंकिंग	मीटर	
38	टिप	मीटर	
39	सिंकिंग	मीटर	
40	सिंकिंग	मीटर	
41	पूव आवर्ण	मीटर	
42	सिंकिंग	मीटर	
43	ईष्टतम नया नए मरकुटूर सिंकिंग दर	मीटर	
44	ईष्टतम सिंकिंग	मीटर	
45	आवर्ण के बिना	मीटर	
46	सिंकिंग	मीटर	
47	सिंकिंग	मीटर	
48	सिंकिंग (सिंकिंग/लैंड का) 55 वॉट	मीटर	

नाम प्रधान-कामिनी नाम विकास अधिकारी/सचिव-सर्वजीत सिंह यादव
आम पंचायत-बनकटा पश्चिम, विकास खण्ड-खुनियां, सिद्धार्थनगर आम पंचायत-बनकटा पश्चिम, विकास खण्ड-खुनियां, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्राम पंचायत जबजौवा, वि.स्व. - खुनियां, सिद्धार्थनगर

अति अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत जबजौवा विकास खण्ड खुनियां, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मरगेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेष्टि स्थल निर्माण एस0एस0डब्ल्यूएस0, गौ-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन को अन्य योजना-नर्तन वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-06-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दे बन्द शील्ड लिफाफे में संचिव ग्राम पंचायत जबजौवा विकास खण्ड खुनियां जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते हैं। निविदा उम्मी दिनांक 04:00 बजे संचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में खोली जायेगी।

नियम व शर्तें :-

- टेण्डर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा निविदा देने वालों की उपस्थिति में खोली जायेगी।
- सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) को अपने जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणित प्रत एवं आधार की प्रमाणित प्रत देना अनिवार्य है।
- सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) संचिव ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
- सामग्री आपूर्ति (फर्म) को आयकर विभाग का उद्देश्य प्रमाण पत्र की मूल प्रत निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- सामग्री आपूर्ति संचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही की जायेगी।
- सामग्री आपूर्ति की मात्रा कार्यों का नाम व स्थान संचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये आदेश में ही अलग से अंकित होगा। सामग्री की मात्रा कार्यों के समीक्ष अवश्यकृतानुसार ही आपूर्ति करना होगा।
- सामग्री की दर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर मान्य नहीं होगी।
- आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार द्वारा निर्गत जी.एस.टी. का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- निविदा फार्म के साथ रु. 5000.00 का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. आदि जो संचिव ग्राम पंचायत के पक्ष में बंधक होगा, जमानत के रूप में देव होगा, जो राश्वियकृत बैंक का होगा।
- टेण्डर प्रस्तुतकर्ता ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए।
- निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार संचिव ग्राम पंचायत के पास होगा।
- स्वीकृत निविदा (आपूर्तिकर्ता द्वारा समर्थ से सामग्री आपूर्ति न किए जाने पर या किसी भी तरह का विवाद होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार संचिव ग्राम पंचायत को होगा।
- निविदा फार्म 200.00 रु. जमा कर दिनांक 27-06-2024 से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय से अपराह्न 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय सिद्धार्थनगर ही अनुमत्य होगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ 100 रु. का स्टाम्प जमा करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता विभाग/संचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित करने पर ही भुगतान देव होगा।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	इकाई	दर
1	बिजली का तार	मीटर	
2	टिप टांग	मीटर	
3	सिंकिंग	मीटर	
4	मेजर बालू (मेजर)	मीटर	
5	सिंकिंग बालू	मीटर	
6	सिंकिंग बालू	मीटर	
7	फाल्ट रिपैरिंग माल	मीटर	
8	प्रवाह हेतु ईटें/टिड्डे	मीटर	
9	इष्टतम/सिंकिंग ईटें 80 ग्राम	मीटर	
10	सिंकिंग	मीटर	
11	अक्षर पेंट	लीटर	
12	सफाई	मीटर	
13	डिस्टेंस	मीटर	
14	इष्टतम/सिंकिंग ईटें 80 ग्राम	मीटर	
15	वाइरिंग (कंडक्टर, गैल्वे, इन्सुल) 3x4	मीटर	
16	कोलर लैंड 45 वॉट नए इन्वोल्टेन	मीटर	
17	टाइलिंग	मीटर	
18	ए.एम.एस.टी. ईटें लैंड नए इन्वोल्टेन 45 वॉट	मीटर	
19	इलेक्ट्री फिटिंग	मीटर	
20	फैसल (आवर्ण)	मीटर	
21	डिस्टेंस (सॉल्विड/लैंड का) 55 वॉट	मीटर	
22	सिंकिंग मिट्टी	मीटर	
23	आवर्ण का बालू नए सिंकिंग	मीटर	
24	आवर्ण का सिंकिंग	मीटर	
25	पूव	मीटर	
26	सिंकिंग	मीटर	
27	कमकुटूर फिटिंग सिंकिंग (ए.एम.टी. मरम्मत/कम)	मीटर	
28	सिंकिंग टोपी फैसल, कोलर फैसल	मीटर	
29	वै.सी.ई. से बालू	मीटर	
30	कॉन्स्ट्रिक्ट क्राफ	मीटर	
31	कॉन्स्ट्रिक्ट क्राफ	मीटर	
32	बाल स्ट्रॉटिंग फेंडिंग	मीटर	
33	ई-सिंकिंग कूट्ट मशीन/लैंड	मीटर	
34	पॉस्टलट कैब	मीटर	
35	ए.सी.पी.बालू	मीटर	
36	पूव क्राफ	मीटर	
37	सिंकिंग	मीटर	
38	टिप	मीटर	
39	सिंकिंग	मीटर	
40	सिंकिंग	मीटर	
41	पूव आवर्ण	मीटर	
42	सिंकिंग	मीटर	
43	ईष्टतम नया नए मरकुटूर सिंकिंग दर	मीटर	
44	ईष्टतम सिंकिंग	मीटर	
45	आवर्ण के बिना	मीटर	
46	सिंकिंग	मीटर	
47	सिंकिंग	मीटर	
48	सिंकिंग (सिंकिंग/लैंड का) 55 वॉट	मीटर	

नाम प्रधान-कामिनी नाम विकास अधिकारी/सचिव-सर्वजीत सिंह यादव
आम पंचायत-जबजौवा, विकास खण्ड-खुनियां, सिद्धार्थनगर आम पंचायत-जबजौवा, विकास खण्ड-खुनियां, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्राम पंचायत धनगढ़वा, वि.स्व. - खुनियां, सिद्धार्थनगर

अति अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत धनगढ़वा विकास खण्ड खुनियां, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मरगेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेष्टि स्थल निर्माण एस0एस0डब्ल्यूएस0, गौ-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन को अन्य योजना-नर्तन वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-06-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दे बन्द शील्ड लिफाफे में संचिव ग्राम पंचायत धनगढ़वा विकास खण्ड खुनियां जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते हैं। नि

पेपर लीक, युवाओं के साथ धोखा: पाल

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आज पार्टी के जिला कार्यालय जार्ज टाउन में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि पेपर लीक प्रकरण देश 1 के युवाओं के साथ धोखा है। एनडीए सरकार में पेपर लीक का रिकार्ड बन गया है जिसे सरकार रोकने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। गरीब वा बाप के बेटे जो कड़ी मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ समाजवादी के लोग संघर्ष करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष आज हॉडिया विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर गाँव में भी पहुंचे जहाँ विगत 17 जून को पाल समाज के पांच परिवार अग्निकांड में अपनी पूरी गृहस्थी एवं जानवर गंवा चुके हैं।



रसूलपुर अग्निकांड में पीड़ितों के घर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ितों को एक लाख रूपये की नकद धनराशि देकर उनकी मदद की तथा अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता न मिलने पर रोष जताया। सपा प्रदेश अध्यक्ष धीरेश निवासी अग्रनराथ पाल की मृत्यु पर उनके परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे एवं कटर निवासी रेहान अहमद के घर भी गए जिनमें मतदान के दिन पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा था। इस मौक

पर श्यामलाल पाल, डॉ मानसिंह यादव, अनिल यादव, सैयद इफ्तेखार हुसैन, पप्पुलाल निषाद, अग्रनराथ सिंह मौर्य, रविन्द्र यादव एडवोकेट, सुभमा पाली, पंकज यादव, नागेंद्र यादव, बबलू यादव, अभयराज, डॉ सुरेश मौर्य, मो. अहमद अंसारी, डा बहादुर मधुर, आकाश यादव, कुलदीप यादव, सुशील यादव, बच्चा यादव, राजबहादुर, शांति प्रकाश पटेल आदि मौजूद रहे।

तीन चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, कई हुए इधर से उधर

जौनपुर। एसपी डा0 अजय पाल शर्मा ने लापरवाह तीन चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया है तथा कड़ियों का कार्य क्षेत्र बदल दिया। एस पी के इस कार्रवाई के जद में ,जफराबाद चौकी प्रभारी अरविन्द यादव , गौराबादशाहपुर चौकी प्रभारी राजेश राम व खुटहन दरोगा के सर्वजीत यादव आए हैं। इसी क्रम में सिविल लाइन चौकी प्रभारी रही मिथिलेश कुमार को मडियाहूँ थाना , चुनाव सेल से राजेश्वर पांडेय को खुटहन , लाईनबाजार से राजेन्द्र नाथ को प्रभारी चौकी धनियामऊ, पुलिस लाईन से ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी को जफराबाद पुलिस चौकी का प्रभारी ,सरायमोहदीनपुर चौकी प्रभारी रामसुन्दर मौर्य को खुटहन थाना, सुरेश सिंह, उपनिरीक्षक जिला जेल चौकी प्रभारी को सिविल लाईन चौकी का दायित्व सौंपा है। एस पी के कड़े तैवर के चलते नकारा किस्म के दरोगाओ में खलबली मच गयी है।

साउथर्न फ़ेडरल यूनिवर्सिटी पीयू से करेगा एमओयू

डॉ. सुधीर को रूस से मिला विजिटिंग प्रो. सम्मान

पीयू की कुलपति प्रो वंदना सिंह ने दी बधाई

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डॉ. सुधीर के उपाध्याय को विजिटिंग प्रोफेसर का सम्मान मिला है। यह सम्मान रूस की साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, रोस्तोव-ऑन-डॉन ने विजिटिंग प्रोफेसर से सम्मानित किया गया है। डॉ. सुधीर उपाध्याय को रूस के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय ने 4 जून से 16 जून तक रूस में कई वैज्ञानिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इस क्रम में डॉ. सुधीर उपाध्याय ने गेलेंद्विज्स्क, रोस्तोव-ऑन-डॉन एवं मास्को के यूनिवर्सिटी का विजिट किया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पर्यावरण विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ उपाध्याय को यह आमंत्रण उनके शोध पत्रों की उच्च कोटि के गुणवत्ता के ही आधार पर मिला था। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने डॉ. सुधीर उपाध्याय को



रूस से मिले इस सम्मान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डॉ सुधीर जैसे शिक्षकों की प्रतिभा से विश्वविद्यालय का नाम वैश्विक पटल पर पहुँच रहा है। देश के बाहर के विश्वविद्यालयों से शैक्षिक कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन + पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के मृदा आवरण के सतत विकास की संभावनाएँ और समस्याएँ + और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक स्कूल द्वारा आयोजित +मानव जनित

भार के तहत मृदा परिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, सुरक्षा और बहाली+ पर था। डॉ. सुधीर उपाध्याय रूस के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रूसी वैज्ञानिकों, शोध छात्रों के साथ कई दिनों तक वैज्ञानिक विवेचनों में अपना अमूल्य योगदान दिए। रूस की साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ओर से प्रोफेसर मैक्सिम गोडारेव, वाइस रेक्टर, एवं प्रो. तातियाना मिकिना, प्रमुख, मृदा विज्ञान विभाग, साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने डॉ.सुधीर उपाध्याय के रिसर्च एवं वैज्ञानिक सोच को देखते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के लिए तैयार हुए। इस अनुसंधान और सहयोग गतिविधियों से दोनों विश्वविद्यालयों को लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने दोनों विश्वविद्यालयों के प्रमुख मेम्बरों से ऑनलाइन मीटिंग भी की। कहा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय साउथर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से साहटैफिक समझौता करने को तैयार है। विश्वविद्यालयों के मध्य समझौता का मुख्य एजेंडा अनुसंधान क्षेत्र में विकास, विशेष रूप से पर्यावरण और मृदा विज्ञान अनुसंधान, जल अनुसंधान, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलों की वृद्धि, फैक्टली एंड स्ट्रुक्चर एक्सचेंज प्रोग्राम इत्यादि विषयों पर है।

समाजसेवा करना ही रोटी क्लब का उद्देश्य

बहराइच। समाज में सेवा करने अपनी अलग पहचान बनाने वाली रोटी क्लब अब स्वर्ग रथ भी चलाएगी। जिसका लोकार्पण शनिवार को लखनऊ-बहराइच मार्ग पर स्थित हेमरिया में क्लब के मंडल अध्यक्ष सुनील बंसल ने किया। जिले के पदाधिकारियों को स्वर्ग रथ की चाभी सौंपी और सेवा करने की बात कही। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि रोटी क्लब 2010 से स्वर्ग रथ चलाकर समाज में सेवा करने का काम कर रहा है। आज एक और स्वर्ग रथ सेवा करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 की है, जब हमारे कार्यकर्ता ने देखा था कि तेज बारिश हो रही है और कुछ लोग डीएम चौपहे पर पेड़ के नीचे शव लेकर बैठे हुए थे। शव भीग रहा था। तभी निर्णय लिया गया था कि स्वर्ग रथ चलाकर ऐसे लोगों की भी सेवा की जाएगी। तब से निरंतर सेवा का कार्य चल रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष प्रदीप केडिया, सचिव विगत अग्रवाल, सहायक मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता, रवि कोठारी, गौरी शंकर भानीरामिका, निजिन बंसल, राजेश अग्रवाल, डॉ एस्के वर्मा, आशीष कंसल, सुनील सिंघल मौजूद रहे।

पानी की बाधित आपूर्ति को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। रसूलाबाद मोहल्ला में क्षेत्रीय जनता में पानी के लिए मचा है हाहाकार। क्षेत्रीय जनता सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदारों को बताया निरंकुश। क्षेत्रीय जनता विगत पाँच माह से पानी की बाधित सप्लाई की बहाली को लेकर सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदारों को पत्र के माध्यम से लगातार अत्यावत करा रही है लेकिन विभाग के जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंगी। पानी बहाली को लेकर आक्रोशित क्षेत्रीय जनता सहित सैकड़ों महिलाएँ 22 जून 2024 की सुबह-सुबह वाडें न0 13 की क्षेत्रीय सभासद प्रतिनिधि यशवंत साहू के माध्यम से इस बार भी विभाग के जिम्मेदारों को पत्रक देते हुए क्षेत्रीय जनता की समस्याओं से अवगत कराया गया। पत्रक में क्षेत्रीय जनता ने आक्रोश व्यक्त करते हुए यह दर्शाया है कि आप विभाग के लोगों को कई बार इस समस्या के बारे में सूचित कराया गया



आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने सम्बन्धित विभाग के जिम्मेदारों के नाम पत्रक सौंप दिया चेतावनी

लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के निरंकुश गैरजिम्मेदारी के कारण पिछले पांच माह से पानी की आपूर्ति की समस्या नहीं हुई है। सुबह-सुबह जलकल पहुँची क्षेत्रीय जनता सहित सैकड़ों महिलाओं द्वारा पानी की इस समस्या के समाधान हेतु पत्रक के माध्यम से चेतावनी दिया गया है कि यदि 24 घंटे के अंदर उक्त क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी तो 24 घंटे के पश्चात पानी की आपूर्ति नहीं होने की दशा में उक्त मोहल्ले की क्षेत्रीय जनता शंकरमण्डी से रेलवे स्टेशन की रोड, रसूलबाद स्थित डा0

माधुरी चौरसिया रोड पर जाम करेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। उक्त मौके पर प्रशांत कुमार साहू अधिका, सभासद प्रतिनिधि यशवंत साहू, जुगल किशोर, राधे श्याम, अतीत कुमार, विजय कुमार, सबीना, सबीहा, जुवेर अहमद, शाबिना बानो, अरान, नसरिन बानो, साजिदा, नोकहत बानो, रौशन, जीनत, शाहीन, नौशाबा, परवीन, नसरिन, निकहत बानो, गजाला आदी भारी संख्या में पुरुष और महिलाएँ शामिल रही।

कार्यालय : ग्राम पंचायत महुआ खुर्द, वि.खं.- खुनियांव, सिद्धार्थनगर			
अति अत्यल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना			
ग्राम पंचायत महुआ खुर्द विकास खण्ड खुनियांव, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मनरेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेठी स्थल निर्माण एस0एल0डब्ल्यू0एम0, गै-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन की अन्य योजनागत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति कार्यों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-06-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर बन्द शीटड लिफाफे में सचिव ग्राम पंचायत महुआ खुर्द विकास खण्ड खुनियांव जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते है। निविदा उन्नी दिन 04.00 बजे सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में खोली जायेगी।			
नियम व शर्तें :-			
1.	टेण्डर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा निविदा देने वालों की उपस्थिति में खोली जायेगी।	2.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) को अपने जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणित प्रति एवं आधार की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है।
3.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) सचिव ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्य स्थल पर ही करनी होगी।	4.	सामग्री आपूर्ति (फर्म) को आवेक विभाग का उद्देश्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5.	सामग्री आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही की जायेगी।	6.	सामग्री आपूर्ति की मात्रा कार्यों का नाम व स्थान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये आदेश में ही अलग से अंकित होगा। सामग्री की मात्रा कार्यों के सापेक्ष आवश्यक्तानुसार ही आपूर्ति करना होगा।
7.	सामग्री की दर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर मान्य नहीं होगा।	8.	आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार द्वारा निर्गत जी.एस.टी. का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9.	निविदा फार्म के साथ रु. 5000.00 का एक.डी.आर./टी.डी.आर. आदि जो सचिव ग्राम पंचायत के पथ में बंधक होगा, जमानत के रूप में देव होगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होगा।	10.	टेण्डर प्रस्तुतकर्ता ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों का रिस्टेयर नहीं होने चाहिए।
11.	निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सचिव ग्राम पंचायत के पास होगा।	12.	स्वीकृत निविदा (आपूर्तिकर्ता द्वारा समय से सामग्री आपूर्ति न किए जाने पर या किसी भी तरह का विवाद होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव ग्राम पंचायत को होगा।
13.	निविदा फार्म 200.00 रु. जमा कर दिनांक 27-06-2024 से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय से अपराह्न 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।	14.	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय सिद्धार्थनगर ही अनुमत्य होगा।
15.	निविदा प्रपत्र के साथ 100 रु. का स्ट्याम जमा करना होगा।	16.	आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अधिनस्था ग्रामीण अभियन्ता विभाग/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित करने पर ही भुगतान देय होगा।

सामग्री का विवरण			
क्र.सं	सामग्री का नाम	दर	
1	ईट प्रान क्लो	प्रति टन	
2	सेन्ट	प्रति बोरे	
3	खीरा	प्रति कुन्तल	
4	मैदा कानू (सेरन)	प्रति पत्र मै	
5	मसिन कानू	प्रति पत्र मै	
6	मसिन कानू	प्रति पत्र मै	
7	पसर मिट्टी कानू	प्रति पत्र मै	
8	प्रस झेटी ईट मिट्टी	प्रति पत्र मै	
9	इयरलॉन्ग ईट 80 एस्पल	प्रति अउर	
10	रॉबिन	प्रति पत्र मै	
11	अवक पेट	प्रति ली.	
12	सलोयन	प्रति कं.जे.	
13	रिस्टेनर	प्रति ली.	
14	ड्रगू पाईप सॉरी स्पाइर	प्रति सेंम	
15	सॉन्कोई (कोबेट, मॉनर, डेक्रेट) 3X4	प्रति सेंम	
16	सौर लहेट 45 वत वन इन्टालेशन 45 वत	प्रति सेंम	
17	टाइल	प्रति सेंम	
18	ए.एम.सी.टी. स्ट्रीट लाईट वन इन्टालेशन 45 वत	प्रति सेंम	
19	होल्डर फिक्शन	प्रति ग्राहट	
20	पैसल (आवत)	प्रति कं.जे.	
21	इस्टिक (सॉलर/लॉक) का) 88 स्ट्रीट	प्रति सेंम	
22	सॉरी मिट्टी	प्रति पत्र मै	
23	अवतार पा चानू वर मिनिंग	प्रति केंटी/केटी	
24	अरो की रजपान	प्रति सेंम	
25	पूच	प्रति कुन्तल	
26	सिक्किया	प्रति कुन्तल	
27	कमकुटर विन्ट सिल्वर (एच.पी.)मायक/बन	प्रति सेंम	
28	सैलोको ट्रेडर केनर केनर	प्रति सेंम	
29	ए.एम.सी.टी. से कानू	प्रति टाट	
30	कॉन्ट्रेन कन	प्रति सेंम	
31	पॉलिथिन	प्रति कटरा वन वत वन सेकर सॉरी	
32	वात सीटिंग पीटर	प्रति सेंम	
33	ई-निका कृश नाडी/लीडर	प्रति सेंम	
34	पॉल्टिक केक	प्रति सेंम	
35	ए.एम.सी.कानू	प्रति सेंम	
36	पूच कन	प्रति कुन्तल	
37	पूच	प्रति कुन्तल	
38	पूच	प्रति कुन्तल	
39	पूच	प्रति कुन्तल	
40	पूच	प्रति कुन्तल	
41	पूच अला	प्रति कुन्तल	
42	सर्वशे सखी	प्रति सेंम	
43	ईथरपन मसमान वन नकट्टी सिल्वर टर	प्रति सेंम	
44	ईथरपन सिंकर	प्रति सेंम	
45	आरतीके केन	प्रति सेंम	
46	स्टडी वन क्लव/अनकट्टी केन, डेयनरी, फोफोपन अदि	प्रति सेंम	
47	स्टडी सखी	प्रति ली.	
48	सर्वाईनी बिट (डेन, कुपार, केच, पांच, ड्रगू)	प्रति बिट (सेट)	

ग्राम प्रधान- निवेद कुमार
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव- मुकेश कुमार

कार्यालय : ग्राम पंचायत लटेर, वि.खं.- खुनियांव, सिद्धार्थनगर			
अति अत्यल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना			
ग्राम पंचायत लटेर विकास खण्ड खुनियांव, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मनरेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेठी स्थल निर्माण एस0एल0डब्ल्यू0एम0, गै-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन की अन्य योजनागत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति कार्यों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-06-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर बन्द शीटड लिफाफे में सचिव ग्राम पंचायत लटेर विकास खण्ड खुनियांव जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते है। निविदा उन्नी दिन 04.00 बजे सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में खोली जायेगी।			
नियम व शर्तें :-			
1.	टेण्डर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा निविदा देने वालों की उपस्थिति में खोली जायेगी।	2.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) को अपने जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणित प्रति एवं आधार की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है।
3.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) सचिव ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्य स्थल पर ही करनी होगी।	4.	सामग्री आपूर्ति (फर्म) को आवेक विभाग का उद्देश्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5.	सामग्री आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही की जायेगी।	6.	सामग्री आपूर्ति की मात्रा कार्यों का नाम व स्थान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये आदेश में ही अलग से अंकित होगा। सामग्री की मात्रा कार्यों के सापेक्ष आवश्यक्तानुसार ही आपूर्ति करना होगा।
7.	सामग्री की दर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर मान्य नहीं होगा।	8.	आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार द्वारा निर्गत जी.एस.टी. का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9.	निविदा फार्म के साथ रु. 5000.00 का एक.डी.आर./टी.डी.आर. आदि जो सचिव ग्राम पंचायत के पथ में बंधक होगा, जमानत के रूप में देव होगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होगा।	10.	टेण्डर प्रस्तुतकर्ता ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों का रिस्टेयर नहीं होने चाहिए।
11.	निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सचिव ग्राम पंचायत के पास होगा।	12.	स्वीकृत निविदा (आपूर्तिकर्ता द्वारा समय से सामग्री आपूर्ति न किए जाने पर या किसी भी तरह का विवाद होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव ग्राम पंचायत को होगा।
13.	निविदा फार्म 200.00 रु. जमा कर दिनांक 27-06-2024 से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय से अपराह्न 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।	14.	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय सिद्धार्थनगर ही अनुमत्य होगा।
15.	निविदा प्रपत्र के साथ 100 रु. का स्ट्याम जमा करना होगा।	16.	आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अधिनस्था ग्रामीण अभियन्ता विभाग/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित करने पर ही भुगतान देय होगा।

सामग्री का विवरण			
क्र.सं	सामग्री का नाम	दर	
1	ईट प्रान क्लो	प्रति टन	
2	सेन्ट	प्रति बोरे	
3	खीरा	प्रति कुन्तल	
4	मैदा कानू (सेरन)	प्रति पत्र मै	
5	मसिन कानू	प्रति पत्र मै	
6	मसिन कानू	प्रति पत्र मै	
7	पसर मिट्टी कानू	प्रति पत्र मै	
8	प्रस झेटी ईट मिट्टी	प्रति पत्र मै	
9	इयरलॉन्ग ईट 80 एस्पल	प्रति अउर	
10	रॉबिन	प्रति पत्र मै	
11	अवक पेट	प्रति ली.	
12	सलोयन	प्रति कं.जे.	
13	रिस्टेनर	प्रति ली.	
14	ड्रगू पाईप सॉरी स्पाइर	प्रति सेंम	
15	सॉन्कोई (कोबेट, मॉनर, डेक्रेट) 3X4	प्रति सेंम	
16	सौर लहेट 45 वत वन इन्टालेशन 45 वत	प्रति सेंम	
17	टाइल	प्रति सेंम	
18	ए.एम.सी.टी. स्ट्रीट लाईट वन इन्टालेशन 45 वत	प्रति सेंम	
19	होल्डर फिक्शन	प्रति ग्राहट	
20	पैसल (आवत)	प्रति कं.जे.	
21	इस्टिक (सॉलर/लॉक) का) 88 स्ट्रीट	प्रति सेंम	
22	सॉरी मिट्टी	प्रति पत्र मै	
23	अवतार पा चानू वर मिनिंग	प्रति केंटी/केटी	
24	अरो की रजपान	प्रति सेंम	
25	पूच	प्रति कुन्तल	
26	सिक्किया	प्रति कुन्तल	
27	कमकुटर विन्ट सिल्वर (एच.पी.)मायक/बन	प्रति सेंम	
28	सैलोको ट्रेडर केनर केनर	प्रति सेंम	
29	ए.एम.सी.टी. से कानू	प्रति टाट	
30	कॉन्ट्रेन कन	प्रति सेंम	
31	पॉलिथिन	प्रति कटरा वन वत वन सेकर सॉरी	
32	वात सीटिंग पीटर	प्रति सेंम	
33	ई-निका कृश नाडी/लीडर	प्रति सेंम	
34	पॉल्टिक केक	प्रति सेंम	
35	ए.एम.सी.कानू	प्रति सेंम	
36	पूच कन	प्रति कुन्तल	
37	पूच	प्रति कुन्तल	
38	पूच	प्रति कुन्तल	
39	पूच	प्रति कुन्तल	
40	पूच	प्रति कुन्तल	
41	पूच अला	प्रति कुन्तल	
42	सर्वशे सखी	प्रति सेंम	
43	ईथरपन मसमान वन नकट्टी सिल्वर टर	प्रति सेंम	
44	ईथरपन सिंकर	प्रति सेंम	
45	आरतीके केन	प्रति सेंम	
46	स्टडी वन क्लव/अनकट्टी केन, डेयनरी, फोफोपन अदि	प्रति सेंम	
47	स्टडी सखी	प्रति ली.	
48	सर्वाईनी बिट (डेन, कुपार, केच, पांच, ड्रगू)	प्रति बिट (सेट)	

ग्राम प्रधान- जेखन
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव- मोो तारिक खान

कार्यालय : ग्राम पंचायत गोरया, वि.खं.- खुनियांव, सिद्धार्थनगर			
अति अत्यल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना			
ग्राम पंचायत गोरया विकास खण्ड खुनियांव, जिला-सिद्धार्थनगर द्वारा मनरेगा, पंचम वित्त, 15वां वित्त आयोग, अनेठी स्थल निर्माण एस0एल0डब्ल्यू0एम0, गै-सदन में खाद्य आपूर्ति एवं ग्राम पंचायत में संचालित शासन की अन्य योजनागत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति कार्यों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 27-06-2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक उक्त सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर बन्द शीटड लिफाफे में सचिव ग्राम पंचायत गोरया विकास खण्ड खुनियांव जिला-सिद्धार्थनगर कार्यालय के निविदा बाक्स में अपनी निविदा दे सकते है। निविदा उन्नी दिन 01.00 बजे सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में खोली जायेगी।			
नियम व शर्तें :-			
1.	टेण्डर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा निविदा देने वालों की उपस्थिति में खोली जायेगी।	2.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) को अपने जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणित प्रति एवं आधार की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है।
3.	सामग्री आपूर्तिकर्ता (फर्म) सचिव ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्य स्थल पर ही करनी होगी।	4.	सामग्री आपूर्ति (फर्म) को आवेक विभाग का उद्देश्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5.	सामग्री आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही की जायेगी।	6.	सामग्री आपूर्ति की मात्रा कार्यों का नाम व स्थान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये आदेश में ही अलग से अंकित होगा। सामग्री की मात्रा कार्यों के सापेक्ष आवश्यक्तानुसार ही आपूर्ति करना होगा।
7.	सामग्री की दर पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर मान्य नहीं होगा।		

मुख्यमंत्री ने होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा की

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर आहुत एक उच्चस्तरीय बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था का विषय हो अथवा आपदाकाल में जनसामान्य के सहयोग का अवसर, होमगार्ड स्वयंसेवकों ने हर समय अपनी कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाभावना सराहनीय है। विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 76 हजार से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं। लगभग 75 हजार इयूटी प्लांट पर प्रतिस्थापित हैं। इनमें से प्रति वर्ष लगभग 4000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2033 तक 42 हजार से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में नई नियुक्ति की प्रक्रिया



- ▶ कानून व्यवस्था का विषय हो अथवा आपदाकाल में जनसामान्य के सहयोग का अवसर, होमगार्ड स्वयंसेवकों ने हर समय अपनी कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया : मुख्यमंत्री
- ▶ होमगार्ड स्वयंसेवकों की नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी कर लेनी चाहिए
- ▶ दो चरणों में 21-21 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनाती करने का लक्ष्य लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाएँ

समय से पूरी कर लेनी चाहिए। दो चरणों में 21-21 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनाती करने का लक्ष्य लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास

पहले से ही दृढ़ मैनपावर है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते

हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार करवाएँ। वर्तमान में सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों की फिजिकल फिटनेस के लिए उनकी साप्ताहिक ड्रिल भी कराई जानी चाहिए।

खनिज अन्वेषण कार्यों को किया जायेगा और अधिक सुदृढ़ व मजबूत

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। निदेशक, भूतत्व एवं खनिज विभाग उत्तर प्रदेश माला श्रीवास्तव को अध्यक्षता में शुक्रवार को भूतत्व एवं खनिज विभाग द्वारा चलाये जा रहे खनिज अन्वेषण कार्यों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निदेशालय में क्षेत्रीय अन्वेषण सत्र 2023-24 में संचालित 05 खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ के अधिकारियों के साथ की गई, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ के श्री अमित धारवाड़कर, उपमहानिदेशक, श्री हेमन्त कुमार, निदेशक तकनीकी समन्वय प्रभाग, श्री पुष्पेश नायगुण, निदेशक तथा भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, लखनऊ के डॉ० नवीन कुमार दास, अपर निदेशक/प्रभावी अन्वेषण उपस्थित रहे। बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए माला श्रीवास्तव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिए कि खनिज अन्वेषण कार्यों को और अधिक सुदृढ़ व मजबूत किया

जाय। इसके लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें। बैठक खनिज भवन, खनिज निदेशालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रमी परिषद की 48वीं बैठक में अनुमोदित 05 अन्वेषण कार्यक्रम यथा- जनपद ललितपुर के ग्राम पिपरिया व हंसरा क्षेत्र में पायी गयी प्लेटिना समूह की धातुओं तथा लखनऊ क्षेत्र में संचालित एलकोनाइट (फोटाश) खनिज की खोज, जनपद झाँसी के मऊरानीपुर में लौह अयस्क की खोज एवं जनपद सोनभद्र के ग्राम ससनई-बसुहरी क्षेत्र में लाइमस्टोन खनिज के प्राथमिक अन्वेषण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी। परियोजनाओं में कार्यरत भूवैज्ञानिकों द्वारा पी०पी०टी० के माध्यम से कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपमहानिदेशक द्वारा अब तक किये अन्वेषण कार्यों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया गया कि सभी एकात्रित नमूनों का रसायनिक विश्लेषण करने के उपरान्त भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकी मानचित्रण के आधार पर वेधन कार्य कराये जाने हेतु स्थलों को चिन्हित कर लिया जाये।

भाजपा सरकार के वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के सभी दावे झूठे और कागजी : अखिलेश यादव

▶ उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान एक बड़ा बन गया है घोटाळा

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के सभी दावे झूठे और कागजी हैं। इस सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश की जनता मौसम की मार झेलने पर मजबूर है। इस साल भीषण गर्मी और लू से सैकड़ों लोगों की मौत हो गयी। विकास के नाम पर विनाश करना भाजपा सरकार की फितरत है। नतीजतन प्राकृतिक असंतुलन के चलते मौसम, पर्यावरण में भारी अंतर आ गया है, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। नए शहरों के नाम पर कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं। पेड़ों का



निर्ममता से कटान होने से पर्यावरण संतुलन बिगाड़ता जा रहा है। भाजपा सरकार के वृक्षारोपण अभियान को भी जुमलेबाजी बना दिया है। मुख्यमंत्री जी 2023 में 36 करोड़ 15 लाख से अधिक पौधारोपण का दावा करते हैं। इसके पहले 2022 में 35 करोड़ से ज्यादा, 2021 में 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का दावा किया गया है। इससे पहले भी हर वर्ष पौधारोपण के बड़े-बड़े दावे किये गये हैं लेकिन ये वृक्ष कहां लगाये गये हैं इसका कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जाता है।

अखिलेश यादव ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर के वाणी निवासी सीआरपीएफ शहीद जवान सुभाष यादव को अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जवान श्री सुभाष यादव के देश की सेवाओं के लिए सभी को गर्व है। उन्होंने शहीद जवान के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।

भाजपा सरकार ने फाईलों की जगह अगर पौधारोपण जमीन पर किया होता तो भीषण गर्मी से जनता का इतना बुरा हाल न होता। इस भीषण गर्मी में जनता को कुछ राहत मिलती। गर्मी में सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। अस्पताल बीमारों से भरे पड़े हैं। उनके इलाज की सुचारु व्यवस्था न होने से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान एक बड़ा घोटाळा बन गया है। भाजपा सरकार अब तक जितने पौधे लगाने का दावा करती आई है अगर उनका जोड़ हो तो प्रदेश में कोई जगह अब आगले वृक्षारोपण के लिए नहीं बची है।

अवधानामा के सीनीयर रुकन शकील रिज़वी को सदमा, भाई का इतिहास

▶ मौत एक हकीकत है जिससे हर जी-रूह को एक ना एक दिन रूबरू होना है: मौलाना सईद-उल हसन

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। सीनीयर सहाफी और अवधानामा के सीनीयर रुकन काज़िम रज़ा शकील रिज़वी के बड़े भाई आबिद रज़ा परवेज़ इबने मुहम्मद रज़ा का गुजिश्ता नसफ़ शब के करीब इतिहास हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 55 बरस थी। आबिद रज़ा तकरीबन एक साल से अलील थे और उनका मुस्तफ़िल ईलाज चल रहा था लेकिन तबीयत ऐसी नहीं थी कि कोई मनफ़ी ख़्याल ज़हन में आता। मगर जब वक्त मौऊद आ जाता है तो इस में कोई ताख़ीर मशीयत इलाहि की तरफ़ से नहीं होती। मरहूम आबिद रज़ा की नमाज़ जनाज़ा कर्बला अब्बास बाग़ ठाकुरगंज में मौलाना मंज़र सादिक़ ने पढ़ाई और मौलाना सईद उल-हसन ने मजलिस को खिताब करते हुए मौत और हयात के फलसफ़ा पर रोशनी डाली और कहा कि मौत एक हकीकत है जिससे हर जी-रूह को एक ना एक दिन रूबरू होना है। मौलाना ने कहा कि मौत आख़िरत का दरवाज़ा है और आलम-ए-बर्ख़र्क़ भी खुदा की तरफ़ से एक रहमत है कि मरहूम के विरसा



की तरफ़ से नेक-आमाल का सवाब पहुंचता रहता है। बादे मजलिस मरहूम आबिद रज़ा के जसद-ए-खाकी को कर्बला अब्बास बाग़ में ही सपुर्द-ए-खाक़ किया गया। नमाज़-ए-जनाज़ा और तदफ़ीन में अइज़्जा और अहबाब बड़ी तादाद में मौजूद थे। आबिद रज़ा मरहूम के पसमानदान में दो बेटे और दो बेटियाँ हैं। आबिद रज़ा मरहूम की सोइम की मजलिस बरोज़ इतवार शाम 07 बजे रोज़-ए-हज़रत अली, सरफ़राज़गंज में होगी जिसे मौलाना मंज़र सादिक़ खिताब करेंगे।

सामूहिक प्रयासों से यूपी को कृषि क्षेत्र में बनाना है अग्रणी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादकता में राष्ट्रीय औसत उत्पादकता के करीब पहुंच चुका है। इसे सामूहिक प्रयास से और आगे ले जाना है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए सरकार ने 10 लाख किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करावाये हैं। यह बात शनिवार को सर्किट हाउस गोरखपुर स्थित एनेकसी भवन में मंडलीय खरीफ़ उत्पादकता गोष्ठी-2024 का आयोजन के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों तथा सहभागी किसानों से अपील की कि हमें सामूहिक प्रयासों से प्रदेश को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाना है। उन्होंने किसानों उनकी प्रत्येक समस्या का उचित समाधान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में भी ध्यान दें जिससे उनकी आजीविका बढ़ सके।

नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, मोदी-योगी ने जताया दुख

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्रति अपनी गहरी निष्ठा के साथ-साथ अपने नेतृत्व के लिए भी जाने जाते थे। एक वैदिक कर्मकांड (अनुष्ठान) विद्वान, उन्हें रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करने के लिए वेदों की सभी शाखाओं के 121 विद्वानों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। वागवानी के मूल निवासी दीक्षित कथित तौर पर 17वीं शताब्दी के



प्रतिष्ठित काशी विद्वान गागा भट्ट के वंशज थे, जिन्होंने लगभग 350 साल पहले 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य दीक्षित के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीक्षित का निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने लिखा कि देश के मूर्धन्य विद्वान और साइबेद

विद्यालय के यजुर्वेदाध्यापक लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के निधन का दुःखद समाचार मिला। दीक्षित जी काशी की विद्वत् परंपरा के यशपुरुष थे। काशी विश्वनाथ धाम और राम मंदिर के लोकार्पण और पर मुझे उनका सान्निध्य मिला। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया।

ईद ग़दीर से ईद मोबाहेला हफत-ए-विलायत जोशो खरोश के साथ मनायें: मौलाना सैफ अब्बास

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकबी ने ईद ग़दीर की पहले से बधाई देते हुए कहा कि मोमेनीन अभी से ईद ग़दीर की तैयारियों में मस्रूफ़ हो जाएँ और अपने अपने एलाकों और महल्लों में इस ईद ग़दीर की अहमियत को निगाह में रखते हुए इस की तयारियों के लिए आमादा हो जाएँ क्यों कि ईद ग़दीर का दिन अल्लाह और मुहम्मद स०अ०व० के परिवार की सबसे बड़ी ईद में से एक है। पैगंबर स०अ० ने इस दिन ईद मनाई और हर नबी ने इस दिन की अहमियत का कायल रहा है। इसलिए, लोगों को ईद ग़दीर के दिन जश्न मनाएँ। क्यों कि ईद ग़दीर का बहुत महत्व है। क़यामत के दिन, चार दिनों को दुल्हन की तरह अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा। ईद फ़ित्र,



ईद कुबान, जुमा, और 'ईद ग़दीर'। ग़दीर का दिन ईद फ़ित्र, ईद कुबान और जुमा के बीच चँद जैसा होगा। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि ईद ग़दीर के दिन कई सवाब के काम हैं जो लोगों को करना चाहिए जैसे कि गुस्स करना, दो रकाआत नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, दुआएँ

डॉ० अम्मार रिज़वी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात



अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉ० अम्मार रिज़वी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में आज प्रातः भेंट कर उनसे राजनैतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण

जानकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहने पाये कोई भी पात्र व्यक्ति: केशव

▶ सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की जाँच करा लिया जाये

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा राज्यमंत्री कारागार/प्रभावी मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ शुक्रवार को माँ शीतला देवी अतिथि गृह, सयारा, कौशांबी में जनपद कौशांबी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन/फरियारियों की छोटी-छोटी समस्याओं का निस्तारण ब्लाक स्तर, तहसील स्तर एवं थाना स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाय, जिससे आमजन/फरियारी को जिला स्तर या शासन स्तर तक न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि पीड़ित व्यक्ति को

जानकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहने पाये कोई भी पात्र व्यक्ति: केशव

▶ सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की जाँच करा लिया जाये

अवधानामा ब्यूरो

न्याय हर हाल में मिले तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि 03 वर्ष से अधिक एक तहसील में कार्य कर रहे लेखपाल का दूसरे तहसील में स्थानान्तरण कर दिया जाय। इसी प्रकार 03 वर्ष से अधिक एक विकास खण्ड में कार्यरत सचिव, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को दूसरे ब्लॉक में एवं थाने में कार्यरत सिपाही/दरोगा को दूसरे थानों में स्थानान्तरण कर दिया जाय। सभी स्थानान्तरण नियमानुसार निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार ही किये जायें। उन्होंने कहा कि राजस्व के मामलों में राजस्व अधिकारियों की



समिति गठित कर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर मामलों का निस्तारण कराया जाय। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में भी प्रगति लाने के निदेश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माणधीन परियोजनाओं यथा-रामवन मग्न मार्ग एवं प्रयागराज एयरपोर्ट से उत्कलन स्थल कौशांबी तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य, आदि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं तेजी से पूर्ण कराया जाय। निर्माणधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाय, गुणवत्ता न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

का केन्द्र-विन्दु बताते हुए अनमं देश प्रेम की भावना भरने तथा मानवता व नैतिक मूल्यों से शिक्षित करने पर जोर दिया और कहा कि हमें शहीद मंजर अंशु सक्सेना से प्रेरणा लेकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रमाणिकता से कार्य करते हुए समाज के लिए जीना चाहिए। शहीद स्मृति सभा में जयति भारत के संरक्षक रविन्द्र नाथ ने शहीद मेजर अंशु सक्सेना के जीवन वृत्त का वर्णन करते हुए कहा कि अंशु सक्सेना ने अपनी माता जी के इशानुसार भारतीय सेना में भर्ती होने का निश्चय किया था। क्योंकि एम् ए अर्धशास्त्र करने के बाद आप आई थी और सी डी एस दोनों परीक्षाओं में चयनित हुए थे। कारगोल युद्ध में टाइगर हिल को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। मात्र 36 वर्ष की आयु में कुपवाड़ा में उवावदियों से हुए शंघर्ष में आप ने वीरगति पाई थी।

करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अपनी समस्त प्रतिभा छमता देश के सर्वोर्गीण विकास में लगाए तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता विध्वंसिनी कुमार ने कहा कि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृति कर ही राष्ट्र को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। देश के खातीर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों का सम्मान और उनके सपनों को साकार